

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2014/पौष 19, 1935

No. 73]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2014/PAUSA 19, 1935

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2014

का.आ. 73(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 2 जुलाई 2013 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1979(अ), तारीख 02 जुलाई, 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, हरियाणा राज्य के मेवात जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् “दैनिक भास्कर”, तारीख 7 अगस्त, 2013 और “दि इण्डियन एक्सप्रेस”, तारीख 7 अगस्त, 2013 में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम, की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के मेवात जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या रहित संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम : मेवात

क्रम संख्या I	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	किला सं. /खसरा सं.	क्षेत्रफल हैक्टर में	भूस्वामियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	तावडू	(1) सेविका	व्यक्तिगत	कृषि	5//12/2	0.0330	मजीद, सुभान खॉं, रहमान, इसराईल, पुत्रान करीमबक्श हर चार समभाग 1/2 भाग, खुबी, मुदन, सुमर मौहम्मद पुत्रान सुलेमान पुत्र अल्लाबक्श हर तीन समभाग 1/8 भाग, राकेश, हेमू पुत्रान व सीमा, रेनू पुत्रीयान रनजीत पुत्र तेजराम हर चार समभाग 3/100 भाग, श्रीमति ऊषा पत्नी जगदीष पुत्र नानगा 69/200 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//13	0.1386	उमरशाह पुत्र जुहरपाह पुत्र छोटेषाह 1/9 भाग, राजेश पुत्र व संगीता पुत्री मुनीराम पुत्र चेताराम हर दो समभाग 11/108 भाग, श्रीमति हुसैनी पत्नी बदलू पुत्र सुफेदा 67/324 भाग, श्रीमति हफीजन बैगम पत्नी आसीन खॉं पुत्र सुफेदा 67/162 भाग, धर्मवीर पुत्र कीषनलाल पुत्र हरनाम 1/6 भाग,
			व्यक्तिगत	कृषि	5//14	0.1690	उमरशाह पुत्र जुहरपाह पुत्र छोटेषाह 1/9 भाग, राजेश पुत्र व संगीता पुत्री मुनीराम पुत्र चेताराम हर दो समभाग 11/108 भाग, श्रीमति हुसैनी पत्नी बदलू पुत्र सुफेदा 67/324 भाग, श्रीमति हफीजन बैगम पत्नी आसीन खॉं पुत्र सुफेदा 67/162 भाग, धर्मवीर पुत्र कीषनलाल पुत्र हरनाम 1/6 भाग,
			व्यक्तिगत	कृषि	5//15/1	0.0945	उमरशाह पुत्र जुहरपाह पुत्र छोटेषाह 1/9 भाग, राजेश पुत्र व संगीता पुत्री मुनीराम पुत्र चेताराम हर दो समभाग 11/108 भाग, श्रीमति हुसैनी पत्नी बदलू पुत्र सुफेदा 67/324 भाग, श्रीमति हफीजन बैगम पत्नी आसीन खॉं पुत्र सुफेदा 67/162 भाग, धर्मवीर पुत्र कीषनलाल पुत्र हरनाम 1/6 भाग,
			व्यक्तिगत	कृषि	5//15/2	0.0517	सब्बर पुत्र दीन मौहम्मद पुत्र सुगडा 10/29 भाग, श्रीमति मजीदन पत्नी कासम पुत्र दीन मौहम्मद 9/29 भाग, लक्ष्मीनारायण पुत्र ख्यालीराम पुत्र पल्टूराम 10/29 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//18	0.0185	रसूला खॉं, फजरुदीन पुत्रान नबी खॉं पुत्र खुदाबक्श हर दो समभाग 2/3 भाग, सत्तार पुत्र नबी खॉं पुत्र खुदाबक्श 11/48 भाग, याकूब पुत्र यासीन पुत्र मोहरू 5/48 भाग, वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//19	0.1429	मजीद, सुभान खॉं, रहमान, इसराईल पुत्रान करीमबक्श हर चार समभाग 1/2 भाग, खुबी, मुदन, सुमर मौहम्मद पुत्रान सुलेमान पुत्र अल्लाबक्श हर तीन समभाग 1/8 भाग, राकेश,
							हेमू पुत्रान व सीमा, रेनू पुत्रीयान रनजीत पुत्र तेजराम हर चार समभाग 3/100 भाग, श्रीमति ऊषा पत्नी जगदीष पुत्र नानगा 69/200 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//20	0.1724	मजीद, सुभान खॉं, रहमान, इसराईल पुत्रान करीमबक्श हर चार समभाग 1/2 भाग, खुबी, मुदन, सुमर मौहम्मद पुत्रान सुलेमान पुत्र अल्लाबक्श हर तीन समभाग 1/8 भाग, राकेश, हेमू पुत्रान व सीमा, रेनू पुत्रीयान रनजीत पुत्र तेजराम हर चार समभाग 3/100 भाग, श्रीमति ऊषा पत्नी जगदीष पुत्र नानगा 69/200 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	4//4	0.0975	रसूला, कपूरा पुत्रान रायखॉं पुत्र राज खॉं हर दो समभाग रहन हिस्सा 2/3 भाग, इस्लाम पुत्र मोहर खॉं पुत्र राज खॉं रहन हिस्सा 1/3 भाग,
			व्यक्तिगत	कृषि	4//5	0.1218	रसूला, कपूरा पुत्रान रायखॉं पुत्र राज खॉं हर दो समभाग 2/3 भाग, इस्लाम पुत्र मोहर खॉं पुत्र राज खॉं 1/3 भाग, वासी देह
			व्यक्तिगत	कृषि	4//7	0.0412	रसूला, कपूरा पुत्रान रायखॉं पुत्र राज खॉं हर दो समभाग रहन हिस्सा 2/3 भाग, इस्लाम पुत्र मोहर खॉं पुत्र राज खॉं रहन हिस्सा 1/3 भाग,
			व्यक्तिगत	कृषि	4//8/1	0.0677	रसूला, कपूरा पुत्रान रायखॉं पुत्र राज खॉं हर दो समभाग 2/3 भाग, इस्लाम पुत्र मोहर खॉं पुत्र राज खॉं 1/3 भाग, वासी देह

		व्यक्तिगत	कृषि	4//8/2	0.0780	रसूला, कपूरा पुत्रान रायखों पुत्र राज खों हर दो समभाग वासी देह
		व्यक्तिगत	कृषि	4//9	0.1591	रसूला, कपूरा पुत्रान रायखों पुत्र राज खों हर दो समभाग 2/3 भाग, इस्लाम पुत्र मोहर खों पुत्र राज खों 1/3 भाग, वासी देह
		व्यक्तिगत	कृषि	4//10	0.1300	माखन लाल पुत्र मल्हूराम पुत्र ठाकरिया 3/4 भाग वासीदेह अन्तराम पुत्र हेतराम पुत्र मतहूराम 1/4 भाग, वासी साडोद
		व्यक्तिगत	कृषि	4//11/1	0.0331	माखन लाल पुत्र मल्हूराम पुत्र ठाकरिया 3/4 भाग वासीदेह अन्तराम पुत्र हेतराम पुत्र मतहूराम 1/4 भाग, वासी साडोद
		व्यक्तिगत	कृषि	3//1	0.0505	रसूला, कपूरा पुत्रान रायखों पुत्र राज खों हर दो समभाग 2/3 भाग, इस्लाम पुत्र मोहर खों पुत्र राज खों 1/3 भाग, वासी देह
	(2) रानीयाकी	व्यक्तिगत	कृषि	8//4	0.0200	मौहम्मद असलूप, याकूब, अली मौहम्मद, अय्यूब, नूरदीन, सदीक पुत्रान सफेदी पुत्र अखेसिंह हर छः समभाग 1/2 भाग, अलादीन, वहीदीन पुत्रान दीन मौहम्मद पुत्र निवाज खों हर दो समभाग 1/3 भाग, अब्बास, सेहरून, सद्दाम हुसैन पुत्रान इमामुदीन पुत्र दीन मौहम्मद हरतीन समभाग 1/6 भाग,
		व्यक्तिगत	कृषि	8//7	0.0284	मौहम्मद असलूप, याकूब, अली मौहम्मद, अय्यूब, नूरदीन, सदीक पुत्रान सफेदी पुत्र अखेसिंह हर छः समभाग 1/2 भाग, अलादीन, वहीदीन पुत्रान दीन मौहम्मद पुत्र निवाज खों हर दो समभाग 1/3 भाग,
						भाग, अब्बास, सेहरून, सद्दाम हुसैन पुत्रान इमामुदीन पुत्र दीन मौहम्मद हरतीन समभाग 1/6 भाग,
		व्यक्तिगत	कृषि	8//8	0.1184	उन्नस पुत्र चाद सिंह पुत्र महता 3/16 भाग, निसार अहमद, जमील अहमद पुत्रान फजरु पुत्र छंगा हर दो समभाग 3/8 भाग, हारून, नसरु, अली मौहम्मद पुत्रान चाहत पुत्र महता हर तीन समभाग 7/16 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	8//9	0.1246	उन्नस पुत्र चाद सिंह पुत्र महता 3/16 भाग, निसार अहमद, जमील अहमद पुत्रान फजरु पुत्र छंगा हर दो समभाग 3/8 भाग, हारून, नसरु, अली मौहम्मद पुत्रान चाहत पुत्र महता हर तीन समभाग 7/16 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	8//10	0.0455	श्रीमति देवीबाई पुत्री साधूसिंह पुत्र चुन्नूराम 1/5 भाग, शेर मौहम्मद उर्फ छज्जू पुत्र असीला पुत्र हरिसिंह 2/5 भाग, नूरु, रमजान, सहाबुदीन पुत्रान अजीम पुत्र हरिसिंह हर तीन समभाग 2/5 भाग, वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	8//11/1	0.0209	शमशुदीन पुत्र पिताब खों पुत्र भोलाबक्श वासी चन्दूहूला दिल्ली
		व्यक्तिगत	कृषि	7//13	0.0501	शमशुदीन पुत्र नसीब खों पुत्र टुण्डू वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	7//14	0.1343	कल्लू, मल्लू, दिलवा, नूर मौहम्मद पुत्रान बढन पुत्र घोसी हर चार समभाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	7//15	0.1155	नन्हे खों पुत्र घोसी पुत्र बोदन वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	7//18	0.0145	दीन मौहम्मद, असरु पुत्रान जग्गू पुत्र लीला हर दो समभाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	7//19	0.1168	देवराज, सन्तराम, रम्जन गिरराज पुत्रान टोडर पुत्र चन्दर हर चार समभाग 1/2 भाग, शमशेर, बपीर पुत्रान हिम्मत पुत्र मल खों हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	7//20	0.1356	नन्हे खों पुत्र घोसी पुत्र बोदन वासीदेह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//16	0.0759	ग्राम पचांयत
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//22/2	0.0382	ग्राम पचांयत
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//23	0.1485	ग्राम पचांयत
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//24	0.1112	ग्राम पचांयत
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//25	0.0093	ग्राम पचांयत
	(3) गुरनावट	व्यक्तिगत	कृषि	8//22/2	0.0682	अख्तर, उमरदीन पुत्रान सुबह खों पुत्र मंगला हर दो समभाग 1/2 भाग, नूमान, मन्नान, हारून, जाकिर पुत्रान सुल्तान पुत्र मुगला हर चार समभाग 1/2 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	8//23	0.1017	रहमान खों, नवल खों पुत्रान भूरे खों पुत्र नजफ खों हर दो समभाग 1/2 भाग, अहमद, ईसा, मूसा, इब्राहीम, शेर खों, रती पुत्रान मौजूदा पुत्र शेर खों हर छः समभाग 1/2 भाग वासीदेह

				व्यक्तिगत	कृषि	8//24/1	0.0656	हाजर खॉ, रमजान, हारुन, कशीम पुत्रान जौन खॉ पुत्र जैनदा हर चार समभाग 1/2 भाग, सुभाष खॉ पुत्र जैनदा पुत्र भोला 1/2 भाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	8//24/2	0.0060	रहमान पुत्र कान्दूला पुत्र निवाज खॉ 1/4 भाग, हारुन पुत्र धूप खॉ पुत्र निवाज खॉ रहन हिस्सा 80/177 भाग, बिला रहन हिस्सा 211/708 भाग, अब्दुल रसाक पुत्र रहमत पुत्र छोटू 80/177 भाग वासीदेह मुरतहन
				व्यक्तिगत	कृषि	8//25/1	0.0013	रहमान पुत्र कान्दूला पुत्र निवाज खॉ 1/4 भाग, हारुन पुत्र धूप खॉ पुत्र निवाज खॉ रहन हिस्सा 80/177 भाग, बिला रहन हिस्सा 211/708 भाग, अब्दुल रसाक पुत्र रहमत पुत्र छोटू 80/177 भाग वासीदेह मुरतहन
				व्यक्तिगत	कृषि	8//25/2	0.0308	रहमान पुत्र कान्दूला पुत्र निवाज खॉ 1/4 भाग, हारुन पुत्र धूप खॉ पुत्र निवाज खॉ रहन हिस्सा 80/177 भाग, बिला रहन हिस्सा 211/708 भाग, अब्दुल रसाक पुत्र रहमत पुत्र छोटू 80/177 भाग वासीदेह मुरतहन
				व्यक्तिगत	कृषि	8//16/2	0.0441	रहमान पुत्र कान्दूला पुत्र निवाज खॉ 1/4 भाग, हारुन पुत्र धूप खॉ पुत्र निवाज खॉ रहन हिस्सा 80/177 भाग, बिला रहन हिस्सा 211/708 भाग, अब्दुल रसाक पुत्र रहमत पुत्र छोटू 80/177 भाग वासीदेह मुरतहन
				व्यक्तिगत	कृषि	9//14	0.0790	नजीर पुत्र दल खॉ पुत्र वीर भान वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	9//18	0.0634	रुस्तम पुत्र सेलेमी पुत्र उदयभान 1/3 भाग, इब्राहीम पुत्र हमीदा पुत्र लहरू 1/9 भाग, सरफुदीन पुत्र नजीर पुत्र दल खॉ 1/9 भाग, बशीर पुत्र हमीदा पुत्र लहरू 1/9 भाग, मुबारिक, बिलाल पुत्रान सगीर पुत्र यासीन हर दो समभाग 1/6 भाग, जुम्मा पुत्र यासीन खॉ पुत्र उदयभान 1/6 भाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	9//19	0.1058	रुस्तम पुत्र सेलेमी पुत्र उदयभान 1/3 भाग, इब्राहीम पुत्र हमीदा पुत्र लहरू 1/9 भाग, सरफुदीन पुत्र नजीर पुत्र दल खॉ 1/9 भाग, बशीर पुत्र हमीदा पुत्र लहरू 1/9 भाग, मुबारिक, बिलाल पुत्रान सगीर पुत्र यासीन हर दो समभाग 1/6 भाग, जुम्मा पुत्र यासीन खॉ पुत्र उदयभान 1/6 भाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	9//20/2	0.0761	रहमान पुत्र कान्दूला पुत्र निवाज खॉ 1/4 भाग, हारुन पुत्र धूप खॉ पुत्र निवाज खॉ 3/4 भाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	9//20/3	0.0234	रुस्तम पुत्र सेलेमी पुत्र उदयभान 1/3 भाग, इब्राहीम पुत्र हमीदा पुत्र लहरू 1/9 भाग, सरफुदीन पुत्र नजीर पुत्र दल खॉ 1/9 भाग, बशीर पुत्र हमीदा पुत्र लहरू 1/9 भाग, मुबारिक, बिलाल पुत्रान सगीर पुत्र यासीन हर दो समभाग 1/6 भाग, जुम्मा पुत्र यासीन खॉ पुत्र उदयभान 1/6 भाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	18//5	0.1022	कमाल पुत्र कुन्दन पुत्र जरहु मीर खान 1/2 भाग, वासी देह, एवं कादर पुत्र चाहत पुत्र मीर खा 1/2 भाग वासीदेह कामिल, कमाल पुत्रान कुंदन पुत्र जोहरु हर दो समभाग 1/2 भाग, इब्राहीम हकदार शामिलत
				व्यक्तिगत	कृषि	17//1/1	0.0434	कमाल पुत्र कुन्दन पुत्र जरदू वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	17//1/2	0.0707	रहमत, सुबेह खॉ पुत्रान मुंगला पुत्र फूल खॉ हर दो समभाग 2/3 भाग, नूमान, मन्नान, हारुन, जाफर पुत्रान सुल्तान पुत्र मुंगला हर चार समभाग 1/3 भाग, माकलका कब्जा फतै मौ0 मजकूर 1/3 भाग वासीदेह हकदार शामिलत
				व्यक्तिगत	कृषि	17//2/1	0.0371	रहमत, सुबेह खॉ पुत्रान मुंगला पुत्र फूल खॉ हर दो समभाग 2/3 भाग, नूमान, मन्नान, हारुन, जाफर पुत्रान सुल्तान पुत्र मुंगला हर चार समभाग 1/3 भाग, माकलका कब्जा फतै मौ0 मजकूर पुत्र 1/3 भाग वासीदेह हकदार शामिलत
				व्यक्तिगत	कृषि	10//11	0.0940	शमशुदीन, शेर मौ0, सहाबुदीन पुत्रान राजू पुत्र मेद खॉ हर तीन समभाग 1/4 भाग, शमीम, अलीम, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/12 भाग, मजीद पुत्र मेद खॉ पुत्र कमलू 1/3 भाग, अब्दुल, हमीद, रशीद, साहब पुत्रान नशरु पुत्र मेद खॉ हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	10//12/1	0.0121	शमशुदीन, शेर मौ0, सहाबुदीन पुत्रान राजू पुत्र मेद खॉ हर तीन समभाग 1/4 भाग, शमीम, अलीम, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/12 भाग, मजीद पुत्र मेद खॉ पुत्र कमलू 1/3 भाग, अब्दुल, हमीद, रशीद, साहब पुत्रान नशरु पुत्र मेद खॉ हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह

			पंचायत देह	अकृषि	10//12/2	0.0226	पंचायत देह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//6	0.0928	शाहबख्श, फारुख, बसरुदीन पुत्रान भुल्लु हर तीन समभाग 3/8 भाग,, वसीम, तौहीद पुत्रान दिलावर पुत्र रहमान हर दो समभाग 1/6 भाग,, नाजर, मामू, साहू, सैकूल, आजाद, मुस्ताक पुत्रान साबू पुत्र छज्जू हर छः समभाग 1/8 भाग,, समदीन, हसन मोहम्मद पुत्रान रहमान पुत्र उमराव हर दो समभाग 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//7/1	0.0197	लीलु पुत्र ईसब पुत्र नूर मौ. 1/2 भाग वासीदेह, अरविन्द केला पुत्र श्री बलराज केला 1/2 भाग, वासी सी-7 कैलाश कालोनी नई दिल्ली
			व्यक्तिगत	कृषि	10//7/2	0.0333	अरविन्द केला पुत्र श्री बलराज केला वासी सी0 7 कैलास कालोनी नई दिल्ली
			व्यक्तिगत	कृषि	10//7/3	0.0380	अरविन्द केला पुत्र श्री बलराज केला 1/2 वासी देह, सुबेसिंह पुत्र रिसाल सिंह पुत्र लालिया 1/2 भाग, वासी बिजवासन नई दिल्ली
			पंचायत देह	अकृषि	R-63	0.0246	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	9//15/1	0.0756	पंचायत देह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//15/2	0.0907	समसुदीन, शेर मौ0, सहाबुदीन पुत्रान राजू पुत्र मेद खॉ हर तीन समभाग 1/4 भाग, शमीम, अलीम, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/12 भाग, मजीद पुत्र मेद खॉ पुत्र कमलू 1/3 भाग, अब्दुल, हमीद, रशीद, साहब पुत्रान नशरु पुत्र मेद खॉ हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह
			पंचायत देह	अकृषि	R-225	0.0659	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	R-237	0.0164	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	10//9	0.0396	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	10//7/4	0.0134	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	10//8	0.1027	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	11//10/2	0.0092	पंचायत देह
		(4) ढीढारा	व्यक्तिगत	कृषि	30//1	0.0316	रहीश, मजीद, शमषु पुत्रान इमरत पुत्र हिम्मत हर तीन समभाग बिला रहन हिस्सा 3/8 भाग, रोबड पुत्र इमरत पुत्र हिम्मत रहन हिस्सा 1/8 भाग, छोटे खॉ पुत्र हिम्मत पुत्र दल्ला रहन हिस्सा 1/8 भाग, बिला रहन हिस्सा 3/8 भाग, सुरेश कुमार पुत्र हरिराम पुत्र चन्द्र 1/4 भाग वासीदेह मुर्तहन
			व्यक्तिगत	कृषि	29//2/2	0.0369	फूलसिंह, जलसिंह पुत्रान जुगलाल पुत्र मेदसिंह हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//3	0.1387	फूलसिंह, जलसिंह पुत्रान जुगलाल पुत्र मेदसिंह हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//4	0.1457	फूलसिंह, जलसिंह पुत्रान जुगलाल पुत्र मेदसिंह हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//5	0.1437	छोटे खॉ पुत्र हिम्मत पुत्र दल्ला 1/2 भाग,, रहीम, माजीद, शमशू पुत्रान इमरात तीन समभाग रहान भाग, 3/8, रोबड पुत्र इमरात पुत्र हिम्मत रहान 1/8 भाग,, सुरेश कुमार पुत्र हरि राम पुत्र चन्द्र 1/8 भाग, वासी देह मुर्तहन
		(5) भडंगपुर	व्यक्तिगत	कृषि	9//1	0.0924	श्रीमति रेशमदेवी पत्नि सुल्तान सिंह पुत्र शिवनारायण बिला रहन हिस्सा 35/36 भाग, साये मौ, अमजद खॉ, लुकमान पुत्रान गफूर हर तीन समभाग रहन हिस्सा 1/108 सुभान खॉ पुत्र मल्हू रहन हिस्सा 1/54 भाग, अता मौहम्मद पुत्र असरूप 1/72 भाग, अब्दुल्ला पुत्र नसरु 1/72 भाग,
			व्यक्तिगत	कृषि	9//2/1	0.0849	रहीश, मजीद, शमषु पुत्रान इमरत पुत्र हिम्मत हर तीन समभाग वासी डिढारा मालकान कब्जा प्रांतीय सरकार वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	9//3	0.0492	अय्यूब खॉ, इस्लाम, दीनू, रसीद पुत्रान अतरी विधवा अतर खॉ हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//4	0.0139	अय्यूब खॉ, इस्लाम, दीनू, रसीद पुत्रान अतरी विधवा

				अतर खों हर चार समभाग मालकान कब्जा अय्यूब खों आदि मुन्द्रेजा खेवट नं. 2 वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	8//5	0.0073	रहीश पुत्र इमरत पुत्र हिम्मत 1/2 भाग, मालिक कब्जा श्रीमति रेशम पत्नि मुलतान सिंह पुत्र शिवनारायण 1/2 भाग, मालिक कब्जा इब्बर वगैरा मु0 खेवट नं. 26 वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	7//22	0.0620	रोबड, रहीश, मजीद, समसू पुत्रान इमरत पुत्र हिम्मत हर चार समभाग 1/2 भाग, मालकान कब्जा छोटे खों पुत्र इमरत पुत्र दल्ला 1/2 भाग, मालिक कब्जा
व्यक्तिगत	कृषि	7//25	0.1017	अय्यूब खों, इस्लाम, दीनू, रसीद पुत्रान अतरी विधवा अतर खों हर चार समभाग मालकान कब्जा अय्यूब खों आदि मुन्द्रेजा खेवट नं. 2 वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	6//21	0.1492	अली मौहम्मद पुत्र हज्जी पुत्र चाहत 1/4 भाग, वासी डिढारा इलयास, इस्लाम, शहीद, इसराईल, मौहब्बत उर्फ काला पुत्रान गफूर खों पुत्र सुमेर खों हर पाचें समभाग 1/4 भाग, मौज खों, नसर खों पुत्रान सुमेर खों हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	6//22	0.1464	ईश्वरसिंह पुत्र कवरंसहि पुत्र चोंदराम वासी चिराग दिल्ली
व्यक्तिगत	कृषि	6//23	0.1051	ईश्वरसिंह पुत्र कवरंसहि पुत्र चोंदराम वासी चिराग दिल्ली
व्यक्तिगत	कृषि	6//24	0.1635	मनीष, मनजीत पुत्रान व श्रीमति माया पत्नी सतपाल पुत्र महाबीर सिंह हर तीन समभाग वासी चिराग दिल्ली मालकान कब्जा मेहर सिंह, मानसिंह पुत्रान दौलतराम हर दो समभाग वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	6//25/1	0.1249	अय्यूब खों, इस्लाम, दीनू पुत्रान अतरी विधवा अतर खों हर तीन समभाग 1/2 भाग, इलयास, खुशीद, तैयब हुसैन, रहीसा, फकरुदीन पुत्रान सरदार पुत्र मूला खों हर पाचें समभाग 1/2 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	6//25/2	0.0137	सतबीर सिंह, दीपचन्द, प्यारेलाल पुत्रान मनोहर लाल पुत्र राम प्रसाद हर तीन समभाग 3/4 भाग, महेश कुमार पुत्र व श्रीमति सावित्री देवी विधवा रिशीपाल पुत्र मनोहरलाल हर दो समभाग 1/4 भाग, मालकान कब्जा अर्जुन सिंह पुत्र अतर सिंह 1/4 भाग वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	5//18	0.0272	नत्थूराम पुत्र सूरतसिंह पुत्र शिवलाल वासी डिढारा
व्यक्तिगत	कृषि	5//19	0.0039	नत्थूराम पुत्र सूरतसिंह पुत्र शिवलाल वासी डिढारा
व्यक्तिगत	कृषि	5//21	0.1362	महेश कुमार पुत्र व श्रीमति सावत्रीदेवी विधवा रिशीलाल हर दो समभाग 1/4 भाग, मालकान कब्जा सतबीर सिंह, दीपचन्द, प्यारेलाल पुत्रान मनोहरलाल पुत्र रामप्रसाद हर तीन समभाग 3/4 भाग, मालकान कब्जा अर्जुन सिंह पुत्र अतर सिंह वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	5//22/1	0.1291	नत्थूराम पुत्र सूरतसिंह पुत्र शिवलाल वासी डिढारा
व्यक्तिगत	कृषि	5//23	0.0984	नत्थूराम पुत्र सूरतसिंह पुत्र शिवलाल वासी डिढारा
व्यक्तिगत	कृषि	5//24/1	0.0226	नत्थूराम पुत्र सूरतसिंह पुत्र शिवलाल वासी डिढारा
व्यक्तिगत	कृषि	5//24/2	0.0423	सतबीर सिंह, दीपचन्द, प्यारेलाल पुत्रान मनोहर लाल पुत्र राम प्रसाद हर तीन समभाग 3/4 भाग, महेश कुमार पुत्र व श्रीमति सावित्री देवी विधवा रिशीपाल पुत्र मनोहरलाल हर दो समभाग 1/4 भाग, मालकान कब्जा अर्जुन सिंह पुत्र अतर सिंह 1/4 भाग वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	5//25	0.0378	महेश कुमार पुत्र व श्रीमति सावत्रीदेवी विधवा रिशीलाल हर दो समभाग 1/4 भाग, मालकान
				कब्जा सतबीर सिंह, दीपचन्द, प्यारेलाल पुत्रान मनोहरलाल पुत्र रामप्रसाद हर तीन समभाग 3/4 भाग, मालकान कब्जा अर्जुन सिंह पुत्र अतर सिंह वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	4//16	0.1247	इब्राहीम पुत्र नन्हा पुत्र रुडा मालिक कब्जा श्रीमति महताब कौर, श्रीमति चिरन्जी कौर पुत्रियां बिशनसिंह हर दो समभाग वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	4//17	0.1151	तैयब पुत्र सरदार पुत्र गुलाब 11/305 भाग, मालिक कब्जा खुशीद पुत्र सरदार खों उर्फ सरदारा पुत्र गुलाब 111/305 भाग, मालिक कब्जा इलयास, रहीसा, फकरुदीन, पुत्रान सरदार खों पुत्र गुलाब हर तीन समभाग 3/5 भाग, मालकान कब्जा श्रीमति महताब कौर, श्रीमति चिरञ्जी कौर पुत्रियां अमृतकौर पुत्र
व्यक्तिगत	कृषि	4//18/1	0.0798	इलयास, खुशीद, रहीसा, तैयब, फकरुदीन पुत्रान सरदार खों पुत्र गुलाब हर पाचें समभाग मालकान कब्जा महताब कौर वगैरा मु0 खेवट नं. 87 वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	4//19	0.0568	इलयास, खुशीद, रहीसा, तैयब, फकरुदीन पुत्रान सरदार

					खॉ पुत्र गुलाब हर पाचं समभाग मालकान कब्जा अय्यूब वगैरा मु० खेवट नं० 2 वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	4//20/2	0.0609		फतैह मोहम्मद, हमीदा, मजीद, पुत्रान सफेद खॉ पुत्र लीला हर तीन समभाग 1/3 भाग, मालकान कब्जा ईसब, यासीन पुत्रान नत्थू पुत्र सलेम हर दो समभाग 2/3 भाग, मालकान कब्जा श्री अय्यूब खॉ आदि मु० खेवट नं० 2 वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	4//20/3	0.0531		उसमान, अब्दुल गनी, दीन मोहम्मद, दराब पुत्रान आसीन पुत्र भप्पू हर चार समभाग वासीदेह मालकान कब्जा समयसिंह पुत्र कुडियाराम वासी तावडू हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	4//21	0.0112		उसमान, अब्दुल गनी, दीन मोहम्मद, दराब पुत्रान आसीन पुत्र भप्पू हर चार समभाग वासीदेह मालकान कब्जा समयसिंह पुत्र कुडियाराम वासी तावडू हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	3//19	0.1062		सुलेमान, सुभान खॉ, मल्लू, नूर मोहम्मद पुत्रान नबीरा खॉ पुत्र रुडा हर चार समभाग मालकान कब्जा श्री अय्यूब खॉ आदि मु० खेवट नं० 2 वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	3//20/2	0.1078		इब्राहीम पुत्र नन्हा पुत्र रुडा मालिक कब्जा अय्यूब खॉ वगैरा मु० खेवट नं० 2 वासीदेह हकदार शामिल
ग्राम पचांयत	अकृषि	R-101	0.0134		ग्राम पचांयत
ग्राम पचांयत	अकृषि	R-30	0.0002		ग्राम पचांयत
(6) तावडू					
व्यक्तिगत	कृषि	130//16	0.1093		अतरू, दीनू, पुत्रान शेर मौ० पुत्र उमर खॉ 1/4 भाग, सुबान पुत्र सुमेर खॉ 1/8 भाग, हारून, जमशेद, जफरू पुत्रान जुहरू समभाग 1/8 भाग,
					सिराजुद्दीन, मेहमूद खॉ पुत्रान निवाज खॉ 1/2 भाग, वासी बावला, पचांयत देह
व्यक्तिगत	कृषि	130//17/2	0.1877		यासीन खॉ पुत्र भप्पू पुत्र रुडा वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	130//18/1	0.0679		यासीन खॉ पुत्र भप्पू पुत्र रुडा वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	130//18/2	0.0573		यासीन खॉ पुत्र भप्पू पुत्र रुडा वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	131//16	0.0938		नवीन कुमार, सचिन कुमार पुत्र रघुवरदयाल पुत्र प्यारेलाल हर दो समभाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	131//17/1	0.0369		कृष्णदयाल, नरेश कुमार, रमेश कुमार व श्रीमति आशा, सुरे खॉ पुत्रियां दीनदयाल पुत्र श्रीमति धापा हर पाचं समभाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	131//17/2	0.0746		शिवदयाल पुत्र पूर्ण पुत्र गिरधारी 1/3 भाग, रामेश्वर पुत्र यादराम पुत्र पूर्ण 1/3 भाग, श्रीमति भगवानी विधवा व जगदीश, लीलू पुत्रान व सुनीता, सोनी, उर्मिला, छत्रों पुत्रियां व रामकंवर पुत्र मामनसिंह पुत्र ग्यासी हर आठ समभाग 1/27 भाग, श्रीमति शकुन्तला विधवा दुलीचन्द
व्यक्तिगत	कृषि	131//18	0.1305		शिवदयाल पुत्र पूर्ण पुत्र गिरधारी 1/3 भाग, रामेश्वर पुत्र यादराम पुत्र पूर्ण 1/3 भाग, श्रीमति भगवानी विधवा व जगदीश, लीलू पुत्रान व सुनीता, सोनी, उर्मिला, छत्रों पुत्रियां व रामकंवर पुत्र मामनसिंह पुत्र ग्यासी हर आठ समभाग 1/27 भाग, श्रीमति शकुन्तला विधवा व दुलीचन्द
व्यक्तिगत	कृषि	131//19	0.1072		अकबर, अख्तर हुसैन, शौकत अली, लियाकत अली, जाकिर हुसैन पुत्रान हुरमत पुत्र शादी हर पाचं समभाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	131//20	0.1067		अकबर, अख्तर हुसैन, शौकत अली, लियाकत अली, जाकिर हुसैन पुत्रान हुरमत पुत्र शादी हर पाचं समभाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	132//12	0.0408		श्यामसुन्दर, महेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह पुत्रान रामगोपाल पुत्र रामप्रसाद हर तीन समभाग 15/56 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रामरिछपाल पुत्र गणेशीलाल 41/56 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	132//13	0.0755		जैनुद्दीन पुत्र मोहम्मद खॉ पुत्र निवाज खॉ 1/4 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रिछपाल पुत्र गणेशी 1/4 भाग, खलील, अब्दुल समय, अब्दुल करीम, याकूब पुत्रान सिराजुद्दीन पुत्र निवाज खॉ हर चार समभाग 1/2 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	132//14/1	0.0349		खलील, अब्दुल करीम, अब्दुल प्रसाद, याकूब अहमद, अय्यूब पुत्रान सिराजुद्दीन पुत्र निवाज खॉ हर पाचं समभाग 1/2 भाग, जैनुद्दीन पुत्र मोहम्मद खॉ पुत्र निवरज खॉ रहन हिस्सा 1/2 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रामरिछपाल 1/2 भाग वासीदेह मुर्तहन
व्यक्तिगत	कृषि	132//14/	0.0464		खलील, अब्दुल करीम, अब्दुल प्रसाद, याकूब अहमद,

			2		अय्यूब पुत्रान सिराजुदीन पुत्र निवाज खॉ हर पाचें समभाग 1/2 भाग, जैनुदीन पुत्र मौहम्मद खॉ पुत्र निवरज खॉ रहन हिस्सा 1/2 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रामरिछपाल 1/2 भाग वासीदेह मुर्तहन
व्यक्तिगत	कृषि	132//15/2	0.0354		खलील, अब्दुल करीम, अब्दुल प्रसाद, याकूब अहमद, अय्यूब पुत्रान सिराजुदीन पुत्र निवाज खॉ हर पाचें समभाग 1/2 भाग, जैनुदीन पुत्र मौहम्मद खॉ पुत्र निवरज खॉ रहन हिस्सा 1/2 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रामरिछपाल 1/2 भाग वासीदेह मुर्तहन
व्यक्तिगत	कृषि	132//18	0.0083		जैनुदीन पुत्र मौहम्मद खॉ पुत्र निवाज खॉ 1/4 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रिछपाल पुत्र गणेशी 1/4 भाग, खलील, अब्दुल समय, अब्दुल करीम, याकूब पुत्रान सिराजुदीन पुत्र निवाज खॉ हर चार समभाग 1/2 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	132//19	0.0158		श्यामसुन्दर, महेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह पुत्रान रामगोपाल पुत्र रामप्रसाद हर तीन समभाग 15/56 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रामरिछपाल पुत्र गणेशीलाल 41/56 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	132//20	0.0437		श्यामसुन्दर, महेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह पुत्रान रामगोपाल पुत्र रामप्रसाद हर तीन समभाग 15/56 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रामरिछपाल पुत्र गणेशीलाल 41/56 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	126//16/1	0.0018		रामकुमार पुत्र मुन्सीराम 3/4 भाग, श्रीमति सरस्वती देवी पत्नी रामकुमार पुत्र मुन्सीराम 1/4 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	125//21	0.0924		रामकुमार पुत्र मुन्सीराम 3/4 भाग, श्रीमति सरस्वती देवी पत्नी रामकुमार पुत्र मुन्सीराम 1/4 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	125//16/1	0.0147		सुरेश कुमार पुत्र राज कुमार पुत्र कलीराम 1/2 भाग, रामकिशोर पुत्र किशोरीमल पुत्र जगत नारायण 3/10 भाग, राजेन्द्र पुत्र गणेशदास पुत्र ताराचन्द 1/5 भाग, वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	125//16/2	0.0140		श्रीमति सरस्वती देवी पत्नी राम कुमार पुत्र मुन्सीराम वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	125//17	0.0131		श्रीमति सरस्वती देवी पत्नी राम कुमार पुत्र मुन्सीराम वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	124//6	0.0046		यूसूफ, नसरु पुत्रान जगदेव पुत्र साई खॉ हर दो समभाग 1/2 भाग, इब्राहीम पुत्र घमण्डी पुत्र सादी खॉ 1/6 भाग, इलियास, महबूब पुत्र हमीद खॉ पुत्र घमण्डी हर दो समभाग 1/6 भाग, फर्म रोशल बायोटेक लि. 1/6 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	124//20	0.0330		सुरेश कुमार पुत्र राज कुमार पुत्र कलीराम 1/2 भाग, रामकिशोर पुत्र किशोरीमल पुत्र जगत नारायण 3/10 भाग, राजेन्द्र पुत्र गणेशदास पुत्र ताराचन्द 1/5 भाग, वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	123//7	0.0350		फकरुद्दीन, बुद्धी, याकूब पुत्रान जोधा पुत्र नूर खॉ हर तीन समभाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	123//8/2	0.0297		फकरुद्दीन, बुद्धी, याकूब पुत्रान जोधा पुत्र नूर खॉ हर तीन समभाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	123//11	0.0474		श्रीमति सतवन्ती पत्नी प्रेमचन्द पुत्र कवरलाल 1/3 भाग, उमरदीन पुत्र कालू पुत्र मान खॉ 1/12 भाग, मै. रोशल बायोटेक लि. 210 ओखला नई दिल्ली 7/12 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	R-190//2	0.0016		श्रीमति अशरफी, भरपाई, गिराज कौर पुत्रियां रतनसिंह हर तीन समभाग 1/20 भाग, धूमा पुत्र बुधसिंह पुत्र फूला 1/20 भाग, श्रीमति माया देवी 1/20 भाग, ज्ञानीराम, दानीराम, मांगेराम पुत्रान व श्रीमति समोती उर्फ मूरती, प्रम, केला पुत्रियां गोर्धन हर छः समभाग 3/40 भाग
व्यक्तिगत	कृषि	R-320	0.0449		जुमला मुशत्रका मालकान व दीगर हकदार हस्ब रसद रकबा जमीन वासीदेह
(7) गुवारका	व्यक्तिगत	कृषि	20//11	0.0761	रहमान, रोजे खॉ पुत्रान चन्दर खॉ पुत्र वजीरा समभाग आधा 1/2 भाग, युनस, जुबैर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा समभाग 1/2 भाग, वास्यान देह
	व्यक्तिगत	कृषि	20//12/1	0.0224	रहमान, रोजे खॉ पुत्रान चन्दर खॉ पुत्र वजीरा समभाग आधा 1/2 भाग, युनस, जुबैर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा समभाग 1/2 भाग, वास्यान देह
	व्यक्तिगत	कृषि	20//12/2	0.0111	रहमान, रोजे खॉ पुत्रान चन्दर खॉ पुत्र वजीरा समभाग

				आधा 1/2 भाग, युनस, जुबैर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा समभाग 1/2 भाग, दर 2/3 भाग, आराजी मतरूका गैर अलाट शुदा तिहाई 1/3 भाग,
व्यक्तिगत	कृषि	20//12/3	0.0401	रहमान, रोजे खॉ पुत्रान चन्दर खॉ पुत्र वजीरा समभाग आधा 1/2 भाग, युनस, जुबैर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा समभाग 1/2 भाग, वास्यान देह
व्यक्तिगत	कृषि	20//13	0.0674	रहमान, रोजे खॉ पुत्रान चन्दर खॉ पुत्र वजीरा समभाग आधा 1/2 भाग, युनस, जुबैर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा समभाग 1/2 भाग, वास्यान देह
व्यक्तिगत	कृषि	20//14/3	0.0254	हमीद खॉ पुत्र निहाल खॉ पुत्र महराब वासी देह
व्यक्तिगत	कृषि	20//15/2	0.0330	उन्नस पुत्र रोजदार पुत्र वजीरा वासी देह
व्यक्तिगत	कृषि	20//15/3	0.0119	उन्नस, जुबैर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा समभाग 1/2 भाग, रोजे खॉ, रहमान पुत्रान चन्दर खॉ पुत्र वजीरा समभाग 1/2 भाग, वासीयान देह
व्यक्तिगत	कृषि	21//15	0.0160	रहमान, रोजे खॉ पुत्रान चन्दर खॉ पुत्र वजीरा समभाग आधा 1/2 भाग, युनस, जुबैर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा समभाग 1/2 भाग, वास्यान देह
व्यक्तिगत	कृषि	19//11	0.0632	उन्नस, जुबैर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा समभाग 1/2 भाग, रोजे खॉ, रहमान पुत्रान चन्दर खॉ पुत्र वजीरा समभाग 1/2 भाग, वासीयान देह मनोहरलाल, योगराज, चुन्नीलाल, भीमसैन, लीलाधर पुत्रान व श्रीमति कृष्णाबाई, राधाबाई, ईश्वर बाई, बीरनाबाई, पुष्पादेवी, राजरानी, नीलम देवी पुत्रीयान व श्रीमति टिकाईबाई विधवा साहबराम पुत्र गेलाराम समभाग वासयान तावडू
व्यक्तिगत	कृषि	19//12/1	0.0607	मनोहरलाल, योगराज, चुन्नीलाल, भीमसैन, लीलाधर पुत्रान व श्रीमति कृष्णाबाई, राधाबाई, ईश्वर बाई, बीरनाबाई, पुष्पादेवी, राजरानी, नीलम देवी पुत्रीयान व श्रीमति टिकाईबाई विधवा साहबराम पुत्र गेलाराम समभाग वासयान तावडू
व्यक्तिगत	कृषि	19//13/1	0.0552	सुरजमल पुत्र निहाल सिंह पुत्र चेलाराम 1/5 भाग, सुरेन्द्रसिंह, शीशपाल पुत्रान मगनीराम पुत्र निहालसिंह समभाग 1/5 भाग, विरेन्द्र पुत्र भीमसिंह पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, मनोज कुमार पुत्र ब्रह्म प्रकाश पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, धर्मवीर पुत्र सतबीर पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, वासयान शिकोहपुर
व्यक्तिगत	कृषि	19//14/1	0.0096	सुरजमल पुत्र निहाल सिंह पुत्र भोलाराम 1/5 भाग, सुरेन्द्रसिंह, शीशपाल पुत्रान मगनीराम पुत्र निहालसिंह समभाग 1/5 भाग, विरेन्द्र पुत्र भीमसिंह पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, मनोज कुमार पुत्र ब्रह्म प्रकाश पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग
व्यक्तिगत	कृषि	19//14/2	0.0432	सुरजमल पुत्र निहाल सिंह पुत्र भोलाराम 1/5 भाग, सुरेन्द्रसिंह, शीशपाल पुत्रान मगनीराम पुत्र निहालसिंह समभाग 1/5 भाग, विरेन्द्र पुत्र भीमसिंह पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, मनोज कुमार पुत्र ब्रह्म प्रकाश पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, धर्मवीर पुत्र सतबीर पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, वासयान शिकोहपुर
व्यक्तिगत	कृषि	19//15	0.0394	सुरजमल पुत्र निहाल सिंह पुत्र चेलाराम 1/5 भाग, सुरेन्द्रसिंह, शीशपाल पुत्रान मगनीराम पुत्र निहालसिंह समभाग 1/5 भाग, विरेन्द्र पुत्र भीमसिंह पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, मनोज कुमार पुत्र ब्रह्म प्रकाश पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, धर्मवीर पुत्र सतबीर पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, वासयान शिकोहपुर
व्यक्तिगत	कृषि	18//2/2	0.0152	बिजेन्द्र सिंह पुत्र सुबेसिंह पुत्र धर्मसिंह वासी इस्लामपुर श्रीमति मायादेवी पत्नी चेताराम पुत्र कुडेराम 1/4 भाग, सुनील कुमार पुत्र रामअवतार पुत्र गोपीचन्द 1/4 भाग, श्रीमति शशीदेवी पत्नी नेमचन्द पुत्र मोहनलाल 1/4 भाग, श्रीमति रेखादेवी पत्नी अनील कुमार पुत्र बनवारीलाल 1/4 भाग, वासयानदेह
व्यक्तिगत	कृषि	18//2/3	0.0167	बिजेन्द्र सिंह पुत्र सुबेसिंह पुत्र धर्मसिंह वासी इस्लामपुर श्रीमति मायादेवी पत्नी चेताराम पुत्र कुडेराम 1/4 भाग, सुनील कुमार पुत्र रामअवतार पुत्र गोपीचन्द 1/4 भाग, श्रीमति शशीदेवी पत्नी नेमचन्द पुत्र मोहनलाल 1/4 भाग, श्रीमति रेखादेवी पत्नी अनील कुमार पुत्र बनवारीलाल 1/4 भाग, वासयानदेह
व्यक्तिगत	कृषि	18//3/1	0.0574	बिजेन्द्र सिंह पुत्र सुबेसिंह पुत्र धर्मसिंह वासी इस्लामपुर
व्यक्तिगत	कृषि	18//5/1/1	0.0007	हरमल पुत्र दल खॉ पुत्र फूल खॉ 1/2 भाग, वहीद, कादीर, सलीम पुत्रान ताहिल पुत्र दल खॉ समभाग 1/2

					भाग, वासीयान देह
	व्यक्तिगत	कृषि	18/5/1/2	0.0003	जुहरुदीन, अय्यूब, खुशींद, साहून, आमीन, अकबर पुत्रान हमीद खॉ पुत्र हासम खॉ समभाग वासीयान बुराका
	व्यक्तिगत	कृषि	18//7	0.0050	हरमत पुत्र दल खॉ पुत्र फूल खॉ 1/2 भाग, वहीद, कादीर, सलीम पुत्रान ताहिल पुत्र दल खॉ समभाग 1/2 भाग, वासीयान देह
	व्यक्तिगत	कृषि	18//8	0.0725	श्रीमति मायादेवी पत्नी चेताराम पुत्र कुडेराम 1/4 भाग, सुनील कुमार पुत्र रामअवतार पुत्र गोपीचन्द 1/4 भाग, श्रीमति शशीदेवी पत्नी नेमचन्द पुत्र मोहनलाल 1/4 भाग, श्रीमति रेखादेवी पत्नी अनील कुमार पुत्र बनवारीलाल 1/4 भाग, वासयानदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	18//9	0.0568	श्रीमति मायादेवी पत्नी चेताराम पुत्र कुडेराम 1/4 भाग, सुनील कुमार पुत्र रामकवार पुत्र गोपीचन्द 1/4 भाग, श्रीमति शशीदेवी पत्नी नेमचन्द पुत्र मोहनलाल 1/4 भाग, श्रीमति रेखादेवी पत्नी अनील कुमार पुत्र बनवारीलाल 1/4 भाग, वासयानदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	18//10/1	0.0220	श्रीमति मायादेवी पत्नी चेताराम पुत्र कुडेराम 1/4 भाग, सुनील कुमार पुत्र रामकवार पुत्र गोपीचन्द 1/4 भाग, श्रीमति शशीदेवी पत्नी नेमचन्द पुत्र मोहनलाल 1/4 भाग, श्रीमति रेखादेवी पत्नी अनील कुमार पुत्र बनवारीलाल 1/4 भाग, वासयानदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	18//10/2	0.0025	श्रीमति जमीला पत्नी अब्दुल पुत्र सरदार वासी चीला, बिजन्द्र सिंह पुत्र सुबेसिंह पुत्र मक्खन सिंह वासी इस्लामपुर
	व्यक्तिगत	कृषि	18//11/1	0.0032	सुरजमल पुत्र निहाल सिंह पुत्र भोलाराम 1/5 भाग, सुरेन्द्रसिंह, शीशपाल पुत्रान मगनीराम पुत्र निहालसिंह समभाग 1/5 भाग, विरेन्द्र पुत्र भीमसिंह पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, मनोज कुमार पुत्र ब्रह्म प्रकाश पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, धर्मवीर पुत्र सतबीर पुत्र निहालसिंह 1/5 भाग, वासयान शिकोहपुर
	व्यक्तिगत	कृषि	18//12	0.0226	ईसाक, नसीर, हारून, जरजीत, शौकत, मुबीन, हबीजुर, रहमान पुत्रान यासीन खॉ पुत्र मंगली समभाग 1/4 भाग, जस्सू, इसमाईल पुत्रान मंगली पुत्र कालू समभाग 1/2 भाग, मौहम्मद हारून पुत्र जीवन खॉ पुत्र मंगली 1/4 भाग, वासीयान बुराका, तावडू
	व्यक्तिगत	कृषि	18//13	0.0263	ईसाक, नसीर, हारून, जरजीत, शौकत, मुबीन, हबीजुर, रहमान पुत्रान यासीन खॉ पुत्र मंगली समभाग 1/4 भाग, जस्सू, इसमाईल पुत्रान मंगली पुत्र कालू समभाग 1/2 भाग, मौहम्मद हारून पुत्र जीवन खॉ पुत्र मंगली 1/4 भाग, वासीयान बुराका, तावडू
	व्यक्तिगत	कृषि	12//21	0.0035	जुहरुदीन, अय्यूब, खुशींद, साहून, आमीन, अकबर पुत्रान हमीद खॉ पुत्र हासम खॉ समभाग वासीयान बुराका
	व्यक्तिगत	कृषि	12//22/2	0.0026	अल्लाबक्श, खुदाबक्श, हाकमदीन पुत्रान रोशन खॉ भूरे खॉ समभाग वासीयान बुराका, तावडू
	व्यक्तिगत	कृषि	12//23/1	0.0103	श्रीमति प्रेमवती पत्नी बिजेन्द्र सिंह पुत्र सुबेसिंह वासी इस्लामपुर गुडगाव
	व्यक्तिगत	कृषि	12//24/1	0.0129	आराजी मतरुका गैर अलाट शुदा
	व्यक्तिगत	कृषि	12//25/1	0.0017	मुन्शी, इस्लाम, कपूरा समभाग भाग दारान
	व्यक्तिगत	कृषि	12//25/2	0.0007	रोशन पुत्र भूरे खॉ पुत्र रहमत 1/2 भाग,, हमीद पुत्र हासम आधा 1/2 भाग, भागदारान
	व्यक्तिगत	कृषि	12//25/4	0.0027	साहबुदीन, हसनखां, सोहराब पुत्रान मुकाख हर तीन समभाग 1/2 भाग, उदय भान, नसरु पुत्रान जगदेव पुत्र मंगली समभाग 1/2 भाग, भाग,दारान मार्फत, रामकवार पुत्र मुन्शीराम पुत्र भिरमूमल गैर मौरूसीयान तावडू
	व्यक्तिगत	कृषि	13//17	0.0130	श्रीमति सरसवती देवी पत्नी रामकवर पुत्र मुन्शीराम आधा 1/2 भाग, अनुज पुत्र रामकवर पुत्र मुन्शीराम आधा 1/2 भाग, वासीयान गुडगाव
	व्यक्तिगत	कृषि	13//18	0.0235	श्रीमति सरसवती देवी पत्नी रामकवर पुत्र मुन्शीराम वासी गुडगाव
	व्यक्तिगत	कृषि	13//19	0.0258	श्रीमति सरसवती देवी पत्नी रामकवर पुत्र मुन्शीराम वासी गुडगाव
	व्यक्तिगत	कृषि	13//21	0.0001	साहबुदीन, हसनखां, सोहराब पुत्रान मुकाख हर तीन समभाग 1/2 भाग, उदय भान, नसरु पुत्रान जगदेव पुत्र मंगली समभाग 1/2 भाग, भाग,दारान मार्फत, रामकवार पुत्र मुन्शीराम पुत्र भिरमूमल गैर मौरूसीयान तावडू
	ग्राम पचायत	अकृषि	20//14/1	0.0319	पचायत देह

		व्यक्तिगत	कृषि	20//14/2	0.0043	जुम्मे खॉ, रहीमुदीन, युसुफ पुत्रान हुसैन खॉ पुत्र बहादर खॉ समभाग वासीयान बुराका, तावडू
		व्यक्तिगत	कृषि	26	0.0180	जुम्मा आदि, तैय्यब आदि
		व्यक्तिगत	कृषि	27	0.0015	याकूब, ईसाक, इसराईल, मुबीन पुत्रान चाव खॉ 4/15 भाग, आमीन, समीम पुत्रान खुशीद समभाग 1/15 भाग, जुम्मान पुत्र छोटे खॉ 1/3 भाग, सुभान खॉ, इल्यास अकबर, बशीर, अफसर पुत्रान सल्हू 5/7 भाग, हाकम, हसन मौहम्मद, शौकत, असरु, बसरु, जाकिर पुत्रान शेर खॉ 1/7 भाग, इकबाल, अमजद, तौफीक, पुत्रान नसरु 1/3 भाग वासीदेह
		ग्राम पचायत	अकृषि	45	0.0453	पचायंत देह
		ग्राम पचायत	अकृषि	R-113	0.0501	पचायंत देह
		ग्राम पचायत	अकृषि	R-98	0.0147	पचायंत देह
		ग्राम पचायत	अकृषि	R-99	0.0120	पचायंत देह
	(8) बुराका	ग्राम पचायत	अकृषि	R-108	0.0345	पचायंत देह
		व्यक्तिगत	कृषि	26-A	0.0061	जुम्मा आदि, तैय्यब आदि
		इण्डस्ट्रीयल	अकृषि	1//15	0.0257	फर्म रोषल बायोटेक लि0 इण्डस्ट्रीयल इस्टेट नई दिल्ली वासीदेह
		इण्डस्ट्रीयल	अकृषि	2//13	0.1274	फर्म इनोवेटिव आऊट सोर्सिंग प्रा0 लि0 245/381 भाग, कमरु पुत्र जोधा पुत्र कोनी 91/381 भाग, बुद्धि पुत्र जोधा पुत्र कोनी 15/127 भाग वासीदेह
		इण्डस्ट्रीयल	अकृषि	2//14	0.0099	कमरु पुत्र जोधा पुत्र कोनी 91/381 भाग, बुद्धि पुत्र जोधा पुत्र कोनी 15/127 भाग, फर्म इनोवेटिव आऊट सोर्सिंग प्रा0 लि0 245/381 भाग, वासीदेह
	(9) राहेड़ी	इण्डस्ट्रीयल	अकृषि	2//18/1	0.0006	फर्म इनोवेटिव आऊट सोर्सिंग प्रा0 लि0 245/381 भाग, कमरु पुत्र जोधा पुत्र कोनी 91/381 भाग, बुद्धि पुत्र जोधा पुत्र कोनी 15/127 भाग वासीदेह
		इण्डस्ट्रीयल	अकृषि	2//19	0.0060	फर्म रोषल बायोटेक लि0 इण्डस्ट्रीयल इस्टेट नई दिल्ली वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	29//3	0.0191	आसम उर्फ गूंगा, नबाब पुत्र चोंद खॉ हद दो समभाग 1/3 भाग, हसनु, कालु, आसु, पुत्रान मुन्शी पुत्र नजर खॉ हर तीन समभाग 1/4 भाग, फकरुदीन, अरशद पुत्रान कमरुदीन पुत्र मुन्शी हर दो समभाग 1/12 भाग, इकबाल, मुस्ताक, साबिर, पुत्रान पहलु पुत्र साहिल हर तीन समभाग 1/21 भाग, सोहराब, भप्पु, दिलाबर, जफरु, इस्लाम, सलीम पुत्रान ईमाम खॉ पुत्र नजर खॉ हर छः समभाग 2/7 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	29//4	0.0444	आसम उर्फ गूंगा, नबाब पुत्र चोंद खॉ हद दो समभाग 1/3 भाग, हसनु, कालु, आसु, पुत्रान मुन्शी पुत्र नजर खॉ हर तीन समभाग 1/4 भाग, फकरुदीन, अरशद पुत्रान कमरुदीन पुत्र मुन्शी हर दो समभाग 1/12 भाग, इकबाल, मुस्ताक, साबिर, पुत्रान पहलु पुत्र साहिल हर तीन समभाग 1/21 भाग, सोहराब, भप्पु, दिलाबर, जफरु, इस्लाम, सलीम पुत्रान ईमाम खॉ पुत्र नजर खॉ हर छः समभाग 2/7 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	29//5	0.0680	आसम उर्फ गूंगा, नबाब पुत्र चोंद खॉ हद दो समभाग 1/3 भाग, हसनु, कालु, आसु, पुत्रान मुन्शी पुत्र नजर खॉ हर तीन समभाग 1/4 भाग, फकरुदीन, अरशद पुत्रान कमरुदीन पुत्र मुन्शी हर दो समभाग 1/12 भाग, इकबाल, मुस्ताक, साबिर, पुत्रान पहलु पुत्र साहिल हर तीन समभाग 1/21 भाग, सोहराब, भप्पु, दिलाबर, जफरु, इस्लाम, सलीम पुत्रान ईमाम खॉ पुत्र नजर खॉ हर छः समभाग 2/7 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	29//7/1	0.0212	आसम उर्फ गूंगा, नबाब पुत्र चोंद खॉ हद दो समभाग 1/3 भाग, हसनु, कालु, आसु, पुत्रान मुन्शी पुत्र नजर खॉ हर तीन समभाग 1/4 भाग, फकरुदीन, अरशद पुत्रान कमरुदीन पुत्र मुन्शी हर दो समभाग 1/12 भाग, इकबाल, मुस्ताक, साबिर, पुत्रान पहलु पुत्र साहिल हर तीन समभाग 1/21 भाग, सोहराब, भप्पु, दिलाबर, जफरु, इस्लाम, सलीम पुत्रान ईमाम खॉ पुत्र नजर खॉ हर छः समभाग 2/7 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	29//8	0.0369	अय्यूब पुत्र भूंगा पुत्र बख्तावर 1/2 भाग, देवेन्दर कुमार

					पुत्र चेताराम पुत्र घुडेमल 11/36 भाग, श्रीमति कमला पत्नी बनवारी लाल पुत्र प्रभुदयाल 7/36 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	29/9	0.0603		अय्यूब पुत्र भूंगा पुत्र बख्तावर 1/2 भाग, देवेन्दर कुमार पुत्र चेताराम पुत्र घुडेमल 11/36 भाग, श्रीमति कमला पत्नी बनवारी लाल पुत्र प्रभुदयाल 7/36 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	29/10	0.0577		अय्यूब पुत्र भूंगा पुत्र बख्तावर 1/2 भाग, देवेन्दर कुमार पुत्र चेताराम पुत्र घुडेमल 11/36 भाग, श्रीमति कमला पत्नी बनवारी लाल पुत्र प्रभुदयाल 7/36 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	30/1/1	0.0024		आसम उर्फ गूंगा, नबाब पुत्र चोद खॉ हद दो समभाग 1/3 भाग, हसन, कालु, आसु, पुत्रान मुन्शी पुत्र नजर खॉ हर तीन समभाग 1/4 भाग, फकरुद्दीन, अरशद पुत्रान कमरुद्दीन पुत्र मुन्शी हर दो समभाग 1/12 भाग, इकबाल, मुस्ताक, साबिर, पुत्रान पहलु पुत्र साहिल हर तीन समभाग 1/21 भाग, सोहराब, भप्पु, दिलाबर, जफरु, इस्लाम, सलीम पुत्रान ईमाम खॉ पुत्र नजर खॉ हर छः समभाग 2/7 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	30/1/2	0.0546		हरपाल पुत्र चिरन्जीलाल पुत्र गंगासहाय 2/3 भाग, वासी टीकरी गुडगावें मैसर्ज फर्म रोशन बायोटेक लि० रा० औखला इन्डस्टीयल 1/3 भाग, वासी नई दिल्ली
व्यक्तिगत	कृषि	30/3	0.0505		सुमेर खॉ, खिडकी, जगदीश पुत्रान हब्बड हर तीन समभाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	30/4	0.0786		सुमेर खॉ, खिडकी, जगदीश पुत्रान हब्बड हर तीन समभाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	30/5	0.0809		हमीद खॉ पुत्र चान्दमल पुत्र बुद्धा 1/2 भाग, फतेह मोहम्मद पुत्रान मोहरु पुत्र जोधा हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	31/1	0.0707		हमीद खॉ पुत्र चान्दमल पुत्र बुद्धा 1/2 भाग, फतेह मोहम्मद पुत्रान मोहरु पुत्र जोधा हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	24/21	0.0072		मोहरु पुत्री जोधी पुत्र इमाम खॉ वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	24/22	0.0628		सुरजमल, सहज खॉ, अशरफ पुत्रान कवल खॉ पुत्र खुदाबक्श हर तीन समभाग 1/4 भाग, जुम्मे खॉ, समय मोहम्मद पुत्रान मवासी पुत्र खुदबक्श हर दो समभाग 1/4 भाग, अम्मी पुत्र हसमल पुत्रा खुदाबक्श 1/4 भाग, फज्जर पुत्र सुरजमल पुत्र नवल खॉ 1/4 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	24/23	0.0893		सुरजमल, सहज खॉ, अशरफ पुत्रान कवल खॉ पुत्र खुदाबक्श हर तीन समभाग 1/4 भाग, जुम्मे खॉ, समय मोहम्मद पुत्रान मवासी पुत्र खुदबक्श हर दो समभाग 1/4 भाग, अम्मी पुत्र हसमल पुत्रा खुदाबक्श 1/4 भाग, फज्जर पुत्र सुरजमल पुत्र नवल खॉ 1/4 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	24/24	0.0919		सहजमल, सहज खॉ, अशरफ पुत्रान कवल खॉ पुत्र खुदाबक्श हर तीन समभाग 1/4 भाग, जुम्मे खॉ, समय मोहम्मद पुत्रान मवासी पुत्र खुदबक्श हर दो समभाग 1/4 भाग, जबर खॉ, जौम खॉ पुत्रान इब्राहीम पुत्र पीरबक्श हर दो समभाग 1/4 भाग, अम्मी पुत्र हसमल पुत्रा खुदाबक्श 1/4 भाग वासीदेह
पचायंत देह	अकृषि	28/6	0.0405		पचायंत देह
पचायंत देह	अकृषि	R-55	0.0978		पचायंत देह
पचायंत देह	अकृषि	R-56	0.0244		पचायंत देह
पचायंत देह	अकृषि	R-57	0.0794		पचायंत देह
पचायंत देह	अकृषि	R-48	0.0931		पचायंत देह
(10) मालाका					
व्यक्तिगत	कृषि	3/12/3	0.0072		ईसाक, रजाक, नुरदीन, शौकत पुत्रान उमेद खॉ पुत्र जहाज खॉ हर चार समभाग 1/6 भाग, कपूर, शकुर पुत्रान जहाज खॉ पुत्र मल्हू हर दो समभाग 1/3 भाग, खुशीद अहमद, हमीद, वहीद, महमूद पुत्रान शमै पुत्र काले खॉ हर चार समभाग 225 भाग, जसरत, अब्दुला, इरसाद, मोहम्मदीन, उमरदीन पुत्रान शहीद पुत्र शमै हर पाचै समभाग 1/10 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	3/13	0.2364		कल्लू, कमरुद्दीन पुत्रान हन्सा पुत्र रिमली हर दो समभाग 1/2 भाग, मन्सूर खान पुत्र कमरुद्दीन पुत्र हन्सा 1/2 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	3/19	0.1082		ईसाक, रजाक, नुरदीन, शौकत पुत्रान उमेद खॉ पुत्र

					जहाज खों हर चार समभाग 1/6 भाग, कपूर, शकुर पुत्रान जहाज खों पुत्र मल्हू हर दो समभाग 1/3 भाग, खुशीद अहमद, हमीद, वहीद, महमूद पुत्रान शमै पुत्र काले खों हर चार समभाग 225 भाग, जसरत, अब्दुला, इरसाद, मौहम्मदीन, उमरदीन पुत्रान शहीद पुत्र शमै हर पाचै समभाग 1/10 भाग वासीदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	3//20	0.0931	शमशु पुत्र नसरु पुत्र बुद्धा 1/21 भाग, सुल्हड पुत्र बुद्धा पुत्र कन्हैया 2/7 भाग, भम्बड, जुम्मा पुत्रान बुद्धा पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/2 भाग, साहबुदीन, रुकमुदीन पुत्रान नसरु पुत्र बुद्धा हर दो समभाग 1/6 भाग वासीदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	R-123	0.0204	रसीद पुत्र कल्लू वासीदेह
(11) डालाका	व्यक्तिगत	कृषि	9//13	0.0376	सरदार पुत्र घमण्डी पुत्र छुटना वासीदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	9//14/2	0.1499	सरदार पुत्र घमण्डी पुत्र छुटना वासीदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	9//15	0.1289	दीना, सिराजु, मिसरु, नुरदीन पुत्रान शादी पुत्र काले खों हर चार समभाग 1/5 भाग, अलीशेर पुत्र दानी पुत्र काले खों 1/5 भाग, भाग,मल, सहाबुदीन, सलीम पुत्रान जुम्मा पुत्र काले खों हर तीन समभाग 1/5 भाग, खुशीद अहमद, हमीद, वहीद, महमूद पुत्रान शमै खों पुत्र काले खों हर चार समभाग 4/25 भाग, जसरत, अब्दुल्ला, इरसाद, माहमदीन, उमरदीन पुत्रान शहीद पुत्र शमै खों हर पाचै समभाग 1/25 भाग वासीदेह पहलू पुत्र फिरोज खों पुत्र काले खों 1/5 भाग, वासी माल्हाका
	व्यक्तिगत	कृषि	10//5/2	0.0170	अमरु, चाहत पुत्रान कमलू पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/18 भाग, अतर खों पुत्र चन्दरु 1/18 भाग, जुम्मा, जमाल, जसमाल, अमतल पुत्रान कन्हैया पुत्र लोढा हर चार समभाग 2/9 भाग, सदरुदीन पुत्र करीम पुत्र मुन्शी 1/36 भाग, मुनसेद पुत्र धूपसिंह पुत्र दौला 1/12 भाग, इकबाल पुत्र रहमान पुत्र मुन्शी 1/36 भाग, रहीम
					पुत्र मुन्शी पुत्र दौला 1/36 भाग, हसन मौ0, आस मौ0, नसरुदीन, अमरु पुत्रान बुद्धी पुत्र दोला हर चार समभाग 1/12 भाग, खुशीद, आमीन पुत्रान बुद्धसिंह पुत्र दोला हर दो समभाग 1/12 भाग, कमाल पुत्र बेगराज उर्फ चन्दा पुत्र हुसैना 1/6 भाग, यासीन, मौजी पुत्रान घोसी पुत्र हुसैना हर दो समभाग 1/6 भाग वासीदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	10//6	0.2255	अमरु, चाहत पुत्रान कमलू पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/18 भाग, अतर खों पुत्र चन्दरु 1/18 भाग, जुम्मा, जमाल, जसमाल, अमतल पुत्रान कन्हैया पुत्र लोढा हर चार समभाग 2/9 भाग, सदरुदीन पुत्र करीम पुत्र मुन्शी 1/36 भाग, मुनसेद पुत्र धूपसिंह पुत्र दौला 1/12 भाग, इकबाल पुत्र रहमान पुत्र मुन्शी 1/36 भाग, रहीम पुत्र मुन्शी पुत्र दौला 1/36 भाग, हसन मौ0, आस मौ0, नसरुदीन, अमरु पुत्रान बुद्धी पुत्र दोला हर चार समभाग 1/12 भाग, खुशीद, आमीन पुत्रान बुद्धसिंह पुत्र दोला हर दो समभाग 1/12 भाग, कमाल पुत्र बेगराज उर्फ चन्दा पुत्र हुसैना 1/6 भाग, यासीन, मौजी पुत्रान घोसी पुत्र हुसैना हर दो समभाग 1/6 भाग वासीदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	10//7/1	0.0194	शमसू, सहाबुदीन, रुकमुदीन पुत्रान नसरु पुत्र बुद्धा हर तीन समभाग वासीदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	10//7/2	0.1386	दीन मौ, जमील मौ0 पुत्रान फज्जर पुत्र कल्लू हर दो समभाग 1/3 भाग, निसार, अब्बास, तौफीक पुत्रान लखपत पुत्र फज्जर हर तीन समभाग 1/6 भाग वासीदेह असलूप पुत्र सुगड खों पुत्र उमेद खों 1/2 भाग, वासी खरखडी
	व्यक्तिगत	कृषि	10//7/3	0.0220	समसु, शहाबुदीन, रुकमुदीन पुत्रान नसरु पुत्र बुद्धा हर तीन समभाग 1/4 भाग, जुम्मे खों, भम्बड, सुल्हड पुत्रान बुद्धा पुत्र कन्हैया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	10//8	0.0765	समसु, शहाबुदीन, रुकमुदीन पुत्रान नसरु पुत्र बुद्धा हर तीन समभाग 1/4 भाग, जुम्मे खों, भम्बड, सुल्हड पुत्रान बुद्धा पुत्र कन्हैया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह
	व्यक्तिगत	कृषि	10//9	0.0028	खुशीद अहमद, हमीद, जाहिद, महमूद पुत्रान शमै पुत्र काले खों हर चार समभाग 4/5 भाग वासीदेह जसरत, अब्दुल्ला, इरसाद, मौहम्मदीन, उमरदीन पुत्रान शहीद पुत्र शमै खों हर पाचै समभाग 1/5 भाग, वासी माल्हाका
	व्यक्तिगत	कृषि	10//11/1	0.0541	शकूर पुत्र जहाज 5/98 भाग नसरु पुत्र शादी 5/98 भाग, ईसाक, रजाक, नूरदीन, शोकत पुत्रान उमेद हर चार समभाग 5/98 भाग, खुशीद, हमीद, वहीद, महमूद

				पुत्र शमै हर चार समभाग 5/98 भाग, जसरत, अब्दुल्ला, इरसाद, मौहम्मदीन, उमरदीन पुत्रान शहीद पुत्र शमै खों हर पाचै समभाग 1/98 भाग, हयात खों पुत्र सरदार खों पुत्र घमण्डी 3/14 भाग, भाग,मल, सहाबुदीन,
				सलीम पुत्रान जुम्मा पुत्र काले खों हर तीन समभाग 18/49 भाग, कपूरा, जहाज खों पुत्र फिरोज खों हर दो समभाग 5/49 भाग वासीदेह पहलू पुत्र फिरोज खों पुत्र काले खों 5/49 भाग, वासी माल्हाका
व्यक्तिगत	कृषि	10//11/2	0.0461	ईसाक, नसरुदीन, रजाक, शौकत पुत्रान उमेद खों पुत्र जहाज खों हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह कपूर खों, शकूर खों पुत्रान जहाज खों हर दो समभाग 2/3 भाग, वासी माल्हाका
व्यक्तिगत	कृषि	10//12	0.1313	दीना, सिराजु, मिसरु, नुरदीन पुत्रान शादी पुत्र काले खों हर चार समभाग 1/2 भाग वासीदेह जाहिद, शाहिद पुत्रान रहीश खों पुत्र समय खों हर दो समभाग 1/2 भाग, वासी माल्हाका
व्यक्तिगत	कृषि	10//13	0.0134	जुम्मा खों भम्बड, सुल्हड पुत्रान बुद्धा पुत्र कन्हैया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह शमशु, सहाबुदीन, रुकमुदीन पुत्रान नसरु पुत्र बुद्धा हर तीन समभाग 1/4 भाग, वासी माल्हाका
व्यक्तिगत	कृषि	11//1	0.2055	अशरफ पुत्र शरीफ खों पुत्र छोटे खों 8/9 भाग, सदरुदीन पुत्र करीम खों 1/36 भाग, मुनफेद पुत्र धूपसिंह 1/12 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	11//2	0.1193	अशरफ पुत्र शरीफ खों पुत्र छोटे खों 8/9 भाग, सदरुदीन पुत्र करीम खों 1/36 भाग, मुनफेद पुत्र धूपसिंह 1/12 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	6//15	0.0143	सल्लू, दीनू पुत्रान रुडा पुत्र छोटे खों हर दो समभाग 2/3 भाग, नरू मौ0 पुत्र छज्जू पुत्र रुडा 1/3 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	6//18	0.0489	जुहरु, फज्जर खों पुत्रान जहाज खों पुत्र पीरु हर दो समभाग 1/2 भाग, रसूला, नूर मौ0, रुजदार, रजाक पुत्रान सुमेर खों पुत्र पीरु हर चार समभाग 2/5 भाग वासीदेह रहीश पुत्र यासीन पुत्र रोडा 1/10 भाग, वासी खरखडी
व्यक्तिगत	कृषि	6//22	0.0648	जुहरु, फज्जर खों पुत्रान जहाज खों पुत्र पीरु हर दो समभाग 1/2 भाग, रसूला, नूर मौ0, रुजदार, रजाक पुत्रान सुमेर खों पुत्र पीरु हर चार समभाग 2/5 भाग वासीदेह रहीश पुत्र यासीन पुत्र रोडा 1/10 भाग, वासी खरखडी
व्यक्तिगत	कृषि	6//23/1	0.0864	जुहरु, फज्जर खों पुत्रान जहाज खों पुत्र पीरु हर दो समभाग 1/2 भाग, रसूला, नूर मौ0, रुजदार, रजाक पुत्रान सुमेर खों पुत्र पीरु हर चार समभाग 2/5 भाग वासीदेह रहीश पुत्र यासीन पुत्र रोडा 1/10 भाग, वासी खरखडी
व्यक्तिगत	कृषि	6//23/2	0.2403	वजीर रमजान रमजानी रोजदार पुत्रान जयसिंह पुत्र अल्लाबक्स हर चार समभाग वासी खरखडी
व्यक्तिगत	कृषि	5//2/1	0.0952	नसरु पुत्र रोडा पुत्र मेद खों वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	5//2/2	0.0067	मंगल, हुसैना, दीन मौहम्मद पुत्रान मेद खों उर्फ उमेद खों पुत्र रोमा हर तीन समभाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	5//10	0.0536	आसू, सहाबुदीन पुत्रान छुटना हर दो समभाग 1/6 भाग, रुजदार पुत्र काले खों 1/12 भाग, अय्यूब, लियाकत पुत्रान रहीमबक्श हर दो समभाग
				1/12 भाग वासीदेह काले खों , छुटना उर्फ छुटना पुत्रान मेव खों पुत्र ताज खों हर दो समभाग 2/3 भाग, वासी खरखडी
पचायंत देह	अकृषि	1//7	0.0598	पचायंत देह
व्यक्तिगत	कृषि	1//14	0.1615	फजरु, नसीरा पुत्रान भौला उर्फ धम्मू पुत्र मंगतू हर दो समभाग वासी खरखडी
व्यक्तिगत	कृषि	1//17/1	0.0512	फजरु, नसीरा पुत्रान भौला उर्फ धम्मू पुत्र मंगतू हर दो समभाग वासी खरखडी
व्यक्तिगत	कृषि	1//23/1	0.0567	ईसाक, इल्यास, इब्राहीम, खलील अहमद पुत्रान दीन मौहम्मद पुत्र सुमेर हर चार समभाग 7/32 भाग, उत्रस, नसरु पुत्रान जुहर खों पुत्र सदरु हर दो समभाग 7/64 भाग, जुम्मा पुत्र सदरु 7/64 भाग, अली मौ0 पुत्र नजरु पुत्र नजबू 7/32 भाग वासीदेह शेर मौ0 पुत्र हसन खों पुत्र अजीम 7/64 भाग, वासी धुलावट सत्तार पुत्र चांव

						खॉ पुत्र फूलसिंह 5/1416 भाग, फजरू पुत्र नसीर पुत्र उमेद 137/11328 भाग, पुत्र 7/32 भाग वासीदेह
		पचायंत देह	अकृषि	R-38	0.0002	पचायंत देह
		पचायंत देह	अकृषि	30	0.0178	पचायंत देह
		पचायंत देह	अकृषि	R-44	0.0371	पचायंत देह
		पचायंत देह	अकृषि	R-46	0.0300	पचायंत देह
	(12) धूलावत	व्यक्तिगत	कृषि	39//5	0.0637	इदरीश, रहमत, रजाक पुत्रान नौरंग हर तीन समभाग 1/3 भाग, रसीद, दाऊद, असगर पुत्रान उजागर पुत्र नूर खॉ हर तीन समभाग उसमान, जान मौ0, जहीर, सिराजुदीन पुत्रान सुरजन पुत्र नूर खॉ हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	39//6/1	0.0488	पल्लू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	39//6/2	0.0963	पल्लू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	39//6/3	0.0165	पल्लू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	38//1/1	0.0268	पल्लू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	38//1/2	0.2851	पल्लू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	38//1/3	0.0381	इसराईल, सददीक पुत्रान मुसाद पुत्र बदलू हर दो समभाग 1/3 भाग, शेर मौहम्मद, झगड पुत्रान बदल खॉ पुत्र सहाय खॉ हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	38//10/2	0.0818	पल्लू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	29//4/1	0.0107	जाकर, साहून, जाहिद पुत्रान दाऊद खॉ पुत्र उमर खॉ हर तीन समभाग 1/27 भाग, जान मौहम्मद पुत्रान उमर खॉ पुत्र पीर खॉ हर दो समभाग 2/27 भाग, वसी खॉ, इसाक, जमील, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खॉ पुत्रान अब्दुल रहमान पुत्र जोरावर हर छः समभाग 2/9 भाग, सहाबुदीन, नवाबदीन जैकम पुत्रान कमरुदीन पुत्र जुम्मा बख्श हर तीन समभाग 1/3 भाग, सदीक पुत्र करीमबख्श पुत्र भौन्दू 1/9 भाग, खुर्शीद पुत्र नबी बख्श पुत्र सुगडा 1/9 भाग, फतेह मौहम्मद पुत्र जोरावर पुत्र मखमूल 1/9 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	29//5	0.3057	इदरीश, सत्तार, उसमान, असगर पुत्रान निवाज खॉ पुत्र सुगडा हर चार समभाग 4/5 भाग,, जरजीस, मुरस्लीन, आरस्तू पुत्रान इब्राहीम पुत्र निवाज खॉ हर तीन समभाग 1/5 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	29//6	0.1254	इदरीश, सत्तार, उसमान, असगर पुत्रान निवाज खॉ पुत्र सुगडा हर चार समभाग 4/5 भाग,, जरजीस, मुरस्लीन, आरस्तू पुत्रान इब्राहीम पुत्र निवाज खॉ हर तीन समभाग 1/5 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	29//7/1	0.1371	इदरीश, सत्तार, उसमान, असगर पुत्रान निवाज खॉ पुत्र सुगडा हर चार समभाग 4/5 भाग,, जरजीस, मुरस्लीन, आरस्तू पुत्रान इब्राहीम पुत्र निवाज खॉ हर तीन समभाग 1/5 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	29//7/2	0.1220	जाकर, साहून, जाहिद पुत्रान दाऊद खॉ पुत्र उमर खॉ हर तीन समभाग 1/27 भाग, जान मौहम्मद पुत्रान उमर खॉ पुत्र पीर खॉ हर दो समभाग 2/27 भाग, वसी खॉ, इसाक, जमील, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खॉ पुत्रान अब्दुल रहमान पुत्र जोरावर हर छः समभाग 2/9 भाग, सहाबुदीन, नवाबदीन जैकम पुत्रान कमरुदीन पुत्र जुम्मा बख्श हर तीन समभाग 1/3 भाग, सदीक पुत्र करीमबख्श पुत्र भौन्दू 1/9 भाग, खुर्शीद पुत्र नबी बख्श पुत्र सुगडा 1/9 भाग, फतेह मौहम्मद पुत्र जोरावर पुत्र मखमूल 1/9 भाग वासीदेह
		व्यक्तिगत	कृषि	29//8	0.0013	जाकर, साहून, जाहिद पुत्रान दाऊद खॉ पुत्र उमर खॉ हर तीन समभाग 1/27 भाग, जान मौहम्मद पुत्रान उमर खॉ पुत्र पीर खॉ हर दो समभाग 2/27 भाग, वसी खॉ, इसाक, जमील, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खॉ पुत्रान अब्दुल रहमान पुत्र जोरावर हर छः समभाग 2/9 भाग, सहाबुदीन, नवाबदीन जैकम पुत्रान कमरुदीन पुत्र जुम्मा बख्श हर तीन समभाग 1/3 भाग, सदीक पुत्र करीमबख्श पुत्र भौन्दू 1/9 भाग, खुर्शीद पुत्र नबी बख्श पुत्र सुगडा 1/9 भाग, फतेह मौहम्मद पुत्र जोरावर पुत्र मखमूल 1/9 भाग वासीदेह

				व्यक्तिगत	कृषि	29//13/2	0.2045	अहमद, तैय्यब हुसैन पुत्रान करीम खॉ पुत्र जोरावर हर दो समभाग 1/4 भाग, फतेह मौहम्मद, यासीन पुत्रान जोरावर पुत्र मखमूल हर दो समभाग 1/2 भाग, बशीर खॉ, इसे खॉ, इसाक मौहम्मद, जीमल अहमद, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खान पुत्रान रहमान खॉ पुत्र जोरावर हर सात समभाग 1/4 भाग
				व्यक्तिगत	कृषि	29//14	0.2133	अहमद, तैय्यब हुसैन पुत्रान करीम खॉ पुत्र जोरावर हर दो समभाग 1/4 भाग, फतेह मौहम्मद, यासीन पुत्रान जोरावर पुत्र मखमूल हर दो समभाग 1/2 भाग, बशीर खॉ, इसे खॉ, इसाक मौहम्मद, जीमल अहमद, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खान पुत्रान रहमान खॉ पुत्र जोरावर हर सात समभाग 1/4 भाग
				व्यक्तिगत	कृषि	29//18	0.2828	अहमद, तैय्यब हुसैन पुत्रान करीम खॉ पुत्र जोरावर हर दो समभाग 1/4 भाग, फतेह मौहम्मद, यासीन पुत्रान जोरावर पुत्र मखमूल हर दो समभाग 1/2 भाग, बशीर खॉ, इसे खॉ, इसाक मौहम्मद, जीमल अहमद, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खान पुत्रान रहमान खॉ पुत्र जोरावर हर सात समभाग 1/4 भाग
				व्यक्तिगत	कृषि	29//19/1	0.1173	निजरा, दीन मौहम्मद पुत्रान रहमान पुत्र खुदाबक्श हर दो समभाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	29//19/2	0.0208	समय खॉ, लहरू पुत्रान नसरू पुत्र छुट्टन हर दो समभाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	29//21/2	0.0303	पल्लू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	29//21/3	0.0717	पल्लू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	29//22/1	0.2700	पल्लू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	29//22/2	0.0598	इसराईल, सद्वदीक पुत्रान मुराद पुत्र बदलू हर दो समभाग 1/3 भाग, शेर मौहम्मद, झगड पुत्रान बदल खॉ पुत्र सहाय खॉ हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	30//1	0.0237	मौहम्मद इकबाल पुत्र कबीर अहमद पुत्र याकूब खा वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	26//25	0.0291	जुम्मा खॉ, खुशींद पुत्रान नबीबख्श पुत्र सुगडा हर दो समभाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	25//4	0.0283	कमरुदीन पुत्र सरदार खॉ पुत्र सफेद खॉ वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	25//4/2	0.0283	कमरुदीन पुत्र सरदार खॉ पुत्र सफेद खॉ वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	25//5	0.2605	कमरुदीन पुत्र सरदार खॉ पुत्र सफेद खॉ वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	25//7/1	0.3291	फज्जर, कमरुदीन, सिराजुदीन पुत्रान जगरूप पुत्र अनवर हर तीन समभाग 1/2 भाग, दीन मौहम्मद पुत्र मन्दरूप पुत्र अनवर 1/2 भाग वासीदेह, मकसूद पुत्र बम्बू पुत्र मौजम वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	25//8/1	0.0088	इकबाल पुत्र मजीद खान पुत्र अतरू 1/2 भाग, हकीमुददीन, रालक पुत्रान हमरू पुत्र सफेद खान हर दो समभाग 1/2 भाग
				व्यक्तिगत	कृषि	25//8/2	0.0467	मकसूद पुत्र बम्बू पुत्र मौजम वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	25//7/2	0.0178	कमरुदीन पुत्र सरदार खॉ पुत्र सफेद खॉ वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	25//12	0.0439	अमीर, आमीन, युसुफ, ईसा पुत्रान नत्थू पुत्र मेद खॉ हर चार समभाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	25//13	0.3379	फज्जर, कमरुदीन, सिराजुदीन पुत्रान जगरूप पुत्र अनवर हर तीन समभाग 1/2 भाग, दीन मौहम्मद पुत्र मन्दरूप पुत्र अनवर 1/2 भाग वासीदेह, मकसूद पुत्र बम्बू पुत्र मौजम वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	25//19	0.3528	अमीर, आमीन, युसुफ, ईसा पुत्रान नत्थू पुत्र मेद खॉ हर चार समभाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	25//20	0.0557	अमीर, आमीन, युसुफ, ईसा पुत्रान नत्थू पुत्र मेद खॉ हर चार समभाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	25//21	0.3288	जुम्मा खॉ, खुशींद पुत्रान नबीबख्श पुत्र सुगडा हर दो समभाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	24//1/2	0.0522	कमरुदीन पुत्र सरदार खॉ पुत्र सफेद खॉ वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	17//16	0.1412	सुनीता रानी पत्नी रिसी कुमार पुत्र ओमप्रकाश 1/2 भाग, अन्जना रानी पत्नी प्रवीन कुमार पुत्र ओमप्रकाश 1/2 भाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	17//17/1	0.0586	सुनीता रानी पत्नी रिसी कुमार पुत्र ओमप्रकाश 1/2 भाग, अन्जना रानी पत्नी प्रवीन कुमार पुत्र ओमप्रकाश 1/2 भाग वासीदेह
				व्यक्तिगत	कृषि	17/17/3	0.0353	फजरू पुत्र आसमौ पुत्र बदलू 1/3 भाग, नसीब खॉ, इसराईल पुत्रान बिलन्द खॉ पुत्र बाहद हर दो समभाग 1/6 भाग, दीनू, हसन मौ0 पुत्रान जस्सू पुत्र डोडा हर

							दो समभाग 1/6 भाग, सुलेमान, रजाक पुत्रान मौजी पुत्र निवाज खॉ हर दो समभाग 1/9 भाग, आस मौ0, असर खॉ पुत्रान मंगल पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/9 भाग, नसरु, अजीज पुत्रान रहमान पुत्र गुलाब हर दो समभाग 1/18 भाग, हनीफ, सरफूदीन, मेहरुदीन पुत्रान उमराव पुत्र गुलाब हर तीन समभाग 1/18 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//17/4	0.0010	आस मौ0, असर खॉ पुत्रान मंगल पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/2 भाग, हनीफ, सरफुदीन, मेहरुदीन पुत्रान उमराव पुत्र गुलाब हर तीन समभाग 23/93 भाग, नसरु पुत्र रहमान पुत्र गुलाब 15/62 भाग, अजीज पुत्र रहमान पुत्र गुलाब 1/93 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//18/1	0.0114	सुलेमान पुत्र नजीर पुत्र भूर खां 1/3 भाग, रती खॉ अतर खॉ, मौ0 सफी, सोहराब, मिहराब पुत्रान बशीर पुत्र भूरे खॉ हर पांच समभाग 1/3 भाग, नूर मौ0 पुत्र भूर खॉ पुत्र मेद खां 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//24/1/2	0.0058	सुलेमान,अली महोम्मद पुत्रान नादर पुत्र केहर हर दो समभाग 2/3 भाग, फारुख, लियाकत, जावंद, साकिर,आकिल पुत्रान जुम्मे खा पुत्र नादर हर पाच समभाग 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//25/1/1	0.0092	हमीदा, मज्जी, उमरदीन, निसार, अरबदीन पुत्रान हबीब पुत्र महताब हर पांच समभाग 1/3 भाग, सत्तार, मुबीन पुत्रान फतैह मौहम्मद पुत्र महताब हर दो समभाग 1/3 भाग, अयूब पुत्र महताब पुत्र केहर 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//16	0.0309	नजीर पुत्र रणमल पुत्र निवाज खॉ 1/2 भाग, शहाबुदीन, निजामुदीन पुत्रान लजीर पुत्र रणमल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//17	0.0693	अय्यूब, फतेह मौ0, अली मौ0 महबूब पुत्रान ईसब पुत्र महाराब खॉ हर चार समभाग 4/5 भाग, जमशेद , मुस्ताक पुत्रान इल्यास मौ0 पुत्र ईसब हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//18	0.1447	नजीर पुत्र रनमल पुत्र निवाज खॉ वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//19	0.1836	नजीर पुत्र रनमल पुत्र निवाज खॉ वासीदेह चुगताराम पुत्र लेखराम राहिन महताब पुत्र पीरबख्शा पुत्र मौहम्मद खॉ वासीदेह मुर्तहन
			व्यक्तिगत	कृषि	18//20	0.0691	नजीर पुत्र रणमल पुत्र निवाज खॉ 1/2 भाग, शहाबुदीन, निजामुदीन पुत्रान लजीर पुत्र रणमल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	19//20	0.0112	असरफ, दिलावर, शकरुल्ला पुत्रान जबर खॉ पुत्र सुल्हड हर तीन समभाग
			व्यक्तिगत	कृषि	19//21	0.3449	असरफ, दिलावर, शकरुल्ला पुत्रान जबर खॉ पुत्र सुल्हड हर तीन समभाग
			व्यक्तिगत	कृषि	19//22/2	0.0653	मौहम्मद खॉ पुत्र झगड पुत्र वासल खॉ वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	19//23/1	0.0080	असरफ, दिलावर, शकरुल्ला पुत्रान जबर खॉ पुत्र सुल्हड हर तीन समभाग
			व्यक्तिगत	कृषि	19//23/3	0.0066	गनेशराम पुत्र खिलन्दाराम पुत्र बिशनराम राहिन वासीदेह रामकिशन, गोविन्दराम पुत्रान जीवनदास पुत्र धूत्रराम हर दो समभाग वासी सोहना मुरतहनान
			व्यक्तिगत	कृषि	21//1	0.0144	दाउद, दीन मौ0 पुत्रान चाव खॉ पुत्रान चाव खॉ पुत्र मौहम्मद खॉ हर दो समभाग 1/4 भाग, आस मौ0 पुत्र मामला पुत्र मौहम्मद खॉ 1/4 भाग, कवरं खॉ पुत्र जहाज खॉ पुत्र मुराद 1/2 भाग वासीदेह
			पंचायत देह	अकृषि	21//1/1	0.0227	पंचायत देह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//1/2	0.0875	दाउद, दीन मौ0 पुत्रान चाव खॉ पुत्रान चाव खॉ पुत्र मौहम्मद खॉ हर दो समभाग 1/4 भाग, आस मौ0 पुत्र मामला पुत्र मौहम्मद खॉ 1/4 भाग, कवरं खॉ पुत्र जहाज खॉ पुत्र मुराद 1/2 भाग वासीदेह
			पंचायत देह	अकृषि	R-481	0.0329	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	R-482	0.0285	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	R-490	0.0560	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	R-491	0.0274	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	R-504	0.0217	पंचायत देह

			पंचायत देह	अकृषि	R-506	0.0116	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	N-54	0.1211	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	55	0.0093	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	70	0.1032	पंचायत देह
			व्यक्तिगत	कृषि	19//25/1	0.0015	कासम, फजरु पुत्रान मोहर सिंह पुत्र काला हर दो समभाग 1/3 भाग, जावेद, मुस्ती खों, शाहरुख खों पुत्रान हासम पुत्र मोहर सिंह हर तीन समभाग 1/6 भाग वासीदेह जबरुदीन, हनीफ, अ0 मजीद पुत्रान सुबराती पुत्र छोटा हर तीन समभाग 1/2 भाग, वासी किजंर जिला अलवर
			पंचायत देह	अकृषि	19//25/3	0.0144	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	22//5/1	0.0004	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	22//5/2	0.0035	पंचायत देह
			पंचायत देह	अकृषि	22//5/3	0.0148	पंचायत देह
		(13) खरखरी	व्यक्तिगत	कृषि	27//18/1	0.0054	जुम्मा खों, रहमान, हुसैनन खों, असरफ खों पुत्रान शरीफ खों पुत्र छोटे खों हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	27//17	0.2861	कमरुदीन, रसीद, हनीफ, रहीश पुत्रान यासीन पुत्र रोहडा हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	27//14/2	0.0696	जुम्मा खों, रहमान, हुसैनन खों, असरफ खों पुत्रान शरीफ खों पुत्र छोटे खों हर चार समभाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	27//14/1	0.0019	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	27//15	0.1858	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-47	0.0552	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	27//6	0.1624	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	28//10	0.2106	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	28//1	0.1598	बदलेराम , तोताराम, जीतराम, डीगराम पुत्रान व श्रीमति सुनैरी, प्रेमवती पुत्रीयां व श्रीमति प्रमाली विधवा रामसरूप हर सात समभाग 1/4 भाग, लक्खीराम, यादराम, मामराज पुत्रान व श्रीमति केला, लक्ष्मी, अंगूरी, शरबती पुत्रीयां ग्यासी पुत्र भम्बड हर सात समभाग 1/4 भाग, मामचन्द पुत्र भम्बड पुत्र दयाकिशन 1/4 भाग, श्रीमति केला विधवा शिबू पुत्र भम्बड 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	28//2	0.1525	बदलेराम , तोताराम, जीतराम, डीगराम पुत्रान व श्रीमति सुनैरी, प्रेमवती पुत्रीयां व श्रीमति प्रमाली विधवा रामसरूप हर सात समभाग 1/4 भाग, लक्खीराम, यादराम, मामराज पुत्रान व श्रीमति केला, लक्ष्मी, अंगूरी, शरबती पुत्रीयां ग्यासी पुत्र भम्बड हर सात समभाग 1/4 भाग, मामचन्द पुत्र भम्बड पुत्र दयाकिशन 1/4 भाग, श्रीमति केला विधवा शिबू पुत्र भम्बड 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//22/1	0.0047	बदलेराम , तोताराम, जीतराम, डीगराम पुत्रान व श्रीमति सुनैरी, प्रेमवती पुत्रीयां व श्रीमति प्रमाली विधवा रामसरूप हर सात समभाग 1/4 भाग, लक्खीराम, यादराम, मामराज पुत्रान व श्रीमति केला, लक्ष्मी, अंगूरी, शरबती पुत्रीयां ग्यासी पुत्र भम्बड हर सात समभाग 1/4 भाग, मामचन्द पुत्र भम्बड पुत्र दयाकिशन 1/4 भाग, श्रीमति केला विधवा शिबू पुत्र भम्बड 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//22/2	0.2060	बदलेराम , तोताराम, जीतराम, डीगराम पुत्रान व श्रीमति सुनैरी, प्रेमवती पुत्रीयां व श्रीमति प्रमाली विधवा रामसरूप हर सात समभाग 1/4 भाग, लक्खीराम, यादराम, मामराज पुत्रान व श्रीमति केला, लक्ष्मी, अंगूरी, शरबती पुत्रीयां ग्यासी पुत्र भम्बड हर सात समभाग 1/4 भाग, मामचन्द पुत्र भम्बड पुत्र दयाकिशन 1/4 भाग, श्रीमति केला विधवा शिबू पुत्र भम्बड 1/4 भाग वासीदेह

			व्यक्तिगत	कृषि	21//23	0.1473	बदलेराम , तोताराम, जीतराम, डीगराम पुत्रान व श्रीमति सुनैरी, प्रेमवती पुत्रीयां व श्रीमति प्रमाली विधवा रामसरूप हर सात समभाग 1/4 भाग, लक्ष्मीराम, यादराम, मामराज पुत्रान व श्रीमति केला, लक्ष्मी, अंगूरी, शरबती पुत्रीयां ग्यासी पुत्र भम्बड हर सात समभाग 1/4 भाग, मामचन्द पुत्र भम्बड पुत्र दयाकिशन 1/4 भाग, श्रीमति केला विधवा शिबू पुत्र भम्बड 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//19/1	0.0026	बदलेराम , तोताराम, जीतराम, डीगराम पुत्रान व श्रीमति सुनैरी, प्रेमवती पुत्रीयां व श्रीमति प्रमाली विधवा रामसरूप हर सात समभाग 1/4 भाग, लक्ष्मीराम, यादराम, मामराज पुत्रान व श्रीमति केला, लक्ष्मी, अंगूरी, शरबती पुत्रीयां ग्यासी पुत्र भम्बड हर सात समभाग 1/4 भाग, मामचन्द पुत्र भम्बड पुत्र दयाकिशन 1/4 भाग, श्रीमति केला विधवा शिबू पुत्र भम्बड 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//18/1	0.2284	नजीर, मजीद, रजमल पुत्रान उभेद पुत्र अल्लाबक्श हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//18/2	0.1225	बदलेराम , तोताराम, जीतराम, डीगराम पुत्रान व श्रीमति सुनैरी, प्रेमवती पुत्रीयां व श्रीमति प्रमाली विधवा रामसरूप हर सात समभाग 1/4 भाग, लक्ष्मीराम, यादराम, मामराज पुत्रान व श्रीमति केला, लक्ष्मी, अंगूरी, शरबती पुत्रीयां ग्यासी पुत्र भम्बड हर सात समभाग 1/4 भाग, मामचन्द पुत्र भम्बड पुत्र दयाकिशन 1/4 भाग, श्रीमति केला विधवा शिबू पुत्र भम्बड 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//13	0.0140	नजीर, मजीद, रजमल पुत्रान उभेद पुत्र अल्लाबक्श हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//14	0.1531	नजीर, मजीद, रजमल पुत्रान उभेद पुत्र अल्लाबक्श हर तीन समभाग वासीदेह
2	नूँह	(1) अटटा	व्यक्तिगत	कृषि	4//16	0.0298	मवासी पुत्र नजर खॉ पुत्र मम्मल वासी रामपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	5//20	0.0275	अब्दुल गनी, अब्दुल गफ्फार, मौहम्मद इसराईल, हारुन पुत्रान हनीफ पुत्र सलीम खॉ हर चार समभाग 1/3 भाग, फिदा मौहम्मद पुत्र मुनीर खॉ पुत्र चांदमल 1/3 भाग, अली मौहम्मद, अनवर, राज मौहम्मद पुत्रान हुसैन खॉ पुत्र चांदमल हरतीन समभाग 1/3 भाग वासीदेह
			पचायत देह	अकृषि	5//19	0.0354	पचायत देह
			पचायत देह	अकृषि	5//14	0.0261	पचायत देह
			पचायत देह	अकृषि	5//18	0.0050	पचायत देह
		(2) रामपुर	व्यक्तिगत	कृषि	11//15	0.0493	बलवीरसिंह, चन्द्रपाल सिंह, बेनामी पुत्रान गोपालसिंह पुत्र रुडा हरतीन समभाग 1/2 भाग वासीदेह श्रीमति नन्केदेवी विधवा व श्रीमति सुनिता, अनीता, कवीता पुत्रीयान श्रीपाल पुत्र सोहनसिंह समभाग 2/15 भाग, श्रीमति योगेश विधवा व राहूल पुत्र व श्रीमति प्रिया, प्रिति पुत्रीयान निपू पुत्र श्रीपाल हर चार समभाग 1/30 भाग, अषोक, धर्मवीर पुत्र सोहनसिंह पुत्र रुडा समभाग 1/3 भाग, वासीयान आटा श्रीपाल हरचार समभाग 1/30 भाग, धर्मवीर, अषोक पुत्रान सोहनसिंह पुत्र रुडा हर दो समभाग 1/3 भाग, निवासीयान आटा
			व्यक्तिगत	कृषि	10//6	0.0939	मनोज कुमार पुत्र अमीचन्द पुत्र ख्याली वासी 13 जोगावाइ डा0 जामिया नगर दिल्ली मालिक कब्जा नानकसिंह तेजसिंह मोहरसिंह पुत्रान सरजीतसिंह हकदारान शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	10//7	0.0564	मनीष राघव पुत्र नरेन्द्रसिंह यादव 3/160 भाग, श्रीमति ऊषारानी पत्नी ठाकूरदास 1/128 भाग, सुषमा डुडेजा पत्नी सजय जुडेजा 1/128 भाग, श्रीमति अन्सू मेहता पत्नी विजय मेहता 3/160 भाग, श्रीमति सुनिता पत्नी अनील मेहता 3/160 भाग, श्रीमति सीमा पत्नी महेन्द्रसिंह 1/64 भाग वासीदेह श्रीमति सरोज देवी पत्नी सुरजमल 3/160 भाग, वासी कुर्थला श्रीमति विनिता सिन्हा पत्नी अनील सिन्हा 1/20 भाग, श्रीमति गीता पत्नी किशनसिंह 1/32 भाग, दीपकजैन पुत्र सतेन्द्रजैन 3/160 भाग, नीरज कुमार पुत्र जगनाथ 3/160 भाग, श्रीमति ज्योति गोगिया पत्नी शिव कुमार गोगिया 3/320 भाग, श्रीमति सविता रानी पत्नी चन्द्रमनी 3/320 भाग, श्रीमति रामावती पत्नी यादराम 3/160 भाग, जगदीष वर्मा पुत्र परमानन्द 3/80 भाग, श्रीमति रामा पत्नी राजेश कुमार

				1/80 भाग, श्रीमति सवेता पत्नी कृष्ण कुमार 1/80 भाग, श्रीमति नारन्गी पत्नी घबर दयाल 1/80 भाग, नील कमल जैन पुत्र श्याम सुन्दर जैन 1/16 भाग, श्रीमति सावित्री पत्नी सुरेन्द्र सिंह 3/320 भाग, श्रीमति उर्मिला पत्नी रणबीर सिंह 3/320 भाग, पंकज गुप्ता पुत्र पहलाद गुप्ता 21/320 भाग, श्रीमति जगवती पत्नी अर्जनसिंह 17/320 भाग, अजीत सिंह पुत्र दिलिप सिंह 3/64 भाग, अवतार सिंह पुत्र फकीरा सिंह 1/10 भाग, त्रिलोकचन्द पुत्र श्योप्रसाद 1/10 भाग, घनध्यामदास पुत्र मंगतराम 1/10 भाग, जयनारायण पुत्र गोकलचन्द 1/10 भाग वासीदेह आदेश कुमार पुत्र रामजीलाल पुत्र मवासीराम 1/64 भाग, वासी इण्डरी
व्यक्तिगत	कृषि	10/8	0.0166	मनोहरलाल, घनध्यानदास पुत्रान व श्रीमति शान्तिदेवी, केलाषकुमारी, सुमित्रादेवी, कुन्तीदेवी, फूलवती पुत्रियां ज्ञानचन्द पुत्र देवीसहाय हर सात समभाग साकनान सोहना
व्यक्तिगत	कृषि	10/11	0.1108	बलवीरसिंह, चन्द्रपाल, बेनामी पुत्रान गोपाल उर्फ गोपालसिंह पुत्र रुडा हर तीन समभाग 1/2 भाग, श्रीमति नन्नोदेवी विधवा व श्रीमति सुनिता, अनीता, कवीता पुत्रीयां श्रीपाल पुत्र सोहनसिंह हर चार समभाग 2/15 भाग, श्रीमति योगेश पत्नी व राहुल पुत्र व प्रिति, प्रिया पुत्रीयान निष्पु पुत्र श्रीपाल
व्यक्तिगत	कृषि	10/12	0.1391	बलवीरसिंह, चन्द्रपाल, बेनामी पुत्रान गोपाल उर्फ गोपालसिंह पुत्र रुडा हर तीन समभाग 1/2 भाग, श्रीमति नन्नोदेवी विधवा व श्रीमति सुनिता, अनीता, कवीता पुत्रीयां श्रीपाल पुत्र सोहनसिंह हर चार समभाग 2/15 भाग, श्रीमति योगेश पत्नी व राहुल पुत्र व प्रिति, प्रिया पुत्रीयान निष्पु पुत्र श्रीपाल
व्यक्तिगत	कृषि	10/13	0.1030	अनिल कुमार पुत्र हरिकिषन पुत्र भूरुसिंह निवासी लिवासपुर दिल्ली मालिक कब्जा अयुध्याप्रसाद पुत्र देवीसहाय वासी सोहना हकदार शामलात
व्यक्तिगत	कृषि	10/14	0.0171	जसवन्त कुमार गोयल पुत्र सन्तलाल गोयल निवासी पिनगवा, फिरोजपुर झिरका मालिक कब्जा नानकसिंह, तेजसिंह, मोहरसिंह पुत्रान सरजीतसिंह पिसर मुतवन्ना, श्रीमति भगवती हर तीन समभाग वासीदेह हकदारान शामलात
व्यक्तिगत	कृषि	9/7	0.0510	राजपाल 8/163 भाग,, विजयपाल 8/163 भाग, पुत्रान रामचन्द पुत्र जुगला मैं अजय इन्टरप्राइजिज प्रा0 लि0 नेहरूपेलेस नई दिल्ली 147/163 राहिनान बलवीरसिंह, चन्द्रपाल बैनामी पुत्रान व कस्तूरी, किस्सो पुत्रीयान व श्रीमति गोपाल उर्फ गोपालसिंह समभाग 1/2 भाग, धर्मवीरसिंह, अषोक पुत्रान सोहनसिंह 1/3 भाग, श्रीमति नानगीदेवी विधवा व सुनिता, अनीता, कवीता पुत्रीयान श्रीपाल पुत्र सोहनसिंह 2/5 भाग, श्रीमति योगेश विधवा व राहुल पुत्र श्री श्रीमति प्रिति, प्रिया पुत्रीयान निष्पु पुत्र श्रीपाल 1/30 भाग, मुरतहनान अव्वल राहिनान मैं अजय मधुवन इन्टर प्रा0 लि0 नेहरू पेलेस नई दिल्ली वासी देह मुरतहन दोयम
व्यक्तिगत	कृषि	9/8/1	0.0370	रामचन्द पुत्र जुगला पुत्र ज्वालासिंह 1/4 भाग, मैं अजय इन्टरप्राइजिज प्रा0 लि0 1/4 भाग, रामपत, रामकुवारसिंह पुत्रान लखपतसिंह पुत्र श्रीराम हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह मालकान कब्जा रामचन्द पुत्र जुगला हकदार शामलात
व्यक्तिगत	कृषि	9/8/2	0.0789	मैं अजय मधुवन इन्टर प्रा0 लि0 नेहरू पेलेस नई दिल्ली द्वारा हंसराज वर्मा पुत्र एम एल वर्मा नि0 टी0 15, वार्ड-8, महरोली
व्यक्तिगत	कृषि	9/9	0.1083	मैं अजय मधुवन इन्टर प्रा0 लि0 नेहरू पेलेस नई दिल्ली द्वारा हंसराज वर्मा पुत्र एम एल वर्मा नि0 टी0 15, वार्ड-8, महरोली
व्यक्तिगत	कृषि	9/10	0.1094	अमीचन्द पुत्र ख्याली पुत्र आधा 1/2 भाग वासीदेह श्रीमति बिमला पत्नी अमीचन्द पुत्र ख्याली 1/2 भाग, वासीयान 13 जोगाबाई, जामियांगर दिल्ली
पचायत देह	अकृषि	15/20	0.0165	पचायत देह
पचायत देह	अकृषि	R-25	0.0252	पचायत देह
(3) उदाका	व्यक्तिगत	कृषि	7/3	वेदप्रकाश, इन्द्रास, बलराज, राकेश पुत्रान हुकमसिंह पुत्र श्रीराम हर चार समभाग 2/3 भाग, मालकान कब्जा

				ब्रह्मादेवी, रमेशदेवी पुत्रियां हुकमसिंह पुत्र श्रीराम हर दो समभाग 1/3 भाग, मालकान कब्जा श्रीमति राधाबाई पत्नी भजनलाल वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	7//6	0.2502	रणजीत, अजीत, जगदीश पुत्रान व श्रीमति बलेश्वरी, ज्ञानवती, कमलेश, राजोदेवी पुत्रियां व श्रीमति चन्दी विधवा फकीरा पुत्र शिवदयाल हर आठ समभाग मालकान कब्जा आसानन्द, जुगलकिशोर, जगदीश, रामशरण, कृष्णलाल पुत्रान उदयराम पुत्र धनश्याम हर पाचें समभाग वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	7//7	0.2143	रामपत पुत्र शिवदयाल पुत्र छोटे वासीदेह मालिक कब्जा आसमचन्द पुत्र वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	7//8/1	0.0348	रामपत पुत्र शिवदयाल पुत्र छोटे वासीदेह मालिक कब्जा आसमचन्द पुत्र वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	7//8/2	0.2163	रामपत पुत्र शिवदयाल पुत्र छोटे वासीदेह मालिक कब्जा लेखराम पुत्र धनश्याम वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	7//9	0.0377	रामपत पुत्र शिवदयाल पुत्र छोटे वासीदेह मालिक कब्जा लेखराम पुत्र धनश्याम वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	26	0.0372	शामलात पत्नी गुजरान हस्ब रसद कब्जा आराजी बन्दोबस्त साल 1938-1939
व्यक्तिगत	कृषि	8//6	0.0677	चन्दगी पुत्र पृथ्वी पुत्र रामलाल वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	8//7	0.1403	कृष्णपाल, विनोद कुमार पुत्रान रामपाल हर दो समभाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	8//8	0.1845	कृष्णपाल, विनोद कुमार पुत्रान रामपाल हर दो समभाग वासीदेह, कृष्णपाल पुत्र हरपाल पुत्र शिबा 1/6 भाग, विजयपालसिंह पुत्र प्यारेलाल पुत्र शिबा 1/6 भाग, चन्द्रलाल पुत्र वेदराम पुत्र शिबा 1/6 भाग, श्रीमति वीषो पत्नी टेकचन्द पुत्र होराम 1/2 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	8//9	0.1681	रामलाल पुत्र शिवदयाल पुत्र छोटे वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	8//10	0.2229	हरभजन, हरचरण पुत्रान डूंगर पुत्र चैनसुख हर दो समभाग वासीदेह, रामपत पुत्र शिवदयाल पुत्र छोटे वासीदेह मालिक कब्जा आसमचन्द पुत्र वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	8//13	0.0248	कृष्णपाल पुत्र हरपाल पुत्र शिबा 1/6 भाग, विजयपालसिंह पुत्र प्यारेलाल पुत्र शिबा 1/6 भाग, चन्द्रलाल पुत्र वेदराम पुत्र शिबा 1/6 भाग, श्रीमति वीषो पत्नी टेकचन्द पुत्र होराम 1/2 भाग वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	8//14	0.0015	चन्दगी पुत्र पृथ्वी पुत्र रामलाल वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	8//15/1	0.0083	चन्दगी पुत्र पृथ्वी पुत्र रामलाल वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	8//15/2	0.0247	श्रीमति मुरती पत्नी देशी पुत्र मुन्शी वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	8//16/1	0.0674	श्रीमति मुरती पत्नी देशी पुत्र मुन्शी वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	8//16/2	0.0929	श्रीमति मुरती पत्नी देशी पुत्र मुन्शी वासीदेह
व्यक्तिगत	कृषि	9//10	0.0037	शमशुदीन, कमरुद्दीन पुत्रान ईसब पुत्र अब्दुल हमीद हर दो समभाग मालकान कब्जा मुखराम दत्तक पुत्र शिखा वासीदेह हकदार शामिल
व्यक्तिगत	कृषि	9//11	0.0629	श्रीमति मुरती पत्नी देशी पुत्र मुन्शी वासीदेह
पचायत देह	अकृषि	R-347	0.0123	पचायत देह
पचायत देह	अकृषि	R-346	0.0429	पचायत देह
पचायत देह	अकृषि	R-345	0.0403	पचायत देह
(4) भिरावटी	व्यक्तिगत	कृषि	1//15	भजनलाल, बीरसिंह पुत्रान दुल्ली पुत्र इन्दर हर दो समभाग वासीयान देह
	इण्डस्ट्रीज	कृषि	2//11	मैसर्स सी0 ई0 एस0 इन्वेस्टमेन्ट मैनेजमेन्ट कन्सल्टमेन्ट प्रा0 लि0

[फा.सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यू सी/439]

ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2014

S. O. 73 (E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1979 (E), dated the 2nd July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd July, 2013 and issued under section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in District Mewat in the State of Haryana;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in daily local newspapers, namely, Dainik Bhaskar, dated the 7th August, 2013 and The Indian Express, dated the 7th August, 2013 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in Mewat District in the State of Haryana.

Name of the District: Mewat

S.No.	Name of Taluka	Village Name	Type of Land	Nature of the Land	Kila No./ Khasra No.	Area to be Acquired in Hect.	Name of the Land Owners
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Taoru	(1) Sewaka	Private	Agriculture	5//12/2	0.0330	Majid, Shubhan Khan, Rahman, Israil Sons of Karimbaksh Four Eq. Share 1/2 Share, Khubi, Mudan, Sumar Mohammad Sons of Suleman S/o Allabaksh Three Eq. Share 1/8 Share, Rakesh, Hemu Sons & Seema, Renu Daughters of Ranjeet S/o Tejram Four Eq. Share 3/100 Share, Smt. Usha W/o Jagdish S/o Naanga 69/200 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	5//13	0.1386	Umarshah S/o Juharshah S/o Choteshah 1/9 Share, Rajesh Son & Sangeeta D/o Muniram S/o Chetram Two Eq. Share 11/108 Share, Smt. Husaini W/o Badlu S/o Sufeda 67/324 Share, Smt. Hafijan Begam W/o Ashin Khan S/o Sufeda 67/162 Share, Dharmveer S/o Kishan Lal S/o Harnaam 1/6 Share.
			Private	Agriculture	5//14	0.1690	Umarshah S/o Juharshah S/o Choteshah 1/9 Share, Rajesh Son & Sangeeta D/o Muniram S/o Chetram Two Eq. Share 11/108 Share, Smt. Husaini W/o Badlu S/o Sufeda 67/324 Share, Smt. Hafijan Begam W/o Ashin Khan S/o Sufeda 67/162 Share, Dharmveer S/o Kishan Lal S/o Harnaam 1/6 Share.
			Private	Agriculture	5//15/1	0.0945	Umarshah S/o Juharshah S/o Choteshah 1/9 Share, Rajesh Son & Sangeeta D/o Muniram S/o Chetram Two Eq. Share 11/108 Share, Smt. Husaini W/o Badlu S/o Sufeda 67/324 Share, Smt. Hafijan Begam W/o Ashin Khan S/o Sufeda 67/162 Share, Dharmveer S/o Kishan Lal S/o Harnaam 1/6 Share.

			Private	Agriculture	5//15/2	0.0517	Shabbar S/o Deen Mohammad S/o Sugda 10/29 Share, Smt. Majidan W/o Kasam S/o Deen Mohammad 9/29 Share, Laxmi Narayan S/o Khayali Ram S/o Palturam 10/29 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	5//18	0.0185	Rasula Khan, Fajrudeen Sons of Nabi Khan S/o Khudabaksh Two Eq. Share 2/3 Share, Sattaar S/o Nabi Khan S/o Khudbaksh 11/48 Share, Yakoob S/o Yasin S/o Mohru 5/48 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	5//19	0.1429	Majid, Shubhan Khan, Rahman, Israil Sons of Karimbaksh Four Eq. Share 1/2 Share, Khubi, Mudan, Sumar Mohammad Sons of Suleman S/o Allabaksh Three Eq. Share 1/8 Share, Rakesh, Hemu Sons & Seema, Renu Dauthers of Ranjeet S/o Tejram Four Eq. Share 3/100 Share, Smt. Usha W/o Jagdish S/o Naanga 69/200 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	5//20	0.1724	Majid, Shubhan Khan, Rahman, Israil Sons of Karimbaksh Four Eq. Share 1/2 Share, Khubi, Mudan, Sumar Mohammad Sons of Suleman S/o Allabaksh Three Eq. Share 1/8 Share, Rakesh, Hemu Sons & Seema, Renu Dauthers of Ranjeet S/o Tejram Four Eq. Share 3/100 Share, Smt. Usha W/o Jagdish S/o Naanga 69/200 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	4//4	0.0975	Rasula, Kapura Sons of Raikhan Two Eq. Share rahan Share 2/3 Share, Islam S/o Mohar Khan S/o Raj Khan rahan Share 1/3 Share
			Private	Agriculture	4//5	0.1218	Rasula, Kapura Sons of Raikhan Two Eq. Share rahan Share 2/3 Share, Islam S/o Mohar Khan S/o Raj Khan rahan Share 1/3 Share
			Private	Agriculture	4//7	0.0412	Rasula, Kapura Sons of Raikhan Two Eq. Share rahan Share 2/3 Share, Islam S/o Mohar Khan S/o Raj Khan rahan Share 1/3 Share
			Private	Agriculture	4//8/1	0.0677	Rasula, Kapura Sons of Raikhan Two Eq. Share rahan Share 2/3 Share, Islam S/o Mohar Khan S/o Raj Khan rahan Share 1/3 Share
			Private	Agriculture	4//8/2	0.0780	Rasula, Kapura Sons of Rai Khan S/o Raj Khan Two Eq. Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	4//9	0.1591	Rasula, Kapura Sons of Raikhan Two Eq. Share rahan Share 2/3 Share, Islam S/o Mohar Khan S/o Raj Khan rahan Share 1/3 Share
			Private	Agriculture	4//10	0.1300	Makhan Lal S/o Malhuran S/o Thakriya 3/4 Share wasi Deh, Antram S/o Hetram S/o Mathuram 1/4 Share wasi Sahdod.
			Private	Agriculture	4//11/1	0.0331	Makhan Lal S/o Malhuran S/o Thakriya 3/4 Share wasi Deh, Antram S/o Hetram S/o Mathuram 1/4 Share wasi Sahdod.
			Private	Agriculture	3//1	0.0505	Rasula, Kapura Sons of Raikhan Two Eq. Share rahan Share 2/3 Share, Islam S/o Mohar Khan S/o Raj Khan rahan Share 1/3 Share
	(2) Raniyaki		Private	Agriculture	8//4	0.0200	Mohammad Asloop, Yakoob, Ali Mohammad, Ayyub, Noordeen, Sadeek Sons of Safedi S/o Akhesingh Six Eq. Share 1/2 Share, Aladeen, Wahideen Sons of Deen Mohammad S/o Niwaj Khan Two Eq. Share 1/3 Share, Abbas, Sehroon, Saddam Hussain Sons of Immamudeen S/o Deen Mohammad Three Eq. Share 1/6 Share
			Private	Agriculture	8//7	0.0284	Mohammad Asloop, Yakoob, Ali Mohammad, Ayyub, Noordeen, Sadeek Sons

							of Safedi S/o Akhesingh Six Eq. Share 1/2 Share, Aladeen, Wahideen Sons of Deen Mohammad S/o Niwaj Khan Two Eq. Share 1/3 Share, Abbas, Sehroon, Saddam Hussain Sons of Immamudeen S/o Deen Mohammad Three Eq. Share 1/6 Share
			Private	Agriculture	8//8	0.1184	Unnas S/o Chand Singh S/o Mehta 3/16 Share, Nisar Ahmad, Jamil Ahmad Sons of Fajru S/o Changa Two Eq. Share 3/8 Share, Haroon, Nasru, Ali Mohammad Sons of Chahat S/o Mahta Three Eq. Share 7/16 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	8//9	0.1246	Unnas S/o Chand Singh S/o Mehta 3/16 Share, Nisar Ahmad, Jamil Ahmad Sons of Fajru S/o Changa Two Eq. Share 3/8 Share, Haroon, Nasru, Ali Mohammad Sons of Chahat S/o Mahta Three Eq. Share 7/16 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	8//10	0.0455	Smt. Devi Bai D/o Shadu Singh S/o Chunnu Ram 1/5 Share, Sher Mohammad Urf Chajju S/o Asila S/o Hari Singh 2/5 Share, Noru, Ramjaan, Shahabuddin Sons of Ajim S/o Hari Singh Three Eq. Share 2/5 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	8//11/1	0.0209	Shamsudeen S/o Shitab Khan S/o Bholabaksh wasi Chandu Hulla Delhi.
			Private	Agriculture	7//13	0.0501	Shamsudeen S/o Naseeb Khan S/o Tundu wasi Deh.
			Private	Agriculture	7//14	0.1343	Kallu, Mallu, Dilva, Noor Mohammad Sons of Bardan S/o Ghosi Four Eq. Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	7//15	0.1155	Nanhe Khan S/o Ghosi S/o Bodan wasi Deh.
			Private	Agriculture	7//18	0.0145	Deen Mohammad, Asru Sons of Jaggu S/o Leela Two Eq. Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	7//19	0.1168	Devraj, Santram, Ramman Girraj Sons of Todar S/o Chandar Four Eq. Share 1/2 Share, Shamsher, Bashir Sons of Himmat S/o Mal Khan Two Eq. Share 1/2 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	7//20	0.1356	Nanhe Khan S/o Ghosi S/o Bodan wasi Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//16	0.0759	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//22/2	0.0382	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//23	0.1485	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//24	0.1112	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//25	0.0093	Gram Panchayat
		(3) Gurnawat	Private	Agriculture	8//22/2	0.0682	Akhtar, Umardeen Sons of Subha Khan S/o Mangla Two Eq. Share 1/2 Share, Numaan, Manaam, Harun, Jakir Sons of Sultan S/o Mugla Four Eq. Share 1/2 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	8//23	0.1017	Rahman Khan, Nawal Khan Sons of Bhure Khan S/o Najaf Khan Two Eq. Share 1/2 Share, Ahmad, Isa, Musa, Ibrahim, Sher Khan, Rati Sons of Maujuda S/o Sher Khan Six Eq. Share 1/2 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	8//24/1	0.0656	Hajar Khan, Ramjaan, Haroon, Karim Sons of Jain Khan S/o Jainanda Four Eq. Share 1/2 Share, Subhash Khan S/o Jainanda S/o Bhola 1/2 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	8//24/2	0.0060	Rahman S/o Kandula S/o Niwaj Khan 1/4 Share, Haroon S/o Doop Khan S/o Niwaz Khan rahan Share 80/177 Share bila rahan Share 211/708 Share, Abdul Rajjak S/o Rahmat S/o Chottu 80/177 Share wasi Deh Murthan

			Private	Agriculture	8//25/1	0.0013	Rahman S/o Kandula S/o Niwaj Khan 1/4 Share, Haroon S/o Doop Khan S/o Niwaz Khan rahan Share 80/177 Share bila rahan Share 211/708 Share, Abdul Rajjak S/o Rahmat S/o Chottu 80/177 Share wasi Deh Murthan
			Private	Agriculture	8//25/2	0.0308	Rahman S/o Kandula S/o Niwaj Khan 1/4 Share, Haroon S/o Doop Khan S/o Niwaz Khan rahan Share 80/177 Share bila rahan Share 211/708 Share, Abdul Rajjak S/o Rahmat S/o Chottu 80/177 Share wasi Deh Murthan
			Private	Agriculture	8//16/2	0.0441	Rahman S/o Kandula S/o Niwaj Khan 1/4 Share, Haroon S/o Doop Khan S/o Niwaz Khan rahan Share 80/177 Share bila rahan Share 211/708 Share, Abdul Rajjak S/o Rahmat S/o Chottu 80/177 Share wasi Deh Murthan
			Private	Agriculture	9//14	0.0790	Najir S/o Dal Khan S/o Vee Bhan wasi Deh.
			Private	Agriculture	9//18	0.0634	Rustam S/o Selemi S/o Uday Bhan 1/3 Share, Ibrahim S/o Hamida S/o Lahru 1/9 Share, Sarfudeen S/o Najir S/o Dal Khan 1/9 Share, Bashir S/o Hamida S/o Lahru 1/9 Share, Mubarik, Bilal Sons of Sagir S/o Yaseen Two Eq. Share 1/6 Share, Jumma S/o Yaseen Khan S/o Uday Bhan 1/6 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	9//19	0.1058	Rustam S/o Selemi S/o Uday Bhan 1/3 Share, Ibrahim S/o Hamida S/o Lahru 1/9 Share, Sarfudeen S/o Najir S/o Dal Khan 1/9 Share, Bashir S/o Hamida S/o Lahru 1/9 Share, Mubarik, Bilal Sons of Sagir S/o Yaseen Two Eq. Share 1/6 Share, Jumma S/o Yaseen Khan S/o Uday Bhan 1/6 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	9//20/2	0.0761	Rahman S/o Kandula S/o Niwaj Khan 1/4 Share, Haroon S/o Doop Khan S/o Niwaz Khan 3/4 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	9//20/3	0.0234	Rustam S/o Selemi S/o Uday Bhan 1/3 Share, Ibrahim S/o Hamida S/o Lahru 1/9 Share, Sarfudeen S/o Najir S/o Dal Khan 1/9 Share, Bashir S/o Hamida S/o Lahru 1/9 Share, Mubarik, Bilal Sons of Sagir S/o Yaseen Two Eq. Share 1/6 Share, Jumma S/o Yaseen Khan S/o Uday Bhan 1/6 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	18//5	0.1022	Kamal S/o Kundan S/o Johru Mir Khan 1/2 Share, Kadar S/o Chahat S/o Meer Khan 1/2 Share wasideh, Kamil, Kamal Sons of Kundan S/o Johru Two Eq. Share 1/2 Share Ibrahim Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	17//1/1	0.0434	Kamal S/o Kundan S/o Jardu wasi Deh.
			Private	Agriculture	17//1/2	0.0707	Rahmat, Subeh Khan Sons of Mungla S/o Fool Khan Two Eq. Share 2/3 Share, Nomaan, Mannan, Haroon, Jafar Sons of Sultan S/o Mangla Four Eq. Share 1/3 Share Maklaka Kabza Fathe Mohammad Majdoor 1/3 Share wasi Deh Hakdar Shaamlat.
			Private	Agriculture	17//2/1	0.0371	Rahmat, Subeh Khan Sons of Mungla S/o Fool Khan Two Eq. Share 2/3 Share, Nomaan, Mannan, Haroon, Jafar Sons of Sultan S/o Mangla Four Eq. Share 1/3 Share Maklaka Kabza Fathe Mohammad Majdoor 1/3 Share wasi Deh Hakdar Shaamlat.
			Private	Agriculture	10//11	0.0940	Samsudeen, Sher Mohammad Shahabudeen Sons of Raju S/o Maid Khan Three Eq. Share 1/4 Share, Shamim, Alim, Sharoop Sons of Nasir S/o Raju Three Eq. Share 1/12 Share, Majid S/o Maid Khan S/o Kamlu 1/3 Share, Abdul, Hamid, Rashid, Sahab Sons of Nasru

						S/o Maid Khan Four Eq. Share 1/3 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	10//12/1	0.0121	Samsudeen, Sher Mohammad Shahabudeen Sons of Raju S/o Maid Khan Three Eq. Share 1/4 Share, Shamim, Alim, Sharoop Sons of Nasir S/o Raju Three Eq. Share 1/12 Share, Majid S/o Maid Khan S/o Kamlu 1/3 Share, Abdul, Hamid, Rashid, Sahab Sons of Nasru Etc.
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//12/2	0.0226	Panchayat Deh
		Private	Agriculture	10//6	0.0928	Sahab Khan, Shyabu, Basrudeen Sons of Bhullu Four Eq. Share 1/2 Share, Rehman S/o Umrav S/o Bhullu 1/2 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	10//7/1	0.0197	Lilu S/o Ishab S/o Noor Mohammad 1/2 Share Malik Kabja, Smt. Rahisan Widow wasi Deh Hakdar Shaamlat
		Private	Agriculture	10//7/2	0.0333	Arvind Kela S/o Balraj Kela wasi C-7 Kailash Colony New Delhi
		Private	Agriculture	10//7/3	0.0380	Arvind Kela S/o Balraj Kela wasi Deh, Sube Singh S/o Rishal singh S/o Laliya 1/2 share Bijwasan New Delhi
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-63	0.0246	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	9//15/1	0.0756	Panchayat Deh
		Private	Agriculture	9//15/2	0.0907	Samsudeen, Sher Mohammad Shahabudeen Sons of Raju S/o Maid Khan Three Eq. Share 1/4 Share, Shamim, Alim, Sharoop Sons of Nasir S/o Raju Three Eq. Share 1/12 Share, Majid S/o Maid Khan S/o Kamlu 1/3 Share, Abdul, Hamid, Rashid, Sahab Sons of Nasru S/o Maid Khan Four Eq. Share 1/3 Share wasi Deh.
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-225	0.0659	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-237	0.0164	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//9	0.0396	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//7/4	0.0134	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//8	0.1027	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	11//10/2	0.0092	Panchayat Deh
	(4) Dhidara	Private	Agriculture	30//1	0.0316	Rahish, Majid, Shamshu Sons of Imrat S/o Himmat Three Eq. Share billa rahan Share 3/8 Share, Robad S/o Imrat S/o Himmat rahan Share 1/8 Share, Chote Khan S/o Himmat S/o Dalla rahan Share 1/8 Share billa rahan Share 3/8 Share, Suresh Kumar S/o Hari Ram S/o Chandra 1/4 Shar wasi Deh Murthan.
		Private	Agriculture	29//2/2	0.0369	Phool Singh, Jal Singh Sons of Juglal S/o Med Singh Two Eq. Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	29//3	0.1387	Phool Singh, Jal Singh Sons of Juglal S/o Med Singh Two Eq. Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	29//4	0.1457	Phool Singh, Jal Singh Sons of Juglal S/o Med Singh Two Eq. Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	29//5	0.1437	Chote Khan S/o Himmat S/o Dalla 1/2 Share, Rahim, Majid, Shamsu Sons of Imrat Three Eq. Share bill rahan Share 3/8 Share, Robad S/o Imrat S/o Himmat rahan Share 1/8 Share, Suresh Kumar S/o Hari Ram S/o Chandra 1/8 Share wasi Deh Murthan.
	(5) Bharang pur	Private	Agriculture	9//1	0.0924	Smt. Resham Devi W/o Sultan Singh S/o Shiv Narayan bila rahan Share 35/36 Share.

							Saye Moa, Amajad Khan, Lukmaan Sons of Gafoor Three Eq. Share rahan Share 1/108, Shubhan Khan S/o Malhu rahan Share 1/54 Share, Ata Mohammad S/o Amroop 1/72 Share, Abdulla S/o Nasru 1/72 Share
			Private	Agriculture	9//2/1	0.0849	Rahis, Majid, Shamsu Sons of Imrat S/o Himmat Three Eq. Share wasi Didara Maalkaan Kabza Pratitya Sarkar wasi Deh Hakdar Shamlat.
			Private	Agriculture	9//3	0.0492	Ayyub Khan, Islam, Deenu, Rashid Sons of Atri Widow Atar Khan Four Eq. Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	9//4	0.0139	Ayyub Khan, Islam, Deenu Rashid Sons of Atri Widow Four Eq. Share Maalkaan Kabza, Ayyub Khan Etc Munedraja Mundeja Khewat No 2 wasi Deh Hakdar Shamlat.
			Private	Agriculture	8//5	0.0073	Rahish S/o Imrat S/o Himmat 1/2 Share Maalik Kabza, Smt. Resham W/o Multan Singh S/o Shiv Narayan 1/2 Share Maalik Kabza Ibbat Wagera Munedraja Mundeja Khewat No 26 wasi Deh Hakdar Shamlaat.
			Private	Agriculture	7//22	0.0620	Robad, Rahish, Majid, Samsu Sons of Imrat S/o Himmat Four Eq. Share 1/2 Share Maalkaan Kabza, Chote Khan S/o Imrat S/o Dalla 1/2 Share Maalik Kabza
			Private	Agriculture	7//25	0.1017	Ayyub Khan, Islam, Deenu Rashid Sons of Atri Widow Four Eq. Share Maalkaan Kabza, Ayyub Khan Etc Munedraja Mundeja Khewat No 2 wasi Deh Hakdar Shamlat.
			Private	Agriculture	6//21	0.1492	Ali Mohammad S/o Hajji S/o Chahat 1/4 Share wasi Didhara, Ilyas, Islam, Shahid, Mohabbat Urf Kala Sons of Gafur Khan S/o Sumer Khan Five Eq. Share1/4 Share, Mauj Khan, Nasar Khan Sons of Sumer Khan Two Eq. Share 1/2 Share wasideh.
			Private	Agriculture	6//22	0.1464	Ishwar Singh S/o Kavar Sahi S/o Chandram wasi Chirag Delhi.
			Private	Agriculture	6//23	0.1051	Ishwar Singh S/o Kavar Sahi S/o Chandram wasi Chirag Delhi.
			Private	Agriculture	6//24	0.1635	Manish, Manjeet Sons & Smt. Maya W/o Satpal S/o Mahabir Singh Three Eq. Share wasi Chirag Delhi Maalkan Kabja, Mehar Singh, Maan Singh S/o Daulatram Two Eq. Share wasideh Hakdaran Shaamlat.
			Private	Agriculture	6//25/1	0.1249	Ayyub Khan, Islam, Deenu S/o Atri Widow of Atar Khan Three Eq. Share 1/2 Share, Ilyas, Khurshid, Taiyab Hussain, Rahisa, Fakrudeen Sons Sardar S/o Mula Khan Five Eq. Share 1/2 wasi Deh.
			Private	Agriculture	6//25/2	0.0137	Satbir Singh, Deep Chand, Pyare Lal Sons of Manohar Lal S/o Ram Prasad Three Eq. Share 3/4 Share, Mahesh Kumar Son & Smt. Savtri Devi Widow of Rishi Pal S/o Manohar Lal Two Eq. Share 1/4 Share Maalkaan Kabza, Arjun Singh S/o Atar Singh 1/4 Share wasi Deh Hakdar Shaamlat.
			Private	Agriculture	5//18	0.0272	Nathuram S/o Surat Singh S/o Shiv Lal wasi Didhara.
			Private	Agriculture	5//19	0.0039	Nathuram S/o Surat Singh S/o Shiv Lal wasi Didhara.
			Private	Agriculture	5//21	0.1362	Mahesh Kumar Son & Smt. Savtri Devi Widow Rishi Lal Two Eq. Share 1/4 Share Maalkan Kabza, Satbir Singh, Deep Chan, Pyare Lal Sons of Manohar Lal S/o Ram Prasad Three Eq. Share 3/4 Share Maalkan Kabza, Arjun Singh S/o Atar Singh wasi Deh Hakdar Shaamlat.

		Private	Agriculture	5//22/1	0.1291	Nathuram S/o Surat Singh S/o Shiv Lal wasi Didhara.
		Private	Agriculture	5//23	0.0984	Nathuram S/o Surat Singh S/o Shiv Lal wasi Didhara.
		Private	Agriculture	5//24/1	0.0226	Nathuram S/o Surat Singh S/o Shiv Lal wasi Didhara.
		Private	Agriculture	5//24/2	0.0423	Satbir Singh, Deep Chand, Pyare Lal Sons of Manohar Lal S/o Ram Prasad Three Eq. Share 3/4 Share, Mahesh Kumar Son & Smt. Savtri Devi Widow of Rishi Pal S/o Manohar Lal Two Eq. Share 1/4 Share Maalkaan Kabza, Arjun Singh S/o Atar Singh 1/4 Share wasi Deh Hakdar Shaamlat.
		Private	Agriculture	5//25	0.0378	Mahesh Kumar Son & Smt. Savtri Devi Widow of Rishi Lal Two Eq. Share 1/4 Share Maalkan Kabza, Satbir Singh, Deep Chan, Pyare Lal Sons of Manohar Lal S/o Ram Prasad Three Eq. Share 3/4 Share Maalkan Kabza, Arjun Singh S/o Atar Singh wasi Deh Hakdar Shaamlat.
		Private	Agriculture	4//16	0.1247	Ibrahim S/o Nanha S/o Ruda Maalik Kabza, Smt. Mehtab Kaur, Smt. Chiranji Karu Daughters Bishan Singh Two Eq. Share wasideh Hakdar Shaamlat.
		Private	Agriculture	4//17	0.1151	Tayyab S/o Sardar S/o Gulab 11/305 Share Maalik Kabza, Khurshid S/o Sardar Khan Urf Sardara S/o Gulab 111/305 Share Maalik Kabza, Ilyas, Rahisa, Fakrudeen Sons Sardar Khan S/o Gulab Three Eq. Share 3/5 Share Maalkan Kabza, Smt. Mehtab Kaur, Smt. Chiranjeet Kaur Daughters of Amrit Kaur
		Private	Agriculture	4//18/1	0.0798	Ilyas, Khurshid, Rahisa, Tayyab, Fakrudeen Khan Sons of Gulab Five Eq. Share Maalkan Kabza, Mehtab Kaur Wagera Mundeja Mundeja Khewat No 2 wasi Deh Hakdar Shaamlat.
		Private	Agriculture	4//19	0.0568	Ilyas, Khurshid, Rahisa, Tayyab, Fakrudeen Khan Sons of Gulab Five Eq. Share Maalkan Kabza, Mehtab Kaur Wagera Mundeja Mundeja Khewat No 2 wasi Deh Hakdar Shaamlat.
		Private	Agriculture	4//20/2	0.0609	Fateh Mohammad, Hamida, Majid, Sons of Safed Khan S/o Leela Three Eq. Share 1/3 Share Maalkan Kabza, Ishab, Yaseen S/o Nathu S/o Salem Two Eq. Share 2/3 Share
						Maalkan Kabza, Shri Ayyub Khan Etc Mundeja Khewat No 2 wasi Deh Hakdar Shaamlat.
		Private	Agriculture	4//20/3	0.0531	Usman, Abdul Gani, Deen Mohammad, Darab Sons of Aseen S/o Bhappu Four Eq. Share wasi Deh Maalkan Kabza, Samay Singh Kudiaram wasi Tavdu Hakdar Shaamlat.
		Private	Agriculture	4//21	0.0112	Usman, Abdul Gani, Deen Mohammad, Darab Sons of Aseen S/o Bhappu Four Eq. Share wasi Deh Maalkan Kabza, Samay Singh Kudiaram wasi Tavdu Hakdar Shaamlat.
		Private	Agriculture	3//19	0.1062	Suleman, Subhan Khan, Mallu, Noor Mohammad Sons of Nabira Khan S/o Ruda Four Eq. Share Maalkan Kabza, Shri Ayyub Khan Etc Mundeja Khewat No 2 wasi Deh Hakdar Shamlat.
		Private	Agriculture	3//20/2	0.1078	Ibrahim S/o Nanha S/o Ruda Malik Kabza, Ayyub Khan Wagera Mundeja Khewat No 2 wasi Deh Hakdar Shaamlat .

			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-101	0.0134	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-30	0.0002	Gram Panchayat
(6) Taoru			Private	Agriculture	130//16	0.1093	Atru, Deenu S/o Sher Mohammad S/o Umar Khan 1/4 share, Suban S/o Sumer Khan 1/8 Share, Haroon, Jamshed, Jafru Sons of Juhru Eq. Share 1/8 Share, Sirajudeen, Mehmod Khan Sons of Niwaj Khan 1/2 Share wasi Bavla Panchayat Deh
			Private	Agriculture	130//17/2	0.1877	Yaseen Khan S/o Bhappu S/o Ruda Wasi Deh.
			Private	Agriculture	130//18/1	0.0679	Yaseen Khan S/o Bhappu S/o Ruda Wasi Deh.
			Private	Agriculture	130//18/2	0.0573	Yaseen Khan S/o Bhappu S/o Ruda Wasi Deh
			Private	Agriculture	131//16	0.0938	Naveen Kumar, Sachin Kumar S/o Raghuvar Dayal S/o Pyare Lal Two Eq. Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	131//17/1	0.0369	Krishan Dayal, Naresh Kumar, Ramesh Kumar sons & Smt. Asha, Sure Khan Daughters of Deen Dayal S/o Smt. Dhapa Five Eq. Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	131//17/2	0.0746	Shiv Dayal S/o Purn S/o Girdhari 1/3 Share, Rameshwar S/o Yaad Ram S/o Purn 1/3 Share, Smt. Bhagwani Widow & Jagdish, Lilu Sons & Sunita, Soni, Urmila, Chatro Daughters of Ram Kawar S/o Maman Singh S/o Gyasi Eight Eq. Share 1/27 Share, Smt. Shakuntla Widow of Dulichand.
			Private	Agriculture	131//18	0.1305	Shiv Dayal S/o Purn S/o Girdhari 1/3 Share, Rameshwar S/o Yaad Ram S/o Purn 1/3 Share, Smt. Bhagwani Widow & Jagdish, Lilu Sons & Sunita, Soni, Urmila, Chatro Daughters of Ram Kawar S/o Maman Singh S/o Gyasi Eight Eq. Share 1/27 Share, Smt. Shakuntla Widow of Dulichand.
			Private	Agriculture	131//19	0.1072	Akbar, Akhtar Hussian, Shaukat Ali, Liyakat Ali, Jakir Hussain Sons of Hurmat S/o Shadi Five Eq. Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	131//20	0.1067	Akbar, Akhtar Hussian, Shaukat Ali, Liyakat Ali, Jakir Hussain Sons of Hurmat S/o Shadi Five Eq. Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	132//12	0.0408	Shyam Sunder, Mahendra Singh, Surendra Singh Sons of Ram Gopal S/o Ram Prasad Three Eq. Share 15/56 Share, Shiv Charan Dattak S/o Ram Richpal S/o Ganishi Lal 41/56 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	132//13	0.0755	Jainudeen S/o Mohammad Khan S/o Niwaj Khan 1/4 Share, Shiv Charan Dattak S/o Richpal S/o Ganeshi 1/4 Share, Khalil, Abdul Samay, Yakoob Sons of Sirajudeen S/o Niwaj Khan Four Eq. Share 1/2 Share wasi Deh.
			Private	Agriculture	132//14/1	0.0349	Khalil, Abdul Karim, Abdul Prasad, Yakoob Ahmad, Ayyub Sons of Sirajudeen S/o Niwaj Khan Five Eq. Share 1/2 Share, Jainudeen S/o Mohammad Khan S/o Nivraj Khan Haran Share, 1/2 Share, Shiv Charan Dattak S/o Ram Richpal 1/2 Share wasi Deh Murthan.
			Private	Agriculture	132//14/2	0.0464	Khalil, Abdul Karim, Abdul Prasad, Yakoob Ahmad, Ayyub Sons of Sirajudeen S/o Niwaj Khan Five Eq. Share 1/2 Share, Jainudeen S/o Mohammad Khan S/o Nivraj Khan Haran Share, 1/2 Share, Shiv Charan Dattak S/o Ram Richpal 1/2 Share wasi Deh Murthan.
			Private	Agriculture	132//15/2	0.0354	Khalil, Abdul Karim, Abdul Prasad, Yakoob Ahmad, Ayyub Sons of Sirajudeen S/o Niwaj Khan Five Eq. Share 1/2 Share, Jainudeen S/o Mohammad Khan S/o Nivraj Khan Haran

		(7) Gaurka					Share, 1/2 Share, Shiv Charan Dattak S/o Ram Richpal 1/2 Share wasi Deh Murthan.	
			Private	Agriculture	132//18	0.0083	Jainudeen S/o Mohammad Khan S/o Niwaj Khan 1/4 Share, Shiv Charan Dattak S/o Richpal S/o Ganeshi 1/4 Share, Khalil, Abdul Samay, Yakooob Sons of Sirajudeen S/o Niwaj Khan Four Eq. Share 1/2 Share wasi Deh.	
			Private	Agriculture	132//19	0.0158	Shyam Sunder, Mahendra Singh, Surendra Singh Sons of Ram Gopal S/o Ram Prasad Three Eq. Share 15/56 Share, Shiv Charan Dattak S/o Ram Richpal S/o Ganishi Lal 41/56 Share wasi Deh.	
			Private	Agriculture	132//20	0.0437	Shyam Sunder, Mahendra Singh, Surendra Singh Sons of Ram Gopal S/o Ram Prasad Three Eq. Share 15/56 Share, Shiv Charan Dattak S/o Ram Richpal S/o Ganishi Lal 41/56 Share wasi Deh.	
			Private	Agriculture	126//16/ 1	0.0018	Ram Kumar S/o Munsi Ram 3/4 Share, Smt. Swarsati Devi W/o Ram Kumar S/o Munsi Ram 1/4 wasi Deh.	
			Private	Agriculture	125//21	0.0924	Ram Kumar S/o Munsi Ram 3/4 Share, Smt. Swarsati Devi W/o Ram Kumar S/o Munsi Ram 1/4 wasi Deh.	
			Private	Agriculture	125//16/ 1	0.0147	Suresh Kumar S/o Raj Kumar S/o Kaliram 1/2 Share, Ram Kishor S/o Kishori Mal S/o Jagat Narayan 3/10 Share, Rajendra	
							S/o Ganesh Das S/o Tara Chan 1/5 Share wasi Deh.	
			Private	Agriculture	125//16/ 2	0.0140	Smt. Saraswati Devi W/o Ram Kumar S/o Munshi Ram wasi Deh.	
			Private	Agriculture	125//17	0.0131	Smt. Saraswati Devi W/o Ram Kumar S/o Munshi Ram wasi Deh.	
			Private	Agriculture	124//6	0.0046	Yusuf, Nasru Sons of Jagdev S/o Sai Khan Two Eq. Share 1/2 Share, Ibrahim S/o Ghamandi S/o Sadi Khan 1/6 Share, Ilyas, Mehboob S/o Hamid Khan S/o Ghamandi Two Eq. Share 1/6 Share, Farm Roshal Biotech Ltd 1/6 Share wasi Deh.	
			Private	Agriculture	124//20	0.0330	Suresh Kumar S/o Raj Kumar S/o Kaliram 1/2 Share, Ram Kishor S/o Kishori Mal S/o Jagat Narayan 3/10 Share, Rajendra S/o Ganesh Das S/o Tara Chan 1/5 Share wasi Deh.	
			Private	Agriculture	123//7	0.0350	Fakrudeen. Budhi, Yakooob S/o Jodha S/o Noor Khan Three Eq. Share wasi Deh.	
			Private	Agriculture	123//8/2	0.0297	Fakrudeen. Budhi, Yakooob S/o Jodha S/o Noor Khan Three Eq. Share wasi Deh.	
			Private	Agriculture	123//11	0.0474	Smt. Satwanti W/o Prem Chand S/o Kavar Lal 1/3 Share, Umardeen S/o Kalu S/o Maan Khan 1/12 Share, M/s Roshal Biotech Ltd 210 Okhla New Delhi 7/12 Share wasi Deh.	
			Private	Agriculture	R-190//2	0.0016	Smt. Ashrafi, Bharpai, Girraj Kaur Daughters of Ratan Singh Three Eq. Share 1/20 Share, Dhoma S/o Budh Singh S/o Fula 1/20 Share, Mati Maya Devi 1/20 Share, Gyani Ram, Dani Ram, Mangeram Sons & Smt. Samoti Urf Morti, Pram, Kela Daughters of Gordhan Six Eq. Share 3/40 Share	
			Private	Agriculture	R-320	0.0449	Jumla Mustrka malkan & deegar Hakdar hasab rasad rakba jameen wasideh	
				Private	Agriculture	20//11	0.0761	Rehman, Roje Khan Sons of Chander Khan S/o Wajira Eq. Share Half 1/2 Share, Yunus, Jubair Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajira Eq. Share 1/2 Share Byasyaan Deh.
				Private	Agriculture	20//12/1	0.0224	Rehman, Roje Khan Sons of Chander Khan S/o Wajira Eq. Share Half 1/2 Share, Yunus, Jubair Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajira

						Eq. Share 1/2 Share Byasyaan Deh.
		Private	Agriculture	20//12/2	0.0111	Rehman, Roje Khan Sons of Chander Khan S/o Wajira Eq. Share Half 1/2 Share, Yunus, Jubair Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajira Eq. Share 1/2 Share Dar 2/3 Share, Aaraji Matruka Gair Alat Shuda Tihai 1/3 Share
		Private	Agriculture	20//12/3	0.0401	Rehman, Roje Khan Sons of Chander Khan S/o Wajira Eq. Share Half 1/2 Share, Yunus, Jubair Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajira Eq. Share 1/2 Share Byasyaan Deh.
		Private	Agriculture	20//13	0.0674	Rehman, Roje Khan Sons of Chander Khan S/o Wajira Eq. Share Half 1/2 Share, Yunus, Jubair Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajira Eq. Share 1/2 Share Byasyaan Deh.
		Private	Agriculture	20//14/3	0.0254	Hamid Khan S/o Nihal Khan S/o Mahrab wasi Deh.
		Private	Agriculture	20//15/2	0.0330	Unnas S/o Rojdar S/o Wajira wasi Deh.
		Private	Agriculture	20//15/3	0.0119	Unnas, Jubair Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajira Eq. Share 1/2 Share, Roje Khan, Rehman Sons of Chander Khan S/o Wajira Eq. Share 1/2 Share wasiyaan Deh.
		Private	Agriculture	21//15	0.0160	Rahman, Roje Khan Sons of Chander Two Eq. Share 1/2 Share, Yunus, Juber, Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajira Two Eq. Share 1/2 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	19//11	0.0632	Unnas, Jubair Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajira Eq. Share 1/2 Share, Roje Khan, Rahman Sons of Chander Khan S/o Wajira Eq. Share 1/2 Share wasiyaan Deh, Mohan Lal, Yograj, Chunni Lal, Bhimsain,
						Lilhalfr Sons & Smt Krishna Devi, Rhalf Bai, Ishwar Devi, Virnawali, Pudha Devi, Rajnani, Neelam Kumar Daughters & Smt Tikai Bai Widow Sahab Ram S/o Gela Ram Eq. Share wasiyaan Deh Tavdu
		Private	Agriculture	19//12/1	0.0607	Manohar Lal, Yograj, Chunnilal, Bhimsain, Lilhalfr Sons & Smt. Krishna Bai, Rhalf Bai, Ishwarbai, Birnabai, Pushpa Devi, Raj Rani, Neelam Devi Daughters & Smt. Tikai Bai Widow Shabram S/o Gelaram Eq. Share Waasyaan Tavdu.
		Private	Agriculture	19//13/1	0.0552	Surajmal S/o Nihal Singh S/o Chela Ram 1/5 Share, Surendra Singh, Shishpal Sons of Mangni Ram S/o Nihal Singh Eq. Share 1/5 Share, Virendra S/o Bhim Singh S/o Nihal Singh 1/5 Share, Manoj Kumar S/o Bhram Prakash Singh 1/5 Share, Dharamvir S/o Satvir S/o Nihal Singh 1/5 Share Vaasyaan Shikohapur.
		Private	Agriculture	19//14/1	0.0096	Surajmal S/o Nihal Singh S/o Chela Ram 1/5 Share, Surendra Singh, Shishpal Sons of Mangni Ram S/o Nihal Singh Eq. Share 1/5 Share, Virendra S/o Bhim Singh S/o Nihal Singh 1/5 Share, Manoj Kumar S/o Bhram Prakash Singh 1/5 Share, Dharamvir S/o Satvir S/o Nihal Singh 1/5 Share Vaasyaan Shikohapur.
		Private	Agriculture	19//14/2	0.0432	Surajmal S/o Nihal Singh S/o Chela Ram 1/5 Share, Surendra Singh, Shishpal Sons of Mangni Ram S/o Nihal Singh Eq. Share 1/5 Share, Virendra S/o Bhim Singh S/o Nihal Singh 1/5 Share, Manoj Kumar S/o Bhram Prakash Singh 1/5 Share, Dharamvir S/o Satvir S/o Nihal Singh 1/5 Share Vaasyaan Shikohapur.
		Private	Agriculture	19//15	0.0394	Surajmal S/o Nihal Singh S/o Chela Ram 1/5 Share, Surendra Singh, Shishpal Sons of Mangni

				Ram S/o Nihal Singh Eq. Share 1/5 Share, Virendra S/o Bhim Singh S/o Nihal Singh 1/5 Share, Manoj Kumar S/o Bhram Prakash Singh 1/5 Share, Dharamvir S/o Satvir S/o Nihal Singh 1/5 Share Waasyaan Shikohapur.
				Bijendra Singh S/o Subesingh S/o Dharam Singh wasi Islampur, Smt. Mayadevi W/o Chetram S/o Kuderam 1/4 Share, Sunil Kumar S/o Ram Avtar S/o Gopichand 1/4 Share, Smt. Shashi Devi W/o Nem Chand S/o Mohan Lal 1/4 Share, Smt. Rekha Devi W/o Anil Kumar S/o Banwari Lal 1/4 Share Waasyaan Deh
				Bijendra Singh S/o Subesingh S/o Dharam Singh wasi Islampur, Smt. Mayadevi W/o Chetram S/o Kuderam 1/4 Share, Sunil Kumar S/o Ram Avtar S/o Gopichand 1/4 Share, Smt. Shashi Devi W/o Nem Chand S/o Mohan Lal 1/4 Share, Smt. Rekha Devi W/o Anil Kumar S/o Banwari Lal 1/4 Share Waasyaan Deh
				Bijendra Singh S/o Subesingh S/o Dharam Singh wasi Islampur
				Hurmali S/o Dal Khan S/o Fhood Khan 1/2 Share, Wahid, Kadir, Salim Sons of Tahil S/o Dal Khan Eq. Share 1/2 Share wasiyaan Deh.
				Juharudeen, Ayyub, Khurshid, Shahon, Amin, Akbar Sons of Hamid Khan S/o Hasam Khan Eq. Share wasiyaan Buraka.
				Hurmali S/o Dal Khan S/o Fhood Khan 1/2 Share, Wahid, Kadir, Salim Sons of Tahil S/o Dal Khan Eq. Share 1/2 Share wasiyaan Deh.
				Smt. Mayadevi S/o Chetram S/o Kuderam 1/4 Share, Sunil Kumar S/o Ram Avtar S/o Gopichand 1/4 Share, Smt. Shashi Devi W/o Nem Chand S/o Mohan Lal 1/4 Share, Smt. Rekha Devi W/o Anil Kumar S/o Banwari Lal 1/4 Share Waasyaan Deh.
				Smt. Mayadevi S/o Chetram S/o Kuderam 1/4 Share, Sunil Kumar S/o Ram Avtar S/o Gopichand 1/4 Share, Smt. Shashi Devi W/o Nem Chand S/o Mohan Lal 1/4 Share, Smt. Rekha Devi W/o Anil Kumar S/o Banwari Lal 1/4 Share Waasyaan Deh.
				Smt. Jamila W/o Abdul S/o Sardar wasi Chila, Bijendra Singh S/o Subesingh S/o Makhani Singh wasi Islampur
				Surajmal S/o Nihal Singh S/o Chela Ram 1/5 Share, Surendra Singh, Shishpal Sons of Mangni Ram S/o Nihal Singh Eq. Share 1/5 Share, Virendra S/o Bhim Singh S/o Nihal Singh 1/5 Share, Manoj Kumar S/o Bhram Prakash Singh 1/5 Share, Dharamvir S/o Satvir S/o Nihal Singh 1/5 Share
				Ishak, Nasir, Haroon, Jarjaet, Shokat, Mubin, Habibur, Rahman Sons of Yasin Khan S/o Mangli Eq. Share 1/4 Share, Jassu Ismail S/o Mangli S/o Kalu Eq. Share 1/2 Share, Mohammad Haroon S/o Jeevan Khan S/o Mangli 1/4 Share, Vaasiyaan Buraka Tavdu.
				Ishak, Nasir, Haroon, Jarjaet, Shokat,

					Mubin, Habijur, Rahman Sons of Yasin Khan S/o Mangli Eq. Share 1/4 Share, Jassu Ismail S/o Mangli S/o
					Kalu Eq. Share 1/2 Share, Mohammad Haroon S/o Jeevan Khan S/o Mangli 1/4 Share, Vaasiyaan Buraka Tavdu
	Private	Agriculture	12//21	0.0035	Juharudeen, Ayyub, Khurshid, Shahon, Amin, Akbar Sons of Hamid Khan S/o Hasam Khan Eq. Share wasiyaan Buraka.
	Private	Agriculture	12//22/2	0.0026	Albaksh, Khudabaksh, Hakamdeen Sons of Roshan Khan Bhure Khan Eq. Share wasiyaan Buraka Tavdu.
	Private	Agriculture	12//23/1	0.0103	Smt. Premwati W/o Bijendra Singh S/o Sube Singh wasi Islampur Gurgaon.
	Private	Agriculture	12//24/1	0.0129	Araji Matruka Gair Alat Shuda.
	Private	Agriculture	12//25/1	0.0017	Munshi, Ishlam, Kapura Eq. Share Bhagdaran
	Private	Agriculture	12//25/2	0.0007	Roshan S/o Bhure Kha S/o Rehmat 1/2 Share, Hameed S/o Hasam 1/2 Share, Bhagdarn
	Private	Agriculture	12//25/4	0.0027	Sahbuddin, Hasan Kha, Sohrab Sons Mukakh 3 Eq. Share 1/2, Udaybhan, Nashru Sons Jagdev S/o Mangli Eq. Share 1/2 Share bhagdaran marfat, Ramkanwar S/o Munshi Ram S/o Bhirmumal gair morusiyan Taoru
	Private	Agriculture	13//17	0.0130	Smt. Saraswati Devi W/o Ram Kumar S/o Munshi Ram Half 1/2 Share, Anuj S/o Ram Kavar S/o Munshi Ram Half 1/2 Share wasiyaan Gurgaon
	Private	Agriculture	13//18	0.0235	Smt. Sarswati Devi W/o Ram Kavar S/o Munshiram wasi Gurgaon
	Private	Agriculture	13//19	0.0258	Smt. Sarswati Devi W/o Ram Kavar S/o Munshiram wasi Gurgaon
	Private	Agriculture	13//21	0.0001	Sahbuddin, Hasan Kha, Sohrab Sons Mukakh 3 Eq. Share 1/2, Udaybhan, Nashru Sons of Jagdev S/o Mangli Eq. Share 1/2 Share bhagdaran marfat, Ramkanwar S/o Munshi Ram S/o Bhirmumal gair morusiyan Taoru
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	20//14/1	0.0319	Gram Panchayat
	Private	Agriculture	20//14/2	0.0043	Jumme Khan, Rahimudeen, Yusuf Sons of Husain Khan S/o
					Bahadar Khan Eq. Share wasiyaan Buraka Tavdu.
	Private	Agriculture	26	0.0180	Jumma Etc, Taiyyab Etc
	Private	Agriculture	27	0.0015	Yakob, Ishak, Israil, Mubin sons of Chaav Khan 4/15 Share, Amin, Samim Sons of Khurshid Eq. Share 1/15 Share, Jumman S/o Chote Khan 1/3 Share, Subhan Khan, Islyas Akbar, Bashir, Afsar Sons of Salhu 5/7 Share, Hakam, Hasan Mohammad, Shaukat, Asru, Basru, Jakir S/o Sher Khan 1/7 Share, Iqbal, Amjad, Taufik, Sons of Nasru 1/3 Share wasi Deh.
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	45	0.0453	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-113	0.0501	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-98	0.0147	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-99	0.0120	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-108	0.0345	Panchayat Deh

			Private	Agriculture	26-A	0.0061	Jumma Etc, Taiyyab Etc.
	(8) Buraka	Industrial	Non-Agriculture	1//15	0.0257		Farm Roshal Biotech Ltd Industrial State New Delhi wasideh.
		Industrial	Non-Agriculture	2//13	0.1274		Farm Innovative Out Sourcing Pvt Ltd 245/381 Share, Kamru S/o Jodha S/o Koni 91/381 Share, Budhi S/o Jodha S/o Koni 15/127 Share wasi Deh.
		Industrial	Non-Agriculture	2//14	0.0099		Kamru S/o Jodha S/o Koni 91/381 Share, Budhi S/o Jodha S/o Koni 15/127 Share, Ferm Innovative Out Sourcing Pvt Ltd 245/381 Share wasi Deh.
		Industrial	Non-Agriculture	2//18/1	0.0006		Farm Innovative Out Sourcing Pvt Ltd 245/381 Share, Kamru S/o Jodha S/o Koni 91/381 Share, Budhi S/o Jodha S/o Koni 15/127 Share wasi Deh.
		Industrial	Non-Agriculture	2//19	0.0060		Farm Roshal Biotech Ltd Industrial State New Delhi wasideh.
	(9) Rahedi	Private	Agriculture	29//3	0.0191		Asam Urf Goonga, Nawab S/o Chand Khan Hadh Two Eq. Share 1/3, Hasnu, Kalu, Ashu Sons of Munshi Sons Najar Khan Three Eq. Share 1/4 Share, Fakrudeen, Arshad Sons of Kamrudeen S/o Munshi Two
							Eq. Share 1/12 Share, Ikbali, Mustak, Shabir, Sons of Pahlul S/o Sahil Three Eq. Share 1/21 Share, Sohrab, Bhapur, Dilabar, Jafu, Islam, Salim Sons of Imam Khan S/o Najar Khan Six Eq. Share 2/7 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	29//4	0.0444		Asam Urf Goonga, Nawab S/o Chand Khan Hadh Two Eq. Share 1/3, Hasnu, Kalu, Ashu Sons of Munshi S/o Najar Khan Three Eq. Share 1/4 Share, Fakrudeen, Arshad Sons of Kamrudeen S/o Munshi Two Eq. Share 1/12 Share, Ikbali, Mustak, Shabir, Sons of Pahlul S/o Sahil Three Eq. Share 1/21 Share, Sohrab, Bhapur, Dilabar, Jafu, Islam, Salim Sons of Imam Khan S/o Najar Khan Six Eq. Share 2/7 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	29//5	0.0680		Asam Urf Goonga, Nawab S/o Chand Khan Hadh Two Eq. Share 1/3, Hasnu, Kalu, Ashu Sons of Munshi S/o Najar Khan Three Eq. Share 1/4 Share, Fakrudeen, Arshad Sons of Kamrudeen S/o Munshi Two Eq. Share 1/12 Share, Ikbali, Mustak, Shabir, Sons of Pahlul S/o Sahil Three Eq. Share 1/21 Share, Sohrab, Bhapur, Dilabar, Jafu, Islam, Salim Sons of Imam Khan S/o Najar Khan Six Eq. Share 2/7 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	29//7/1	0.0212		Asam Urf Goonga, Nawab S/o Chand Khan Hadh Two Eq. Share 1/3, Hasnu, Kalu, Ashu Sons of Munshi S/o Najar Khan Three Eq. Share 1/4 Share, Fakrudeen, Arshad Sons of Kamrudeen S/o Munshi Two Eq. Share 1/12 Share, Ikbali, Mustak, Shabir, Sons of Pahlul S/o Sahil Three Eq. Share 1/21 Share, Sohrab, Bhapur, Dilabar, Jafu, Islam, Salim Sons of Imam Khan S/o Najar Khan Six Eq. Share 2/7 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	29//8	0.0369		Ayyub S/o Bhoonga S/o Bakhtawar 1/2 Share,
							Devender Kumar S/o Chetram S/o Ghudemal 11/36 Share, Smt. Kamla W/o Banwari Lal S/o Prabhudayal 7/36 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	29//9	0.0603		Ayyub S/o Bhoonga S/o Bakhtawar 1/2 Share, Devender Kumar S/o Chetram S/o Ghudemal 11/36 Share, Smt. Kamla W/o Banwari Lal S/o Prabhudayal 7/36 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	29//10	0.0577		Ayyub S/o Bhoonga S/o Bakhtawar 1/2

						Share, Devender Kumar S/o Chetram S/o Ghudemal 11/36 Share, Smt. Kamla W/o Banwari Lal S/o Prabhudayal 7/36 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	30//1/1	0.0024	Asam Urf Goonga, Nawab S/o Chand Khan Hadh Two Eq. Share 1/3, Hasnu, Kalu, Ashu Sons of Munshi Sons Najar Khan Three Eq. Share 1/4 Share, Fakrudeen, Arshad Sons of Kamrudeen S/o Munshi Two Eq. Share 1/12 Share, Ikbali, Mustak, Shabir, Sons of Pahlul S/o Sahil Three Eq. Share 1/21 Share, Sohrab, Bhapur, Dilabar, Jafu, Islam, Salim Sons of Imam Khan S/o Najar Khan Six Eq. Share 2/7 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	30//1/2	0.0546	Harpal S/o Chirangi Lal S/o Ganga Sahai 2/3 Share wasi Tikri Gurgaon, M/s Farm Roshan Biotech Ltd R0 Okhla Industrial 1/3 Share wasi New Delhi.
		Private	Agriculture	30//3	0.0505	Sumer Khan, Khidki, Jagdish Sons of Habbad Three Eq. Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	30//4	0.0786	Sumer Khan, Khidki, Jagdish Sons of Habbad Three Eq. Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	30//5	0.0809	Hamid Khan S/o Chandmal S/o Budha 1/2 Share, Fateh Mohammad S/o Mohru S/o Jodha Two Eq. Share 1/2 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	31//1	0.0707	Hamid Khan S/o Chandmal S/o Budha 1/2 Share, Fateh Mohammad S/o Mohru S/o Jodha Two Eq. Share 1/2 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	24//21	0.0072	Mohru D/o Jodhi S/o Imam Khan wasi Deh.
		Private	Agriculture	24//22	0.0628	Surajmal, Sahaj Khan, Ashraf Sons of Kawal Khan S/o Khudabaksh Three Eq. Share 1/4 Share, Jumme Khan, Sama Mohammad Sons of Mawasi S/o Khudbaksh Two Eq. Share 1/4 Share, Ammi S/o Hasmal S/o Khudabaksh 1/4 Share, Fajjar S/o Surajmal S/o Nawal Khan 1/4 Share
		Private	Agriculture	24//23	0.0893	Surajmal, Sahaj Khan, Ashraf Sons of Kawal Khan S/o Khudabaksh Three Eq. Share 1/4 Share, Jumme Khan, Sama Mohammad Sons of Mawasi S/o Khudbaksh Two Eq. Share 1/4 Share, Ammi S/o Hasmal S/o Khudabaksh 1/4 Share, Fajjar S/o Surajmal S/o Nawal Khan 1/4 Share
		Private	Agriculture	24//24	0.0919	Sahajmal, Sahaj Khan, Ashraf S/o Kawal Khan S/o Khuda Baksh Three Eq. Share 1/4 Share, Jumme Khan, Samay Mohammad Sons of Mawasi S/o Khudbaksh Two Eq. Share 1/4 Share, Jabar Khan, Jaum Khan Sons of Ibrahim S/o Pirbaksh Two Eq. Share 1/4 Share, Ammi S/o Hashmal S/o Khudabaksh 1/4 Share wasi Deh.
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	28//6	0.0405	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-55	0.0978	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-56	0.0244	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-57	0.0794	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-48	0.0931	Panchayat Deh
	(10) Malaka	Private	Agriculture	3//12/3	0.0072	Ishak, Rajak, Nurdeen, Shokat Sons of Umed Khan S/o Jahaj Khan Four Eq. Share 1/6 Share, Kapur, Shakur Sons of Jahaj Khan S/o Malhu Two Eq. Share 1/3 Share, Khurshid Ahmad, Hamid, Wahid, Mahmood Sons of Shame S/o Kale Khan Four Eq. Share 225 Share, Jasrat, Abdulla, Irshad, Mohamdeen,

					Umardeen Sons of Shahid S/o Shame Five Eq. Share 1/10 Share wasi Deh.
	Private	Agriculture	3//13	0.2364	Kallu, Kamrudeen Sons of Hansa S/o Rimli Two Eq. Share 1/2 Share, Mansur Khan S/o Kamrudeen S/o Hansa 1/2 Share wasi Deh.
	Private	Agriculture	3//19	0.1082	Ishak, Rajak, Nurdeen, Shokat Sons of Umed Khan S/o Jahaj Khan Four Eq. Share 1/6 Share, Kapur, Shakur Sons of Jahaj Khan S/o Malhu Two Eq. Share 1/3 Share, Khurshid Ahmad, Hamid, Wahid, Mahmud Sons of Shame S/o Kale Khan Four Eq. Share 225 Share, Jasrat, Abdulla, Irshad, Mohamdeen, Umardeen Sons of Shahid S/o Shame Five Eq. Share 1/10 Share wasi Deh.
	Private	Agriculture	3//20	0.0931	Shamsu S/o Nasru S/o Budha 1/21 Share, Sulhad S/o Budha S/o Kanhaiya 2/7 Share, Bhambad, Jumma Sons of Budha S/o Kanhaiya Two Eq. Share 1/2 Share, Shahabudeen, Rukmudeen Sons of Nasru S/o Budha Two Eq. Share 1/6 wasi Deh.
	Private	Agriculture	R-123	0.0204	Rashid S/o Kallu wasi Deh
(11) Dalaka	Private	Agriculture	9//13	0.0376	Sardar S/o Ghamandi S/o Chutna wasi Deh.
	Private	Agriculture	9//14/2	0.1499	Sardar S/o Ghamandi S/o Chutna wasi Deh.
	Private	Agriculture	9//15	0.1289	Deena, Siraju, Misru, Noordeen Sons of Shadi S/o Kale Khan Four Eq. Share 1/5 Share, Ali Sher S/o Deen S/o Kale Khan 1/5 Share, Bhagmal, Shahabudeen, Salim Sons of Jumma S/o Kale Khan Three Eq. Share 1/5 Share, Khurshid Ahmad, Hamid, Wahid, Mahmud Sons Same Khan S/o Kale Khan Four Eq. Share 4/25 Share, Jasrat, Abdulla, Irshad, Mahamdeen, Umar Deen Sons
					of Shahid S/o Same Khan Five Eq. Share 1/25 Share wasi Deh, Pehlu S/o Firoj Khan S/o Kale Khan 1/5 Share wasi Malhaka.
	Private	Agriculture	10//5/2	0.0170	Amru, Chahat Sons of Kamlu S/o Kanhaiya Two Eq. Share 1/18 Share, Atar Khan S/o Chandru 1/18 Share, Jumma, Jamal, Jasmaal, Amtal Sons of Kanhaiya S/o Loda Four Eq. Share 2/9 Share, Sadrudeen S/o Karim S/o Munshi 1/36 Share, Munsed S/o Dhoop Singh S/o Daula 1/12 Share, Ikbali S/o Rahman S/o Munshi 1/36 Share, Rahim S/o Munshi S/o Daula 1/36 Share, Hasan Mohammad, Aas Mohammad, Nasrudeen, Amru Sons of Bhudhi S/o Daula Four Eq. Share 1/12 Share, Khurshid Aamin S/o Budh Singh S/o Daula Two Eq. Share 1/12 Share, Kamal S/o Bejraj Urf Chanda S/o Husaina 1/6 Share, Yasin, Mauji Sons of Ghosi S/o Husaina Every Two Shambhag 1/6 Share wasi Deh.
	Private	Agriculture	10//6	0.2255	Amru, Chahat Sons of Kamlu S/o Kanhaiya Two Eq. Share 1/18 Share, Atar Khan S/o Chandru 1/18 Share, Jumma, Jamal, Jasmaal, Amtal Sons of Kanhaiya S/o Loda Four Eq. Share 2/9 Share, Sadrudeen S/o Karim S/o Munshi 1/36 Share, Munsed S/o Dhoop Singh S/o Daula 1/12 Share, Ikbali S/o Rahman S/o Munshi 1/36 Share, Rahim S/o Munshi S/o Daula 1/36 Share, Hasan Mohammad, Aas Mohammad, Nasrudeen, Amru Sons of Bhudhi S/o Daula Four Eq. Share 1/12 Share, Khurshid Aamin S/o Budh Singh S/o Daula Two Eq. Share 1/12 Share, Kamal S/o Bejraj Urf Chanda S/o Husaina 1/6 Share, Yasin, Mauji Sons of Ghosi S/o Husaina Every Two Shambhag 1/6 Share wasi Deh.

		Private	Agriculture	10/7/1	0.0194	Shamsu, Sahabuddin, Rukmudeen Sons of Nasru S/o Budha Three Eq. Share wasideh.
		Private	Agriculture	10/7/2	0.1386	Deen Mohammad, Jimal Mohammad Sons of Fajjar S/o Kallu Two Eq. Share 1/3 Share, Nissar, Abbas, Taufik Sons of Lakhpat S/o Fajjar Three Eq. Share 1/6 Share, wasideh Asloop S/o Sugad Khan S/o Umed Khan 1/2 Share wasi Kharkhadi
		Private	Agriculture	10/7/3	0.0220	Samsu, Shahabudeen, Rukmudeen Sons Nasru S/o Budha Three Eq. Share 1/4 Share, Jumme Khan, Bhambad, Sulhad Sons of Budha S/o Kanhiya Three Eq. Share 3/4 Share wasideh.
		Private	Agriculture	10/8	0.0765	Samsu, Shahabudeen, Rukmudeen Sons Nasru S/o Budha Three Eq. Share 1/4 Share, Jumme Khan, Bhambad, Sulhad Sons of Budha S/o Kanhiya Three Eq. Share 3/4 Share wasideh.
		Private	Agriculture	10/9	0.0028	Khurshid Ahmad, Hamid, Jahid, Mohammad Sons of Shamay S/o Kale Khan Four Eq. Share Sambhag 4/5 Share wasideh, Jasrat, Abdullah, Irsad, Mohamdeen, Umardeen Sons of Shahid S/o Shame Khan Five Eq. Share 1/5 Share wasi Malhaka.
		Private	Agriculture	10/11/1	0.0541	Shakur S/o Jahaj 5/98 share, Bham Nasru S/o Shadi 5/98 Share, Ishak, Rajjak, Noordeen, Shaukat Sons of Umed Four Eq. Share 5/98 Share, Khurshid, Hamid, Wahid, Mahmud Sons Shamay Four Eq. Share 5/98 Share, Jasrat, Abdulla, Irshad, Mohammdeen, Umardeen Sons of Shahid S/o Shamay Khan Five Eq. Share 1/98 Share, Hayat Khan S/o Sardar Khan S/o Ghamandi 3/14 Share, Bhagmal, Shahabudeen, Salim Sons of Jumma S/o Kale Khan Three Eq. Share 18/49 Share, Kapoora, Jahaj Khan S/o Firoj Khan Two Eq. Share 5/49 Share wasi Deh, Pehlu S/o Firoj Khan S/o Kale Khan 5/49 Share wasi Malhaka.
		Private	Agriculture	10/11/2	0.0461	Ishak, Nasrudeen, Rajak, Shaukat Sons of Umer Khan S/o Jahaj Khan Four Eq. Share 1/3 Share wasi Deh, Kapoor Khan, Shakur Khan Sons of Jahaj Khan Two Eq. Share 2/3 Share, wasi Malhaka
		Private	Agriculture	10/12	0.1313	Deena, Siraju, Misru, Noordeen Sons of Shadi S/o Kale Khan Four Eq. Share 1/2 Share, wasideh Jahid, Shahid S/o Rahish Khan Sons Samay Khan Two Eq. Share 1/2 Share wasi Malhaka.
		Private	Agriculture	10/13	0.0134	Jumma Khan Bhambad, Sulhad Sons of Budha S/o Kanhaiya Three Eq. Share 3/4 Share wasi Deh, Shamsu, Sahabudeen, Rukmudeen Sons of Nasru S/o Bhudha Three Eq. Share 1/4 Share wasi Deh Malhaka.
		Private	Agriculture	11/1	0.2055	Ashraf S/o Sharif Khan S/o Chote Khan 8/9 Share, Sadrudeen S/o Karimkhan 1/36 Share, Munfed S/o Dhoop Singh 1/12 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	11/2	0.1193	Ashraf S/o Sharif Khan S/o Chote Khan 8/9 Share, Sadrudeen S/o Karimkhan 1/36 Share, Munfed S/o Dhoop Singh 1/12 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	6/15	0.0143	Sallu, Deenu S/o Ruda S/o Chote Khan Two Eq. Share 2/3 Share, Noor Mohammad S/o Chajju S/o Ruda 1/3 Share wasideh.
		Private	Agriculture	6/18	0.0489	Juharu, Fajjar Khan Sons of Jahaj Khan S/o Peeru Two Eq. Share 1/2 Share, Rasula, Noor

						Mohammad, Rujdar, Rajak Sons of Sumer Khan S/o Peeru Four Eq. Share 2/5 Share wasi Deh, Rahish S/o Yaseen S/o Roda 1/10 Share wasi Kharkhadi
		Private	Agriculture	6//22	0.0648	Juharu, Fajjar Khan Sons of Jahaj Khan S/o Peeru Two Eq. Share 1/2 Share, Rasula, Noor Mohammad, Rujdar, Rajak Sons of Sumer Khan S/o Peeru Four Eq. Share 2/5 Share wasi Deh, Rahish S/o Yaseen S/o Roda 1/10 Share wasi Kharkhadi
		Private	Agriculture	6//23/1	0.0864	Juharu, Fajjar Khan Sons of Jahaj Khan S/o Peeru Two Eq. Share 1/2 Share, Rasula, Noor Mohammad, Rujdar, Rajak Sons of Sumer Khan S/o Peeru Four Eq. Share 2/5 Share wasi Deh, Rahish S/o Yaseen S/o Roda 1/10 Share wasi Kharkhadi
		Private	Agriculture	6//23/2	0.2403	Wazeer Ramjan, Ramjani Rojdar Sons of Jai Singh S/o Allabaksh 4 Eq. Share wasi deh
		Private	Agriculture	5//2/1	0.0952	Nasru S/o Roda S/o Maid Khan wasi Deh.
		Private	Agriculture	5//2/2	0.0067	Mangal, Husaina, Deen Mohammad Sons of Maid Khan Urf Umed Khan S/o Roma Three Eq. Share wasideh.
		Private	Agriculture	5//10	0.0536	Ashu, Sahabudeen Sons of Chhutna Two Eq. Share 1/6 Share, Rujdar S/o Kale Khan 1/12 Share, Ayyub, Liyakat Sons of Rahim Baksh Two Eq. Share 1/12 Share, wasideh Kale Khan, Chutna Urf Chutna Sons of Mev Khan S/o Taj Khan Two Eq. Share 2/3 Share wasi Kharkhadi.
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	1//7	0.0598	Panchayat Deh
		Private	Agriculture	1//14	0.1615	Fajru, Nasira Sons of Bhola Urf Dhammu S/o Mangtu Two Eq. Share wasi Kharkhadi
		Private	Agriculture	1//17/1	0.0512	Fajru, Nasira Sons of Bhola Urf Dhammu S/o Mangtu Two Eq. Share wasi Kharkhadi
		Private	Agriculture	1//23/1	0.0567	Ishak, Illyas, Ibrahim, Khalil Ahmad Sons of Deen Mohammad S/o Sumer Four Eq. Share 7/32 Share, Unnas, Nasru Sons of Juhar Khan S/o Sadru Two Eq. Share 7/64 Share, Jumma S/o Sadru 7/64 Share, Ali Mohammad S/o Najru S/o Najbu 7/32 Share wasi Deh, Sher Mohammad S/o Hasan Khan S/o Ajim 7/64 Share wasi Ghulawat, Sattar S/o Chav Khan S/o Phool Singh 5/1416 Share, Fajru S/o Nasir S/o Umed 137/11328 Share
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-38	0.0002	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	30	0.0178	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-44	0.0371	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-46	0.0300	Panchayat Deh
	(12) Dhulawat	Private	Agriculture	39//5	0.0637	Isdrish, Rahmat, Rajjak Sons of Norang Three Eq. Share 1/3 Share, Rashid, Daud, Asgar Sons of Ujagar S/o Noor Khan Three Eq. Share, Usmaan, Jaan Mohammad, Jahir, Sirajuddin Sons of Surjan Noor Khan Four Eq. Share 1/3 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	39//6/1	0.0488	Paltu S/o Shadi S/o Bakhtawar wasi Deh.
		Private	Agriculture	39//6/2	0.0963	Paltu S/o Shadi S/o Bakhtawar wasi Deh.
		Private	Agriculture	39//6/3	0.0165	Paltu S/o Shadi S/o Bakhtawar wasi Deh.
		Private	Agriculture	38//1/1	0.0268	Paltu S/o Shadi S/o Bakhtawar wasi Deh.
		Private	Agriculture	38//1/2	0.2851	Paltu S/o Shadi S/o Bakhtawar wasi Deh.
		Private	Agriculture	38//1/3	0.0381	Israil, Saddik Sons of Murad S/o Badlu Two Eq. Share 1/3 Share, Mohammad, Jhaggad

					Sons of Badal Khan S/o Sahai Khan Two Eq. Share 2/3 Share wasi Deh.
	Private	Agriculture	38//10/2	0.0818	Paltu S/o Shadi S/o Bakhtawar wasi Deh.
	Private	Agriculture	29//4/1	0.0107	Jakar, Shahun, Jahid Sons of Daudh Khan S/o Umar Khan Three Eq. Share 1/27 Share, Jaan Mohammad S/o Umar Khan S/o Peer Khan Two Eq. Share 2/27 wasi Khan, Ishak, Jamil, Khalil Ahmad, Ahmad Jaan, Lakhpat Khan Sons of Abdul Rahman S/o Joravar Six Eq. Share 2/9 Share, Sahabudeen, Nawabdeen Jaikem Sons Kamrudeen S/o Jumma Baksh Thre Eq. Share 1/3 Share, Sadik S/o Karimbaksh S/o Bhaundu 1/9 Share, Khurshid S/o Nabi Baksh S/o Sugda 1/9 Share, Fathe Mohammad S/o Joravar S/o Makhmol 1/9 Share wasideh.
	Private	Agriculture	29//5	0.3057	Idrish, Sattar, Usmaan, Asgar Sons of Niwaj Khan S/o Sugda Four Eq. Share 4/5 Share, Jarjis, Murslin, Arstu Sons of Ibrahim S/o Niwaj Khan Three Eq. Share 1/5 Share wasi Deh.
	Private	Agriculture	29//6	0.1254	Idrish, Sattar, Usmaan, Asgar Sons of Niwaj Khan S/o Sugda Four Eq. Share 4/5 Share, Jarjis, Murslin, Arstu Sons of Ibrahim S/o Niwaj Khan Three Eq. Share 1/5 Share wasi Deh.
	Private	Agriculture	29//7/1	0.1371	Idrish, Sattar, Usmaan, Asgar Sons of Niwaj Khan S/o Sugda Four Eq. Share 4/5 Share, Jarjis, Murslin, Arstu Sons of Ibrahim S/o Niwaj Khan Three Eq. Share 1/5 Share wasi Deh.
	Private	Agriculture	29//7/2	0.1220	Jakar, Shahun, Jahid Sons of Daudh Khan S/o Umar Khan Three Eq. Share 1/27 Share, Jaan Mohammad S/o Umar Khan S/o Peer Khan Two Eq. Share 2/27 wasi Khan, Ishak, Jamil, Khalil Ahmad, Ahmad Jaan, Lakhpat Khan Sons of Abdul Rahman S/o Joravar Six Eq. Share 2/9 Share, Sahabudeen, Nawabdeen Jaikem Sons Kamrudeen S/o Jumma Baksh Thre Eq. Share 1/3 Share, Sadik S/o Karimbaksh S/o Bhaundu 1/9 Share, Khurshid S/o Nabi Baksh S/o Sugda 1/9 Share, Fathe Mohammad S/o Joravar S/o Makhmol 1/9 Share wasideh.
	Private	Agriculture	29//8	0.0013	Jakar, Shahun, Jahid Sons of Daudh Khan S/o Umar Khan Three Eq. Share 1/27 Share, Jaan Mohammad S/o Umar Khan S/o Peer Khan Two Eq. Share 2/27 wasi Khan, Ishak, Jamil, Khalil Ahmad, Ahmad Jaan, Lakhpat Khan Sons of Abdul Rahman S/o Joravar Six
					Eq. Share 2/9 Share, Sahabudeen, Nawabdeen Jaikem Sons Kamrudeen S/o Jumma Baksh Thre Eq. Share 1/3 Share, Sadik S/o Karimbaksh S/o Bhaundu 1/9 Share, Khurshid S/o Nabi Baksh S/o Sugda 1/9 Share, Fathe Mohammad S/o Joravar S/o Makhmol 1/9 Share wasideh.
	Private	Agriculture	29//13/2	0.2045	Ahmad, Taiyab Sons of Karim Khan S/o Jorawar Two Eq. Share 1/4 Share, Fathe Mohammad, Yaseen Sons of Jorawar S/o Makhmol Two Eq. Share 1/2 Share, Bashir Khan, Ise Khan, Ishak Mohammad, Jimal Ahamad, Khalil Ahamad, Ahamad Jaan, Lakhpat Khan Sons of Rahman Khan S/o Jorawar Every Seven 1/4 Share
	Private	Agriculture	29//14	0.2133	Ahmad, Taiyab Sons of Karim Khan S/o Jorawar Two Eq. Share 1/4 Share, Fathe Mohammad, Yaseen Sons of Jorawar S/o Makhmol Two Eq. Share 1/2 Share, Bashir

					Khan, Ise Khan, Ishak Mohammad, Jimal Ahamad, Khalil Ahamad, Ahamad Jaan, Lakhpat Khan Sons of Rahman Khan S/o Jorawar Every Seven 1/4 Share
					Ahmad, Taiyab Sons of Karim Khan S/o Jorawar Two Eq. Share 1/4 Share, Fathe Mohammad, Yaseen Sons of Jorawar S/o Makhmol Two Eq. Share 1/2 Share, Bashir Khan, Ise Khan, Ishak Mohammad, Jimal Ahamad, Khalil Ahamad, Ahamad Jaan, Lakhpat Khan Sons of Rahman Khan S/o Jorawar Every Seven 1/4 Share
					Nijra, Deen Mohammad Sons of Rahman S/o Khudabaksh Two Eq. Share wasi Deh.
					Samay Khan, Lahru S/o Nasru S/o Chuttan Two Eq. Share wasi Deh.
					Paltu S/o Shadi S/o Bakhtawar wasi Deh.
					Paltu S/o Shadi S/o Bakhtawar wasi Deh.
					Paltu S/o Shadi S/o Bakhtawar wasi Deh.
					Israil, Saddik S/o Murad S/o Badlu Two Eq. Share 1/3 Share, Mohammad, Jhaggad S/o Badal Khan S/o Sahai Khan Two Eq. Share 2/3 Share wasi Deh.
					Mohammad Ikbal S/o Kabir Ahmad s/o Yakoob Khan wasideh
					Jumma Khan, Khurshid S/o Nabibaksh S/o Sugda Two Eq. Share wasideh.
					Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan wasi Deh.
					Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan wasi Deh
					Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan wasi Deh.
					Fajjar, Kamrudeen, Sirajudeen Sons of Jagru S/o Anwar Three Eq. Share 1/2 Share, Deen Mohammad Mand Roop S/o Anwar 1/2 Share wasi Deh.
					Ikbal S/o Majid Khan S/o Atru 1/2 Share, Hakimuddin, Ralak Sons of Hamru S/o Safed Khan Two Eq. Share 1/2 Share.
					Maksud S/o Bambu S/o Maujam wasi Deh.
					Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan wasi Deh
					Amir, Amin, Yusuf, Isha Sons of Nathu S/o Maid Khan Four Eq. Share wasi Deh
					Fajjar, Kamrudeen, Sirajudeen Sons of Jagru S/o Anwar Three Eq. Share 1/2 Share, Deen Mohammad Mand Roop S/o Anwar 1/2 Share wasi Deh.
					Amir, Amin, Yusuf, Isha Sons of Nathu S/o Maid Khan Four Eq. Share wasi Deh
					Amir, Amin, Yusuf, Isha Sons of Nathu S/o Maid Khan Four Eq. Share wasi Deh
					Jumma Khan, Khurshid S/o Nabibaksh S/o Sugda Two Eq. Share wasideh.
					Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan wasi Deh
					Sunita Rani W/o Rishi Kumar S/o Om Prakash 1/2 Share, Anjana Rani W/o Praveen Kumar S/o Om Prakash 1/2 Share wasi Deh.
					Sunita Rani W/o Rishi Kumar S/o Om Prakash 1/2 Share, Anjana Rani W/o Praveen Kumar S/o Om Prakash 1/2 Share wasi Deh.
					Fajru S/o Asmo S/o Badlu 1/3 Share, Naseeb Khan, Israil Sons of Biland Khan S/o Bahad Two Eq. Share 1/6 Share, Deenu, Hasan Mohammad Sons of Jassu S/o Doda Two Eq.

						Share 1/6 Share, Suleman, Rajjak Sons of Mauji S/o Niwaj Khan Two Eq. Share 1/9 Share, Aas Mohammad, Asar Khan Sons of Mangal S/o Kanhaiya Two Eq. Share 1/9 Share, Nasru, Ajij Sons of Rahman S/o Gulab Two Eq. Share 1/18 Share, Hanif, Sarfudeen, Mehrudeen Sons of Umrav S/o Gulab Three Eq. Share 1/18 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	17//17/4	0.0010	Aas Mohammad, Asar Khan Sons of Mangal S/o Kanhiya Two Eq. Share 1/2 Share, Hanif, Sarfudeen, Mehrudeen Sons of Umrav S/o Gulab Three Eq. Share 23/93 Share, Nasru S/o Rahman S/o Gulab 15/62 Share, Ajij S/o Rahman S/o Gulab 1/93 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	17//18/1	0.0114	Suleman S/o Najir S/o Bhur Khan 1/3 Share, Rati Khan, Atar Khan, Mohammad Safi, Soharaab, Mihrab Sons Bashir S/o Bhure Khan Five Eq. Share 1/3 Share, Noor Mohammad S/o Bhur Khan S/o Maid Khan 1/3 Share wasideh.
		Private	Agriculture	17//24/1/2	0.0058	Suleman, Ali Mohammad Sons of Nadar S/o Kehar Two Eq. Share 2/3 Share, Farookh, Liyakat, Jawand, Shakir, Akil Sons of Jumme Khan S/o Nadar
						Five Eq. Share 1/3 Share wasideh.
		Private	Agriculture	17//25/1/1	0.0092	Hamida, Majji, Umardeen, Nisar, Arabdeen Sons of Habib S/o Mehtab Five Eq. Share 1/3 Share, Sattar, Mubin Sons of Fathe Mohammad S/o Mehtab Two Eq. Share 1/3 Share, Ayyub S/o Mehtab S/o Dekhar S/o 1/3 Share wasi Deh.
		Private	Agriculture	18//16	0.0309	Najir S/o Ranmal S/o Niwaj Khan 1/2 Share, Shahabudeen, Nijamudeen Sons of Wajir S/o Ranmal Two Eq. Share 1/2 Share wasideh.
		Private	Agriculture	18//17	0.0693	Ayyub, Fathe Mohammad, Ali Mohammad Mehboob Sons of Ishab S/o Mahrab Khan Four Eq. Share 4/5 Share, Jamshed, Mustak Sons of Ilyas Mohammad S/o Ishab Two Eq. Share 1/5 Share wasideh.
		Private	Agriculture	18//18	0.1447	Najir S/o Ranmal S/o Niwaj Khan wasi Deh.
		Private	Agriculture	18//19	0.1836	Najir S/o Ranmal S/o Niwaj Khan 1/2 Share, Shahabudeen, Nijamudeen Sons of Wajir S/o Ranmal Two Eq. Share 1/2 Share wasideh.
		Private	Agriculture	18//20	0.0691	Najir S/o Ranmal S/o Niwaj Khan 1/2 Share, Shahabudeen, Nijamudeen Sons of Wajir S/o Ranmal Two Eq. Share 1/2 Share wasideh.
		Private	Agriculture	19//20	0.0112	Asraf, Dilawar, Shakrulla Sons of Jabar Khan S/o Sulhad Three Eq. Share
		Private	Agriculture	19//21	0.3449	Asraf, Dilawar, Shakrulla Sons of Jabar Khan S/o Sulhad Three Eq. Share
		Private	Agriculture	19//22/2	0.0653	Mohammad Khan S/o Jhaggad S/o Vasal Khan wasi Deh.
		Private	Agriculture	19//23/1	0.0080	Asraf, Dilawar, Shakrulla Sons of Jabar Khan S/o Sulhad Three Eq. Share
		Private	Agriculture	19//23/3	0.0066	Ganeshram S/o Khilanda Ram S/o Bishan Ram Rahin wasideh, Ram Kishan, Govind Ram Sons of Jeevandas S/o Dhutraram Two Eq. Share wasi Sohna Murthanaan
		Private	Agriculture	21//1	0.0144	Daaud, Deen Mohammad Sons of Chaav Khan S/o Chaav Khan S/o Mohammad Khoo Two Eq. Share 1/4 Share, Aas Mohammad S/o Mamla S/o Mohammad Khan 1/4 Share, Kawar Khan S/o Jahaj Khoo S/o Murad 1/2 Share wasideh.
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	21//1/1	0.0227	Panchayat Deh
		Private	Agriculture	21//1/2	0.0875	Daaud, Deen Mohammad Sons Chaav Khan

					S/o Chaav Khan S/o Mohammad Khshn Two Eq. Share 1/4 Share, Aas Mohammad S/o Mamla S/o Mohammad Khan 1/4 Share, Kawar Khan S/o Jahaj Khoo S/o Murad 1/2 Share wasideh.
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-481	0.0329	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-482	0.0285	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-490	0.0560	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-491	0.0274	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-504	0.0217	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-506	0.0116	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	N-54	0.1211	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	55	0.0093	Panchayat Deh.
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	70	0.1032	Panchayat Deh
	Private	Agriculture	19//25/1	0.0015	Kasam, Fajru S/o Mohar Singh S/o Kala Two Eq. Share 1/3 Share, Javed, Musti Khan, Shahrukh Khan Sons of Hasam S/o Mohar Singh Three Eq. Share 1/6 Share wasideh, Jabrudeen, Hanif, A Majid S/o Subrati S/o Chota Three Eq. Share 1/2 Share wasi Kinjar District Alwar
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	19//25/3	0.0144	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	22//5/1	0.0004	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	22//5/2	0.0035	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	22//5/3	0.0148	Panchayat Deh
(13) Kharkhari	Private	Agriculture	27//18/1	0.0054	Jumma Khan, Rahman, Hussain Khan, Ashraf Khan Sons Sharif Khan S/o Chote Khan Four Eq. Share wasi Deh.
	Private	Agriculture	27//17	0.2861	Kamrudeen, Rashid, Hanif, Rahish, Sons Yaseen S/o Rohda Four Eq. Share wasideh.
	Private	Agriculture	27//14/2	0.0696	Jumma Khan, Rahman, Hussain Khan, Ashraf Khan Sons Sharif Khan S/o Chote Khan Four Eq. Share wasi Deh.
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	27//14/1	0.0019	Gram Panchayat
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	27//15	0.1858	Gram Panchayat
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-47	0.0552	Gram Panchayat
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	27//6	0.1624	Gram Panchayat
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	28//10	0.2106	Gram Panchayat
	Private	Agriculture	28//1	0.1598	Badleram, Totaram, Jeetram, Digram Sons & Smt. Sunairi, Premwati Daughters & Smt. Pramali Widow of Ramswaroop Seven Eq. Share 1/4 Share, Lakhiram, Yaadram, Maamraj Sons & Smt. Kela, Laxmi, Anguri, Sarbati Daughters of Gyasi S/o Bambad Seven Eq. Share 1/4 Share, Maamchand S/o Mambad S/o Daya Kishan 1/4 Share, Smt. Kela Widow Shibbu S/o Mambad 1/4 Share wasideh.
	Private	Agriculture	28//2	0.1525	Badleram, Totaram, Jeetram, Digram Sons & Smt. Sunairi, Premwati Daughters & Smt.

							Pramali Widow of Ramswaroop Seven Eq. Share 1/4 Share, Lakhiram, Yaadram, Maamraj Sons & Smt. Kela, Laxmi, Anguri, Sarbati Daugthers of Gyasi S/o Bambad Seven Eq. Share 1/4 Share, Maamchand S/o Mambad S/o Daya Kishan 1/4 Share, Smt. Kela Widow Shibbu S/o Mambad 1/4 Share wasideh.
			Private	Agriculture	21//22/1	0.0047	Badleram, Totaram, Jeetram, Digram Sons & Smt. Sunairi, Premwati Daugthers & Smt. Pramali Widow of Ramswaroop Seven Eq. Share 1/4 Share, Lakhiram, Yaadram Maamraj Sons & Smt. Kela, Laxmi, Anguri Sarbati Daugthers of Gyasi S/o Bambad Seven Eq. Share 1/4 Share, Maamchand S/o Mambad S/o Daya Kishan 1/4 Share, Smt. Kela Widow Shibbu S/o Mambad 1/4 Share wasideh.
			Private	Agriculture	21//22/2	0.2060	Badleram, Totaram, Jeetram, Digram Sons & Smt. Sunairi, Premwati Daugthers & Smt. Pramali Widow of Ramswaroop
							Seven Eq. Share 1/4 Share, Lakhiram, Yaadram, Maamraj Sons & Smt. Kela, Laxmi, Anguri, Sarbati Daugthers of Gyasi S/o Bambad Seven Eq. Share 1/4 Share, Maamchand S/o Mambad S/o Daya Kishan 1/4 Share, Smt. Kela Widow Shibbu S/o Mambad 1/4 Share wasideh.
			Private	Agriculture	21//23	0.1473	Badleram, Totaram, Jeetram, Digram Sons & Smt. Sunairi, Premwati Daugthers & Smt. Pramali Widow of Ramswaroop Seven Eq. Share 1/4 Share, Lakhiram, Yaadram, Maamraj Sons & Smt. Kela, Laxmi, Anguri, Sarbati Daugthers of Gyasi S/o Bambad Seven Eq. Share 1/4 Share, Maamchand S/o Mambad S/o Daya Kishan 1/4 Share, Smt. Kela Widow Shibbu S/o Mambad 1/4 Share wasideh.
			Private	Agriculture	21//19/1	0.0026	Badleram, Totaram, Jeetram, Digram Sons & Smt. Sunairi, Premwati Daugthers & Smt. Pramali Widow of Ramswaroop Seven Eq. Share 1/4 Share, Lakhiram, Yaadram, Maamraj Sons & Smt. Kela, Laxmi, Anguri, Sarbati Daugthers of Gyasi S/o Bambad Seven Eq. Share 1/4 Share, Maamchand S/o Mambad S/o Daya Kishan 1/4 Share, Smt. Kela Widow Shibbu S/o Mambad 1/4 Share wasideh.
			Private	Agriculture	21//18/1	0.2284	Najir, Majid, Rajmal S/o Ubhed S/o Alla Baksh Three Eq. Share wasideh.
			Private	Agriculture	21//18/2	0.1225	Badleram, Totaram, Jeetram, Digram Sons & Smt. Sunairi, Premwati Daugthers & Smt. Pramali Widow of Ramswaroop Seven Eq. Share 1/4 Share, Lakhiram, Yaadram, Maamraj Sons & Smt. Kela, Laxmi, Anguri, Sarbati Daugthers of Gyasi S/o Bambad Seven Eq. Share 1/4 Share, Maamchand
							S/o Mambad S/o Daya Kishan 1/4 Share, Smt. Kela Widow Shibbu S/o Mambad 1/4 Share wasideh.
			Private	Agriculture	21//13	0.0140	Najir, Majid, Rajmal S/o Ubhed S/o Alla Baksh Three Eq. Share wasideh.
			Private	Agriculture	21//14	0.1531	Najir, Majid, Rajmal S/o Ubhed S/o Alla Baksh Three Eq. Share wasideh.
2	Nuh	(1) Atta	Private	Agriculture	4//16	0.0298	Mawasi S/o Najar Khan S/o Mammal wasi Rampur
			Private	Agriculture	5//20	0.0275	Abdul Gani, Abdul Gaffar, ,Mohhmad Israil, Haroon Sons of Hanif S/o Salim Khan Four Eq. Share 1/3 Share, Fida Mohammad Munir

							Khan S/o Chandermal 1/3 Share, Ali Mohammad, Anwar, Raj Mohammad Sons of Husain Khan S/o Chander Mal Three Eq. Share 1/3 Share wasideh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	5//19	0.0354	Panchayat Deh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	5//14	0.0261	Panchayat Deh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	5//18	0.0050	Panchayat Deh
	(2) Rampur		Private	Agriculture	11//15	0.0493	Balvir Singh, Chandra Pal Singh, Benami Sons Gopal Singh S/o Ruda Three Eq. Share 1/2 Share wasi Deh, Smt. Nanke Devi Widow & Smt. Sunita, Anita, Kavita Daughters of Shripal S/o Sohan Singh Eq. Share 2/15 Share, Smt. Yogesh Widow & Rahul Son & Smt. Piya, Priti Daughters of Nippu S/o Shri Pal Four Eq. Share 1/30 Share, Ashok, Dharamvir sons of Sohan Singh S/o Ruda Eq. Share 1/3 Share wasiyaan Atta, Shripal Four Eq. Share 1/30 Share, Dharamvir, Ashok Sons of Sohan Singh S/o Ruda Two Eq. Share 1/3 Share Niwasiyaan Ata.
			Private	Agriculture	10//6	0.0939	Manoj Kumar S/o Amichand S/o Khyali Niwasi Jamiya Nagar, New Delhi, Maalik Kabja, Manak Singh, Tej Singh, Mohar Singh Sons of Sardeep Singh Sambhag Hakdar Shaamlat.
			Private	Agriculture	10//7	0.0564	Manish Raghav S/o Narendra Singh Yadav 3/160 Share, Smt. Usha Rani W/o Thakur Das 1/128 Share, Sushma Dudeja W/o Sanjay Judeja 1/128 Share, Smt. Ansu Mehta W/o Vijay Mehta 3/160 Share, Smt. Sunita W/o Anil Mehta 3/160 Share, Smt. Seema W/o Mahendra Singh 1/64 Share wasi Deh Smt. Saroj Devi W/o Surajmal 3/160 Share wasi Kurdhla, Smt. Vinita Sinha W/o Anil Sinha 1/20 Share, Smt. Geeta W/o Kishan Singh 1/32 Share, Deepak Jain S/o Satendra Jain 3/160 Share, Neeraj Kumar S/o Jagnath 3/160 Share, Smt. Jyoti Gogiya W/o Shiv Kumar Gogiya 3/320 Share, Smt. Savita Rani W/o Chandramani 3/320 Share, Smt. Ramawati W/o Yaadram 3/160 Share, Jagdish Verma S/o Parmanand 3/80 Share, Smt. Rama W/o Rajesh Kumar 1/80 Share, Smt. Saveta W/o Krishan Kumar 1/80 Share, Smt. Narangi W/o Ghabar Dayal 1/80 Share, Neel Kamal Jain S/o Shyam Sunder Jain 1/16 Share, Smt. Savtri W/o Surendra Singh 3/320 Share, Smt. Jagwati W/o Arjan Singh 17/320 Share, Ajeet Singh S/o Dilip Singh 3/64 Share, Avtar Singh S/o Fakira Singh 110 Share, Trilok Chand S/o Shyoprasad 1/10 Share, Ghanshyamdas S/o Mangat Ram 1/10 Share, Jai Narayan S/o Gokal Chand 1/10 Share wasi Deh, Adesh Kumar S/o Ramji Lal S/o Mawasi Ram 1/64 Share wasi Indri.
			Private	Agriculture	10//8	0.0166	Manohar Lal, Ghanshyam Das Sons & Smt. Shanti Devi, Kailesh Kumari, Sumitra Devi, Kunti Devi, Phoolwati Daughters of Gyaan Chand S/o Devi Sahay Seven Eq. Share Saknaan Sohna.
			Private	Agriculture	10//11	0.1108	Balvir Singh, Chandra Pal Singh, Benami Sons Gopal Singh S/o Ruda Three Eq. Share 1/2 Share, Smt. Nanno Devi Widow & Smt.

						Sunita, Anita, Kavita Daughters of Shripal S/o Sohan Singh Four Eq. Share 2/15 Share, Smt. Yogesh Wife & Rahul Son & Priti, Priya Daughters of Nippo Shripal
		Private	Agriculture	10//12	0.1391	Balvir Singh, Chandra Pal Singh, Benami Sons Gopal Singh S/o Ruda Three Eq. Share 1/2 Share, Smt. Nanno Devi Widow & Smt. Sunita, Anita, Kavita Daughters of Shripal S/o Sohan Singh Four Eq. Share 2/15 Share, Smt. Yogesh Wife & Rahul Son & Priti, Priya Daughters of Nippo Shripal
		Private	Agriculture	10//13	0.1030	Anil Kumar S/o Hari Kishan S/o Bhuru Singh Niwasi Liwas Pur Delhi Maalik Kabja, Ayudhya Prasad S/o Devi Sahay wasi Sohna Hakdar Shaamlat
		Private	Agriculture	10//14	0.0171	Jaswant Kumar Goyal S/o Santlal Goyal Niwasi Pingaon Firojpur Jhirka Maalik Kabza, Nanak Singh, Tejsingh, Mohar Singh Sons of Sarjeet Singh Pesar Mutwana, Smt. Bhagwati Three Eq. Share wasideh Hakdaran Shaamlat.
		Private	Agriculture	9//7	0.0510	Rajpal 8/163 Share, Vijay Pal 8/163 Share Sons of Ram Chand S/o Jugla, M/s Ajay Enterprises Pvt Ltd Nehru Palace New Delhi 147/163 Rahinaan, Balvir Singh, Chandrapal Bainami Sons & Kasturi, Kisso Daughters & Smt. Gopal Urf Gopal Singh Eq. Share 1/2 Share, Dharamvir Singh, Ashok Sons of Sohan Singh 1/3 Share, Smt. Nangi Devi Widow & Sunita, Anita, Kavita Daughters of Shripal S/o Sohan Singh 2/5 Share, Smt. Yogesh Widow & Rahul Son & Smt. Priti, Priya D/o Nippo S/o Shripal 1/30 Share Murthanaan
						Avval Rahinaan, M/s Ajay Madhuwan Enter Pvt Ltd Nehru Palace New Delhi wasi Deh Murthan Doyam.
		Private	Agriculture	9//8/1	0.0370	Ram Chand S/o Jugla S/o Jawala Singh 1/4 Share, M/s Ajay Enterprises Pvt Ltd 1/4 Share, Rampat, Ram Kuvar Singh Sons of Lakhpatt Singh S/o Shri Ram Two Eq. Share 1/2 Share wasi Deh Maalkan Kabza, Ram Chand S/o Jugla Hakdar Shaamlat.
		Private	Agriculture	9//8/2	0.0789	M/s Ajay Madhuwan Enter Pvt Ltd Nehru Palace New Delhi Dwara, Hans Raj Verma S/o M L Verma N0 T- 15 Ward-8 Mehrauli.
		Private	Agriculture	9//9	0.1083	Mai Ajay Madhuwan Enter Pvt Ltd Nehru Palace New Delhi Dwara Hans Raj Verma S/o M L Verma N0 T- 15 Ward-8 Mehrauli.
		Private	Agriculture	9//10	0.1094	Amichand S/o Khayali S/o Half 1/2 Share Wasideh, Smt. Bimla W/o Ami Chand S/o Khayali 1/2 Share wasiyaan 13 Jogabai, Jamiya Nagar Delhi
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	15//20	0.0165	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-25	0.0252	Panchayat Deh
	(3) Uddaka	Private	Agriculture	7//3	0.1437	Ved Prakash, Indras, Balraj, Rakesh Sons of Hukam Singh S/o Shri Ram Four Eq. Share 2/3 Share Maalkan Kabza, Bhrama Devi, Ramesh Devi Daughters of Hukam Singh S/o Shri Ram Two Eq. Share 1/3 Share Maalkan Kabza, Smt. Radhabai W/o Bhajan Lal wasideh Hakdar Shaamlat.
		Private	Agriculture	7//6	0.2502	Ranjeet, Ajit, Jagdish Sons & Smt. Baleshwari, Gyaanwati, Kamlesh, Rajodevi Daughters & Smt. Chandi Widow of Fakira S/o Shiv Dayal Eight Eq. Share Maalkan Kabza, Aasanand, Jugal Kishor, Jagdish,

					Ramsaran, Krishna Lal Sons Uday Ram S/o Ghanshyam Five Eq. Share wasi Deh Hakdaran Shaamlat.
	Private	Agriculture	7//7	0.2143	Rampat S/o Shiv Dayal S/o Chote wasi Deh Maalik Kabza, Asamchand S/o wasideh Hakdaran Shaamlat.
	Private	Agriculture	7//8/1	0.0348	Rampat S/o Shiv Dayal S/o Chote wasi Deh Maalik Kabza, Asamchand S/o wasideh Hakdaran Shaamlat.
	Private	Agriculture	7//8/2	0.2163	Rampat S/o Shiv Dayal S/o Chote wasi Deh Maalik Kabza, Asamchand S/o wasideh Hakdaran Shaamlat.
	Private	Agriculture	7//9	0.0377	Rampat S/o Shiv Dayal S/o Chote wasi Deh Maalik Kabza, Asamchand S/o wasideh Hakdaran Shaamlat.
	Private	Agriculture	26	0.0372	Shaam Lat Patti Gujraan Hasab Rasad Kabja Aaraji Bandobast Year 1938-1939
	Private	Agriculture	8//6	0.0677	Chandgi S/o Prathvi S/o Ram Lal wasi Deh.
	Private	Agriculture	8//7	0.1403	Krishan Pal, Vinod Kumar Sons Rampal Two Eq. Share wasideh
	Private	Agriculture	8//8	0.1845	Krishan Pal, Vinod Kumar Sons of Rampal Two Eq. Share wasideh, Krishnapal S/o Harpal S/o Shibba 1/6 Share, Vijay Pal Singh S/o Pyare Lal S/o Shibba 1/6 Share, Chand Lal S/o Vedram S/o Shibba 1/6 Share, Smt. Visho W/o Tek Chand S/o Horam 1/2 Share wasideh.
	Private	Agriculture	8//9	0.1681	Ram Lal S/o Shiv Dayal S/o Chotte wasideh.
	Private	Agriculture	8//10	0.2229	Harbhajan, Harcharan Sons of Dungar S/o Chain Sukh Every Two Sambhag wasideh, Rampat S/o Shiv Dayal S/o Chote wasi Deh Maalik Kabza, Asamchand S/o wasideh Hakdaran Shaamlat.
	Private	Agriculture	8//13	0.0248	Krishnapal S/o Harpal S/o Shibba 1/6 Share, Vijay Pal Singh S/o Pyare Lal S/o Shibba 1/6 Share, Chand Lal S/o Vedram S/o Shibba 1/6 Share, Smt. Visho W/o Tek Chand S/o Horam 1/2 Share wasideh.
	Private	Agriculture	8//14	0.0015	Chandgi S/o Prathvi S/o Ram Lal wasi Deh.
	Private	Agriculture	8//15/1	0.0083	Chandgi S/o Prathvi S/o Ram Lal wasi Deh.
	Private	Agriculture	8//15/2	0.0247	Smt. Murti W/o Desi S/o Munsi wasi Deh.
	Private	Agriculture	8//16/1	0.0674	Smt. Murti W/o Desi S/o Munsi wasi Deh.
	Private	Agriculture	8//16/2	0.0929	Smt. Murti W/o Desi S/o Munsi wasi Deh.
	Private	Agriculture	9//10	0.0037	Shamsudeen, Kamrudeen Sons of Ishab S/o Abdul Hamid Two Eq. Share Maalkan Kabaja, Mukhram Dattak S/o Shisva wasideh Hakdar Shaamlat.
	Private	Agriculture	9//11	0.0629	Smt. Murti W/o Desi S/o Munsi wasi Deh.
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-347	0.0123	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-346	0.0429	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-345	0.0403	Panchayat Deh
(4) Bhirawati	Private	Agriculture	1//15	0.0120	Bhajan Lal, Bir Singh Sons of Dulli S/o Inder Two Eq. Share wasiyaan Deh
	Industrial	Non-Agriculture	2//11	0.0242	M/s C.E.S. Investment Management Consultant Pvt Ltd.

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/439]

O.P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)